



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 1—अक्टूबर 7, 2005 (आश्विन 9, 1927)
No. 40] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 1—OCTOBER 7, 2005 (ASVINA 9, 1927)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110069, दिनांक 8 सितम्बर 2005

सं. ए-60011/8/05-प्रशा.-1--धारा 19 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई विशेष विषय-वस्तु के बारे में एतद्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में नामोद्घिष्ट किया जाता है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं.	विषय-वस्तु
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	एम. पी. सिंह	संयुक्त सचिव (प.)	23381164	आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित सभी मामले तथा गोपनीय शाखा से संबंधित सभी मामले
2.	वेद प्रकाश	संयुक्त सचिव (भ.)	23385090	साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती/परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती से संबंधित सभी मामले
3.	वासुमित्रा	संयुक्त सचिव (प.सु.)	23386793	परीक्षा सुधार से संबंधित सभी मामले
4.	ए. के. दास	संयुक्त सचिव (प्रशा./सत.)	23385883	आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामले

1	2	3	4	5
5.	पी. सी. बर्नवाल	संयुक्त सचिव (नि.)	23385374	पदोन्नति द्वारा नियुक्ति और प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा नियुक्तियों से संबंधित सभी मामले
6.	आर. एल. सिद्धू	संयुक्त सचिव (भ. नि.)	23385176	समूह "क" और "ख" के पदों के लिए भर्ती नियमों के बनाने और संशोधन से संबंधित सभी मामले
7.	के. एम. शाहिद	संयुक्त सचिव (से.-I क)	23070813	बड़ी शास्ति लगाए जाने के बारे में (आयोग को भेजे गए) अनुशासनिक मामलों संबंधी सभी मामले
8.	प्रदीप कुमार	संयुक्त सचिव (से.-I ख)	23386585	छोटी शास्ति लगाए जाने और समूह "ग" और "घ" के पदों की पेंशन में कटौती के बारे में (आयोग को भेजे गए) अनुशासनिक मामलों संबंधी सभी मामले
9.	प्रवीण श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव (अ.भा.से.)	23073413	अखिल भारतीय सेवाओं में शामिल किए जाने से संबंधित सभी मामले
10.	जितेन्द्र कुमार	उप सचिव (सामा.)	23070261	आयोग की सामा. शाखा से संबंधित सभी मामले
11.	किशन लाल	उप सचिव (से.-II)	23381440	सेवा नियम/विनियम और इनमें संशोधन से संबंधित सभी नीतिगत मामले। संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम और संघ लोक सेवा आयोग को सलाह/सिफारिशों के लिए प्राप्त हुए संदर्भ संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट राज्य लोक सेवा आयोगों के सम्मेलन सहित विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों से प्राप्त हुए संदर्भ।

एस. आनंदन
अवर सचिव (प्रशा.)

सं. ए-60011/8/05-प्रशा.-1--धारा 19 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(2) की शर्तों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाई विशेष विषय-वस्तु के बारे में एतद्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में नामोद्दिष्ट किया जाता है :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष नं.	विषय-वस्तु
1	2	3	4	5
1.	श्री डी. के. सामंतरे	अपर सचिव (नि.प्र.सा.से.)	23384688	आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रशासनिक एवं स्थापना संबंधी मामले --सभी हाउस कीपिंग संबंधी मामले --केन्द्रीय समूह "क" और "ख" पदों के लिए पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा/आमेलन द्वारा नियुक्ति से संबंधित संघ लोक सेवा आयोग की नियुक्ति शाखा में विभिन्न मेशालियों/विभागों से प्राप्त सभी प्रस्ताव/मामले

1	2	3	4	5
				--आयोग को भेजे गए अनुशासनिक संबंधी सभी मामले --भर्ती नियमों के निर्धारण और इनमें संशोधन के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हुए प्रस्ताव --राज्य सेवा अधिकारियों को अ.भा.से. में शामिल किए जाने से संबंधित सभी मामले --संघ लोक सेवा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट --संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) विनियम --संघ लोक सेवा आयोग (सदस्य) विनियम --संघ लोक सेवा आयोग (स्टाफ) विनियम, और नीतिगत मामले तथा आयोग की सलाह/सिफारिशों के लिए प्राप्त संदर्भ
2.	श्री बीरेश कुमार	अपर सचिव (भर्ती परीक्षा सुधार) एवं परीक्षा नियंत्रक	23383723	आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती, भर्ती परीक्षाओं, परीक्षा सुधार संबंधी सभी मामले --आयोग की गोपनीय शाखा से संबंधित सभी मामले --आयोग की सूचना प्रणाली स्कंध से संबंधित सभी मामले
				एस. आनंदन अवर सचिव (प्रशा.)

गृह मंत्रालय

(पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 15 सितम्बर 2005

सं. 3/4/2005-प्रशा.--सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त होने के कारण श्री निहालसिंह, सहायक निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ने दिनांक 31 जुलाई, 2005 (अपराह्न) से सहायक निदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, नई दिल्ली के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

अशोक कुमार सूद
सहायक निदेशक (प्रशा.)

महानिदेशालय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 22 अगस्त 2005

सं. ओ-दो-3667/05-सीआरसी(एमओ)--राष्ट्रपति जी, डॉक्टर शेखर कनसारा को अस्थाई रूप से आगामी आदेश जारी होने तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 19.07.2005 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं। तदनुसार उन्हें 24-बटालियन, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में तैनात किया जाता है।

जे. एन. शर्मा

अपर पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक-एक)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 27 अगस्त 2005

सं. पी.सात-4/2005-कार्मिक-3--सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त होने के फलस्वरूप निम्नलिखित ने सरकारी सेवा से प्रत्येक के सामने लिखे गये कार्यालय में दर्शाई गयी तिथियों को प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार का त्याग कर दिया है :-

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	कार्यालय जहाँ कार्यभार त्याग दिया	कार्यभार त्याग करने की तिथि
1.	श्री ईश्वर जी मंचनानी (इरला सं.-4532)	कार्यालय अपर पुलिस उप महानिरीक्षक ग्रुप केन्द्र-दो के.रि.पु.बल, अजमेर	31.7.2005 (अपराह्न)
2.	श्री ज्ञान सिंह रावत (इरला सं.-4625)	कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, मध्य सेक्टर, के.रि.पु. बल, लखनऊ	31.7.2005 (अपराह्न)

जोगिन्दर सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-3)

दिनांक 29 अगस्त 2005

सं. पी.सात-4/2005-कार्मिक-3--श्री रामअवतार सिंह त्यागी, प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी (ईरला सं. 5770) का दिनांक 01-08-2005 (पूर्वाह) से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार होने के फलस्वरूप उन्होंने कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक, पूर्वोत्तर सेक्टर, केरिपु बल, शिलांग, मेघालय में दिनांक 01.08.2005 (पूर्वाह) से प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी का कार्यभार का त्याग कर दिया है।

जोगिन्दर सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-3)

दिनांक 6 सितम्बर 2005

सं. पी. सात-4/2005-कार्मिक-3--सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक से प्रशासन/अनुभाग अधिकारी के पद पर पदोन्नति होने के फलस्वरूप श्री के. हरिदास सूबेदार मेजर/कार्यालय अधीक्षक ने दिनांक 06 अगस्त, 2005 (पूर्वाह) को 105-बटालियन द्रुत कार्य बल/के.रि.पु.बल से 'कार्यालय पुलिस उप महानिरीक्षक, द्रुत कार्य बल/केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, नवी मुम्बई में प्रशासनिक/अनुभाग अधिकारी' का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जोगिन्दर सिंह
अपर पुलिस उप महानिरीक्षक
(कार्मिक-3)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व
नई दिल्ली-110002, दिनांक 14 सितम्बर 2005

सं. प्रशा. I/का.आ.सं.-176--महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय राजस्व इस कार्यालय के निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों को रुपये 7500-250-12000/- के वेतनमान में लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :--

नाम	तिथि
सर्वश्री	
1. दया सागर राय	31.08.2005 (पूर्वाह)
2. प्रहलाद सिंह	31.08.2005 (पूर्वाह)

क. प्रसाद
निदेशक (प्रशासन)

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय
आंध्र प्रदेश

हैदराबाद-500004, दिनांक सितम्बर 2005

प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद सहर्ष निम्नलिखित सहायक लेखा परीक्षा अधिकारियों (सिविल) को

अधिर्वर्षिता पर निवृत्त होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाए गए तिथि से सेवानिवृत्ति घोषणा करते हैं :--

क्रम	कर्मचारी का नाम	पदनाम	सेवा निवृत्ति की तिथि
सं.			
1.	श्री के. विश्वशंकरा राव.	स.ले.प.अ.	31.08.2005 (अप.)

सी सैलजा

वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) का कार्यालय, ओडिशा

भुवनेश्वर, दिनांक 9 सितम्बर 2005

स्था. आ.सं. 14 (ज्ञापक-प्रशा (सि. ल.)-17-2(लेपअ) भाग V/1193)---ज्ञापन सं. प्रशा (सिले)/17-2 (लेपअ)/भाग-V/929, दिनांक 01.09.2005, द्वारा सूचित का.आ.ग. 510 दिनांक 01.09.2005 के अनुपालन में निम्नलिखित सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी ने पदोन्नति होने पर उनके नाम के आगे दर्शाए गए तिथि से वेतनमान रु. 7500-250-12000/- पर लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किए हैं :--

क्रम	अधिकारी का नाम	लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार लेने की तिथि
सं.		
1.	श्री जलधर सेठी	01.09.2005 (पूर्वाह)

त्रिलोचन आचार्य

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (प्रशासन)

खान मंत्रालय

(भारतीय खान ब्यूरो)

नागपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

सं. ए. 19011/218/2005-स्था.ए.--विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर श्री व्ही. के. जैन, वरिष्ठ रसायनविद् को भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 24.08.2005 (पूर्वाह) में अधीक्षण रसायनविद् के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है।

एस. के. बातव

वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

नागपुर, दिनांक 6 सितम्बर 2005

सं. ए-19011/385/2005-स्था. ए.पी.पी.--श्री रणजीत सिंह, खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 31.8.2005 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार

सहायक प्रशासन अधिकारी

दिनांक 14 सितम्बर 2005

सं. ए-19011/130/2005-स्था. ए.पी.पी.--श्री एस.आर. वरदराज, सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर

सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दि. 31.8.2005 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

सं. ए-19011/385/2005-स्था. ए.पी.पी.--श्री विजय एल. मेश्राम, वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, वार्धक्य आयु प्राप्त होने पर सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 31.08.2005 (अपराह) से कार्यभार मुक्त हो गए हैं।

ए. एन. नंदनवार
सहायक प्रशासन अधिकारी

सूचना और प्रसारण मंत्रालय
(विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय)

नई दिल्ली-1, दिनांक 12 सितम्बर 2005

सं. 21/4/2001-प्रशा.-II--निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, निम्नलिखित लेखाकारों को सहायक लेखा अधिकारियों के पद पर नियमित आधार पर रुपये 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथियों से नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	अधिकारी का नाम	सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि
1.	श्री ओ. एन. अग्रवाल	21.04.2004 (पूर्वाह)
2.	श्री राज पाल सिंह	21.05.2004 (पूर्वाह)
3.	श्री एम. एल. गोयल	04.06.2004 (पूर्वाह)
4.	श्री जे. एस. साहनी	29.07.2005 (अपराह)

अशोक कुमार
उप निदेशक (प्रशा.)

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुम्बई-85, दिनांक 30 अगस्त 2005

सं. पीडी/4(1)/2003-आर-III/1081--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री पी. गोपालकृष्णन, आशुलिपिक श्रेणी-I, को दिनांक 04.08.2005 (पूर्वाह) से आगामी आदेशों तक रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में निजी सचिव (गैर-सचिवालयीन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 13 सितम्बर 2005

सं. पीडी/6(1)/2005-आर-III/1149--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, कुमारी शीला सिद्धार्थन, सहायक, भापअ केन्द्र को दिनांक 01.09.2005 (पूर्वाह) से, आगामी आदेशों तक रु. 6,500-

200-10,500/- के वेतनमान में इसी अनुसंधान केन्द्र में सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/13(7)/98-आर-III/1150--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री महाबीर सिंह, सहायक लेखा अधिकारी आई. आई. डब्ल्यू., पडवि, हैदराबाद को लेखा अधिकारी के पद पर दिनांक 29.08.2005 (पूर्वाह) से, आगामी आदेशों तक रु. 7,500-250-12,000/- के वेतनमान में इस अनुसंधान केन्द्र में नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

के. सी. दिवाकरन
उप स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुम्बई-400001, दिनांक 31 अगस्त 2005

सं. 21/3(3)/2004-सीसीएस/32--राष्ट्रपति, इस विभाग की सुश्री रेवती, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000--13,500/-), परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद को दिनांक 04.08.2005 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इंदौर में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

सं. 21/3(3)/2004-सीसीएस/33--राष्ट्रपति, इस विभाग की श्रीमती के. पी. सरस्वती, वरिष्ठ लेखा अधिकारी (वेतनमान रु. 8,000--13,500/-), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई को दिनांक 08.08.2005 (पूर्वाह) से भावी आदेश होने तक सामान्य सेवा संगठन, भापअ केन्द्र, तारापुर में उप लेखा नियंत्रक (वेतनमान रु. 10,000--15,200/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शोभा देवी एन.
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 13 सितम्बर 2005

सं. 18/1/11/2004-ईआर--राष्ट्रपति, श्री दीपेन्दु दास को 16 अगस्त 2005 के पूर्वाह से आगामी आदेश होने तक रु. 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड (ईईआरबी) में वैज्ञानिक अधिकारी/डी के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. पद्मनाभन
अवर सचिव

मुम्बई-400001, दिनांक 13 सितम्बर 2005

सं. 6(2306)/2000/प्रशा./6765--राष्ट्रपति, डॉ. अनिल काकोडकर, सचिव, परमाणु ऊर्जा विभाग एवं अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग की सेवा दिनांक 01.12.2005 से दो वर्ष की अवधि हेतु विस्तारित करते हैं।

आर. सी. जोशी
अपर सचिव

(भारी पानी बोर्ड)

मुम्बई-400094, दिनांक 14 सितम्बर 2005

सं. भापाबो/भर्ती/5(2)--तालचेर/2005/969--मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय), श्री रमेश चंद्र नन्दा, वरिष्ठ लिपिक, भारी पानी संयंत्र (तालचेर) को रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में दिनांक 22 जून, 2004 के पूर्वाह्न से 21 जून, 2005 के अपराह्न तक, भारी पानी संयंत्र (तालचेर) में सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

एन. जे. समयन
प्रशासन अधिकारी

(नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र)

हैदराबाद-500062, दिनांक 19 सितम्बर 2005

सं. नाईस/काप्रभ-II/8-2005/1679--राष्ट्रपति जी, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, हैदराबाद के डॉ. पी. बालकृष्ण, वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'जी' को इसी इकाई में, स्थानापन्न हैसियत में वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रेड 'एच' (वेतनमान रु. 18,400-500-22,400/-) के रूप में दिनांक 01.08.2005 से आगामी आदेशों पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

ए. एस. लक्ष्मण राव
प्रशासनिक अधिकारी

(परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय)

हैदराबाद-500016, दिनांक 13 सितम्बर 2005

सं. पखनि-51(39)/2005-पेन/786--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों ने अधिवर्षिता प्राप्त करने के दौरान उनके समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :-

क्रम सं.	नाम व पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
1.	श्री आर. एस. सेगी, वैज्ञानिक अधिकारी-ई	31.08.2005	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर
2.	श्री टी. के. एन. सुरक्षा अधिकारी	31.08.2005	अधिवर्षिता प्राप्त करने पर

(श्रीमती) आगनस बेसिली
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

आयकर अपीलीय अधिकरण

मुम्बई-400020, दिनांक 25 अगस्त 2005

सं. एफ.301-एडी(एटी)/2005--श्री एस. के. परिदा, आशुलिपिक ग्रेड-II, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली को कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं. 2/29/91-स्था. (वेतन-II), दिनांक 05.01.1994 में निहित तथा समय-समय पर यथासंशोधित, प्रतिनियुक्ति की सामान्य शर्तों पर, प्रतिनियुक्ति आधार पर, आयकर अपीलीय अधिकरण, कटक पीठ, कटक में, रु. 6,500-200-10,500/- के वेतनमान में, दिनांक 10.08.2005 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, स्थानापन्न रूप में, निजी सचिव के पद पर, नियुक्त किया जाता है।

विमल गांधी
अध्यक्ष

कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एम. एच. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 15 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/251181/3014--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स एम. एच. ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स गनपति फारेस्ट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 16 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/19922/3021--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स गनपति फारेस्ट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स जुपिटर इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 16 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/14867/3025--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स जुपिटर इलेक्ट्रिकल्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स शिवम ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 16 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/21432/3039--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शिवम ग्राफिक्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स विक्टर एजुकेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 16 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/26700/3030--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स विक्टर एजुकेशनल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स लाइफ इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 16 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/11386/3043--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स लाइफ इलेक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स शर्मा दाल एण्ड ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 16 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/14348/3034--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स शर्मा दाल एण्ड ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स वासुदेव मिमोरियल नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 19 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/11339/3050--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स वासुदेव मिमोरियल नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स श्री कमल फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कानपुर-208001, दिनांक 19 सितम्बर 2005

सं. एल.सी./560(3)/11499/3054--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सूचना दी जाती है कि आज की तिथि से तीन माह की अवधि की समाप्ति पर मैसर्स श्री कमल फार्मास्यूटिकल्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम यदि कोई प्रतिकूल कारण नहीं है तो कम्पनी के रजिस्टर से काट दिया जाएगा तथा कथित कम्पनी विघटित हो जाएगी।

बी. के. बन्सल
कम्पनी रजिस्ट्रार
उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एस. जे. बल्क्स एण्ड वायर्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 7 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/15056/2263--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एस. जे. बल्क्स एण्ड वायर्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स लिओ मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 9 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13824/2273--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स लिओ मार्बल्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एम. एम. किंग्स एण्ड क्वीन्स कालेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 9 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/18223/2277--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एम. एम. किंग्स एण्ड क्वीन्स कालेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स एम. एम. क्वीन्स कालेज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 9 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/18391/2281--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स एम. एम. क्वीन्स कालेज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स प्रज्ञा फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 12 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/13611/2286--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स प्रज्ञा फिनलीज प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. मीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स शक्ति कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 12 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/16961/2290--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स शक्ति कम्प्यूटेक प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. भीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 एवं मैसर्स गोपाल मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड के सम्बन्ध में।

जयपुर-302006, दिनांक 15 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./560/9593/2323--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख के तीन माह के उपरान्त मैसर्स गोपाल मार्बल्स एण्ड ग्रेनाईट्स प्राईवेट लिमिटेड यदि इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किए गए तो कम्पनी का नाम कम्पनी रजिस्टर से इस कार्यालय द्वारा काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

बी. सी. भीणा
कम्पनी रजिस्ट्रार
राजस्थान

कम्पनी अधिनियम, 1956 और सरलीकृत निकास योजना-2003 के अंतर्गत आवेदन तथा निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

जालन्धर शहर, दिनांक सितम्बर 2005

सं. 560(5) एसईएस-2003--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 903 कम्पनियों के नाम कम्पनियों के रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से कम्पनियां विघटित समझी जाएंगी :--

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	कंपनी नं. एवं सी.आई.एन.
1	2	3
1.	मैसर्स डल्हौजी रिसोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	20616 यू 55101 एच.पी. 1997 पी.टी.सी. 20616

1	2	3
2.	मैसर्स ब्रह्मा फ्लोर मिल प्राईवेट लिमिटेड	20108 यू 45311 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20108
3.	मैसर्स सिल्वर लाइन बीवैरीज लिमिटेड	13893 यू 15520 पी.बी. 1993 पी.एल.सी. 13893
4.	मैसर्स तीर्थ मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	17668 यू 35911 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17668
5.	मैसर्स सवेरा लैमस प्राईवेट लिमिटेड	10398 यू 31506 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10398
6.	मैसर्स पायोनिर टेक्नोलॉजी सिस्टम्स लिमिटेड	22879 यू 74140 सी. एच. 1999 पी.एल.सी. 22879
7.	मैसर्स जीएसआरके एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	12859 यू 70200 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12859
8.	मैसर्स टॉप लाइन पोलीमरस प्राईवेट लिमिटेड	18677 यू 25209 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18677
9.	मैसर्स एमबीएम मिल्क एंड फूड प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड	20343 यू 15201 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20343
10.	मैसर्स एस्हॉन सुपर इनामल वायर्स प्राईवेट लिमिटेड	18371 यू 27109 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18371
11.	मैसर्स अशोका गैसिज एण्ड इलेक्ट्रीकल प्राईवेट लिमिटेड	4160 यू 24111 पी.बी. 1980 पी.टी.सी. 4160
12.	मैसर्स देविका कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	16017 यू 24231 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16017
13.	मैसर्स केरोन स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	11254 यू 27109 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11254
14.	मैसर्स गोविंद स्पिनर प्राईवेट लिमिटेड	13877 यू 17115 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13877
15.	मैसर्स कुमार इंटरप्राइसिस लिमिटेड	6718 यू 70100 सी.एच.डी. 1986 पी.टी.सी. 6718

1	2	3	1	2	3
16.	मैसर्स शिवा रेस्टोरेंट प्राईवेट लिमिटेड	20313 यू 55101 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20313	30.	मैसर्स सुंग बगेरा टैक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड	17126 यू 17115 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17126
17.	मैसर्स ब्रह्मा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	20310 यू 70101 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20310	31.	मैसर्स हिमगिरि एक्सिम प्राईवेट लिमिटेड	18225 यू 51909 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 18225
18.	मैसर्स लीडर फाइनांस एण्ड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	2554 यू 65921 पी.बी. 1964 पी.टी.सी. 2554	32.	मैसर्स पासल एलको विनायल्स लिमिटेड	11770 यू 92111 सी.एच.डी. 1991 पी.एल.सी. 11770
19.	मैसर्स अल्पस कम्प्यूटर प्राईवेट लिमिटेड	16212 यू 80302 एच.पी. 1995 पी.टी.सी. 16212	33.	मैसर्स एचआर निट इंटरनेशनल लिमिटेड	20043 यू 17155 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20043
20.	मैसर्स छाबड़ा एग्रोस प्राईवेट लिमिटेड	16561 यू 01119 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16561	34.	मैसर्स जय माता रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	12865 यू 15311 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12865
21.	मैसर्स सत्यदीप प्लाईवुड एंड बोर्ड प्राईवेट लिमिटेड	17478 यू 20211 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17478	35.	मैसर्स लिजर्टी कलर लैब प्राईवेट लिमिटेड	8486 यू 74940 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8486
22.	मैसर्स अदिति कल्टीवेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	11165 यू 51147 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11165	36.	मैसर्स इंडियन ट्रेक्स प्राईवेट लिमिटेड	9911 यू 27106 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9911
23.	मैसर्स जीजे मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	24200 यू 51102 सी.एच. 2001 पी.टी.सी. 24200	37.	मैसर्स मैडोक्स मैडिकामैट्स प्राईवेट लिमिटेड	5821 यू 24236 सी.एच. 1984 पी.टी.सी. 5821
24.	मैसर्स योधा फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	17131 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17131	38.	मैसर्स नंदा पैलेस प्राईवेट लिमिटेड	22206 यू 55101 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22206
25.	मैसर्स परम पावर्स प्राईवेट लिमिटेड	17128 यू 31101 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17128	39.	मैसर्स ई टैक्सटाइल्स प्वाइंट डॉटकॉम लिमिटेड	23423 यू 30007 पी.बी. 2000 पी.एल.सी. 23423
26.	मैसर्स बिछवा एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	17129 यू 18101 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17129	40.	मैसर्स ओसवाल स्पिनटैक्स प्राईवेट लिमिटेड	16854 यू 17219 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16854
27.	मैसर्स बाजनैन सिक्वोरिटी प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड	17124 यू 22219 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17124	41.	मैसर्स हाई.टैक फार्मस प्राईवेट लिमिटेड	13594 यू 01122 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13594
28.	मैसर्स लहर सिस्टम राइस एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	17130 यू 51211 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17130	42.	मैसर्स एजिर इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	15651 यू 50300 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15651
29.	मैसर्स बैंक वन फाइनांस एंड प्लांटेशन लिमिटेड	17127 यू 65929 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 17127	43.	मैसर्स एसेंड इम्पैक्स एंड मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	23770 यू 51909 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23770

1	2	3
44.	मैसर्स स्टिलटोन डिवाइसिस लिमिटेड	13018 यू 29219 एच.पी. 1993 पी.टी.सी. 13018
45.	मैसर्स वेटेज केपिटल सर्विसिस लिमिटेड	15809 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 15809
46.	मैसर्स मेहर कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	21727 यू 74210 सी. एच. 1998 पी.टी.सी. 21727
47.	मैसर्स डीएफ कंस्ट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	11820 यू 45201 सी.एच.डी. 1991 पी.टी.सी. 11820
48.	मैसर्स विकास इलेक्ट्रो एयरकोन प्राईवेट लिमिटेड	17069 यू 17069 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17069
49.	मैसर्स गेरू लाल बाल चंद इंडस्ट्रीज लिमिटेड	17976 यू 74999 पी.बी. 1996 पी.एल.सी. 17976
50.	मैसर्स किंग्स वे आटो इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	16382 यू 34103 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16382
51.	मैसर्स गणपति ओरगेनिक्स लिमिटेड	11773 यू 15142 सी.एच. 1991 पी.एल.सी. 11773
52.	मैसर्स एबी फैशनरस प्राईवेट लिमिटेड	12325 यू 52321 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12325
53.	मैसर्स पर्व टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	10416 यू 17115 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10416
54.	मैसर्स न्यू वैल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	9492 यू 45201 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9492
55.	मैसर्स गोल्डन सिंथेटिक प्राईवेट लिमिटेड	8578 यू 18101 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8578
56.	मैसर्स मास्टर ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	17105 यू 52395 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17105
57.	मैसर्स जी एंड एम ट्रैवल्स प्राईवेट लिमिटेड	10696 यू 63040 सी.एच.डी. 1990 पी.टी.सी. 10696

1	2	3
58.	मैसर्स मैरीडियन फाइनैशल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	19390 यू 67120 एच.पी. 1997 पी.टी.सी. 19390
59.	मैसर्स जय दुर्गे फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	6826 यू 65921 सी.एच.डी. 1986 पी.टी.सी. 6826
60.	मैसर्स कुसुम बाला फाइ. एंड इन.कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	14577 यू 65999 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14577
61.	मैसर्स फेयर गुड गारमेंट्स एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	18055 यू 17111 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18055
62.	मैसर्स विद्या ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	5376 यू 51909 पी.बी. 1983 पी.टी.सी. 5376
63.	मैसर्स टेक्नोइम्पेक्स इलेक्ट्रोनिक्स प्राईवेट लिमिटेड	7665 यू 32109 एच.पी. 1987 पी.टी.सी. 7665
64.	मैसर्स के इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	4125 यू 65921 पी.बी. 1980 पी.टी.सी. 4125
65.	मैसर्स एपल काउंटरी होटल्स प्राईवेट लिमिटेड	21260 यू 55101 एच.पी. 1998 पी.टी.सी. 21260
66.	मैसर्स मोरनी इन्वेस्टमेंट्स एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	4126 यू 65921 पी.बी. 1980 पी.टी.सी. 4126
67.	मैसर्स राजपुरा एस्टेट डिवेलपमेंट लिमिटेड	4762 यू 45201 पी.बी. 1981 पी.एल.सी. 4762
68.	मैसर्स उज्जल रबर प्राईवेट लिमिटेड	10083 यू 25199 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10083
69.	मैसर्स एबी न्यूस नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	17288 यू 92113 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17288
70.	मैसर्स सूर्याश कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड	22810 यू 24121 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22810
71.	मैसर्स डेरा बस्सी इंटरप्राइसिस प्राईवेट लिमिटेड	21724 यू 92120 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21724

1	2	3
72.	मैसर्स रेखी फाइनांस एंड ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	15807 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15807
73.	मैसर्स शक्तिमान बूलन एंड हौजरी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	4548 यू 18101 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4548
74.	मैसर्स नित एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड	3210 यू 52322 पी.बी. 1972 पी.टी.सी. 3210
75.	मैसर्स सुंदर निर्माण हायर परचेज प्राइवेट लिमिटेड	3623 यू 65921 पी.बी. 1976 पी.टी.सी. 3623
76.	मैसर्स विबयोर फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	11153 यू 24231 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11153
77.	मैसर्स हैलीफैक्स आर्गेनिकस प्राइवेट लिमिटेड	20933 यू 24231 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 20933
78.	मैसर्स ब्रह्म शक्ति कारगो कैरियर्स प्राइवेट लिमिटेड	18097 यू 60221 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 18097
79.	मैसर्स चारु ओटो प्राइवेट लिमिटेड	4295 यू 27310 पी.बी. 1980 पी.टी.सी. 4295
80.	मैसर्स अनंता कार्बोनेट्स लिमिटेड	20523 यू 26941 एच.पी. 1997 पी.एल.सी. 20523
81.	मैसर्स सन ग्लो इंटरप्राइसिस प्राइवेट लिमिटेड	23394 यू 27109 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23394
82.	मैसर्स मार्शल पोल्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड	13093 यू 15114 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13093
83.	मैसर्स ईबल एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	14021 यू 17210 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 14021
84.	मैसर्स प्रीसाइस कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	22809 यू 24121 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22809
85.	मैसर्स प्यारा लाल जैन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	22258 यू 15312 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22258

1	2	3
86.	मैसर्स पटियाला आईवीएफ एंड इन. रि. सै. प्राइवेट लिमिटेड	24042 यू 85110 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 24042
87.	मैसर्स अप्पू डेयरी एंड अलाइड सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड	15607 यू 15203 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15607
88.	मैसर्स बद्दी स्टील बालस प्राइवेट लिमिटेड	10304 यू 27106 एच.पी. 1990 पी.टी.सी. 10304
89.	मैसर्स गोपाल दास हरी चंद यार्नस प्राइवेट लिमिटेड	15235 यू 17115 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15235
90.	मैसर्स गौरी गणेश बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	17523 यू 45201 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17523
91.	मैसर्स बजाज एग्रो ऑयल लिमिटेड	11965 यू 15142 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 11965
92.	मैसर्स फतह संस हौजरी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	15234 यू 18101 पी.बी. 1994 पी.एल.सी. 15234
93.	मैसर्स एलएसआरएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड	17892 यू 67120 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17892
94.	मैसर्स लुधियाना बाईपास टोल रोड लिमिटेड	23174 यू 45203 सी.एच. 1999 पी.एल.सी. 23174
95.	मैसर्स मेगा नेटकॉम मार्केटिंग लिमिटेड	18683 यू 01121 पी.बी. 1996 पी.एल.सी. 18683
96.	मैसर्स शिव शक्ति ट्रेड्स प्राइवेट लिमिटेड	22984 यू 25199 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22984
97.	मैसर्स मेगनम एडवांसेज प्राइवेट लिमिटेड	10581 यू 65921 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10581
98.	मैसर्स शिवम पोर्ट फोलिओ प्राइवेट लिमिटेड	12640 यू 67110 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12640
99.	मैसर्स महेश पोर्ट फोलिओ फाइनांशल सर्वि. प्राइवेट लिमिटेड	12601 यू 74140 एच.पी. 1992 पी.टी.सी. 12601

1	2	3
100.	मैसर्स शाम फाईनेशियल सर्विसिस लिमिटेड	15402 यू 67120 सी.एच. 1994 पी.एल.सी. 15402
101.	मैसर्स चंडीगढ़ चिट एंड फाईनांस प्राईवेट लिमिटेड	6167 यू 65992 सी.एच.डी. 1985 पी.टी.सी. 6167
102.	मैसर्स तोशिका फाई. लिमिटेड	16388 यू 65921 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 16388
103.	मैसर्स ए जिल हाई-टैक स्टील प्राईवेट लिमिटेड	16276 यू 27108 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16276
104.	मैसर्स बोनाजा फिनकेप कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	17985 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17985
105.	मैसर्स अपर इंडिया कार्गो कैरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	18013 यू 60210 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 18013
106.	मैसर्स बीदास एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	22671 यू 51909 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22671
107.	मैसर्स राजन फाईनेशियल सर्वि. प्राईवेट लिमिटेड	18738 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18738
108.	मैसर्स पंजाब मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	18401 यू 71130 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18401
109.	मैसर्स जसविन्द्रा एंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड	5922 यू
110.	मैसर्स नरेश अग्रवाल डिपाजिट एंड एड. प्राईवेट लिमिटेड	11185 यू 65921 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11185
111.	मैसर्स शक्तिमान एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	13763 यू 51909 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13763
112.	मैसर्स सुमंगला लेमिनेट्स प्राईवेट लिमिटेड	6924 यू 20211 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 6924
113.	मैसर्स दीपक मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	8740 यू 29212 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8740

1	2	3
114.	मैसर्स गुप्ता बोर्ड एंड पेपर प्राईवेट लिमिटेड	6495 यू 21015 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6495
115.	मैसर्स कृष्णाफिनमेन सर्वि. लिमिटेड	3667 यू 65993 पी.बी. 1976 पी.एल.सी. 3667
116.	मैसर्स मिल्क टाइम हैल्थ केयर लिमिटेड	20158 यू 85110 सी.एच. 1997 पी.एल.सी. 20158
117.	मैसर्स राजा बोटलर प्राईवेट लिमिटेड	14698 यू 15331 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14698
118.	मैसर्स सर्वसाक्षी नेट मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	25424 यू 52599 पी.बी. 2002 पी.टी.सी. 25424
119.	मैसर्स जोधसन एंड पालसन फाई. प्राईवेट लिमिटेड	13456 यू 65921 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13456
120.	मैसर्स मनानी लिजिंग एंड फाई. प्राईवेट लिमिटेड	15015 यू 65921 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 15015
121.	मैसर्स अनमोल इलै. प्राईवेट लिमिटेड	10871 यू 31909 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10871
122.	मैसर्स जनेसिस नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	24410 यू 72200 सी.एच. 2001 पी.टी.सी. 24410
123.	मैसर्स गोल्डन चैन होटल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड	15761 यू 55101 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15761
124.	मैसर्स संधु पाइप प्राईवेट लिमिटेड	6974 यू 26920 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 6974
125.	मैसर्स स्टेनले टूलज प्राईवेट लिमिटेड	8498 यू 29222 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8498
126.	मैसर्स च्वाइस बिल्डर प्राईवेट लिमिटेड	19460 यू 45202 सी.एच.डी. 1997 पी.टी.सी. 19460
127.	मैसर्स मिल्क टाइम डी कोनफिट्रिया लिमिटेड	20159 यू 15146 सी.एच. 1997 पी.एल.सी. 20159

1	2	3	1	2	3
128.	मैसर्स एम.एस.एल. फ़ोजन फूड्स लिमिटेड	20156 यू 15203 सी.एच. 1997 पी.एल.सी. 20156	142.	मैसर्स निपुल फाईनेसिंग प्राईवेट लिमिटेड	12973 यू 65921 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 12973
129.	मैसर्स ग्राफोपैक एंड प्रिंटर्स प्राईवेट लिमिटेड	12044 यू 22110 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12044	143.	मैसर्स नागपाल एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	13739 यू 18101 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13739
130.	मैसर्स अमूल्य केबल्स एंड कम्पार्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	17132 यू 31300 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17132	144.	मैसर्स पल्लवी ट्रेडिंग एंड फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड	16237 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16237
131.	मैसर्स ऐजीके इलै. प्राईवेट लिमिटेड	21909 यू 32109 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21909	145.	मैसर्स मैजिक होम केयर प्राईवेट लिमिटेड	25607 यू 24248 सी.एच. 2002 पी.टी.सी. 25607
132.	मैसर्स मिलक टाइम एक्सपोर्ट लिमिटेड	20157 यू 51225 सी.एच. 1997 पी.एल.सी. 20157	146.	मैसर्स आर.के. त्रेहन फाईनेस प्राईवेट लिमिटेड	16288 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16288
133.	मैसर्स बी.एच.एस. सर्वेयर्स एंड एसेसज प्राईवेट लिमिटेड	13799 यू 74992 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13799	147.	मैसर्स मैक्रो इंफोरमेशन सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	11288 यू 22212 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11288
134.	मैसर्स रियल सर्वेयर्स एंड कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड	20356 यू 74999 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20356	148.	मैसर्स याहू कम्युनिकेशन प्राईवेट लिमिटेड	21922 यू 72100 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21922
135.	मैसर्स ट्रार्म शक्ति कैमिकल्स लिमिटेड	6038 यू 24231 पी.बी. 1984 पी.एल.सी. 6038	149.	मैसर्स टुडे एक्सपोज़िशन प्राईवेट लिमिटेड	14880 यू 92490 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14880
136.	मैसर्स रोहित वूलन प्राईवेट लिमिटेड	8401 यू 17117 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8401	150.	मैसर्स हरियाणा पेस्टीसाइड्स प्राईवेट लिमिटेड	7961 यू 24219 सी.एच.डी. 1988 पी.टी.सी. 7961
137.	मैसर्स दौलत रामको.सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	15655 यू 28932 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15655	151.	मैसर्स एल्कोन पोली प्रोडक्ट्स लिमिटेड	20138 यू 25209 पी.बी. 1997 पी.एल.सी. 20138
138.	मैसर्स ब्रोड इंफोवर्ड प्राईवेट लिमिटेड	25553 यू 80302 पी.बी. 2002 पी.टी.सी. 25553	152.	मैसर्स विशाल भारत कंज्यूमर प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	8817 यू 18101 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8817
139.	मैसर्स पटियाला कार्गो एंड फिनको प्राईवेट लिमिटेड	19270 यू 60201 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19270	153.	मैसर्स साऊथ ईस्ट एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड	19931 यू 51109 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19931
140.	मैसर्स एलटीएस इंडिया नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	25554 यू 52599 पी.बी. 2002 पी.टी.सी. 25554	154.	मैसर्स आल्कोन केबल्स प्राईवेट लिमिटेड	13430 यू 31300 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13430
141.	मैसर्स वरदेनी इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	14685 यू 65921 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14685	155.	मैसर्स कोहली प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड	9402 यू 70101 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9402

1	2	3	1	2	3
156.	मैसर्स जी. एम. सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	12260 यू 51909 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12260	170.	मैसर्स प्रगट्स स्टीक वर्ग प्राईवेट लिमिटेड	19510 यू 22211 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19510
157.	मैसर्स रियेलाइबल इस्पात प्रोफाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	19566 यू 27109 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19566	171.	मैसर्स डी मीटर आयल्स प्राईवेट लिमिटेड	13101 यू 15141 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13101
158.	मैसर्स पी.एम.डब्ल्यू. हौजरी मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड	21977 यू 29291 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21977	172.	मैसर्स प्रीतम सिंह एंड कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	11052 यू 51396 सी.एच. 1991 पी.टी.सी. 11052
159.	मैसर्स बिन्दल फाईनेंशियल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	1383 यू 74140 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13833	173.	मैसर्स संतोष आनंद कंसलटेंस लिमिटेड	22240 यू 74999 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22240
160.	मैसर्स फ्रंटीयर वील्स प्राईवेट लिमिटेड	16788 यू 35923 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16788	174.	मैसर्स जेडीएस एलैक्ट्रोटेक प्राईवेट लिमिटेड	12790 यू 52334 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12790
161.	मैसर्स सत्यरूप केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	20086 यू 24123 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20086	175.	मैसर्स दिव्या लीजिंग्स लिमिटेड	12764 यू 65921 सी.एच. 1999 पी.एल.सी. 12764
162.	मैसर्स सेठ डिटर्जेंट प्राईवेट लिमिटेड	12908 यू 24241 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 12908	176.	मैसर्स अल्फा सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	22191 यू 67120 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22191
163.	मैसर्स एच.एम. रियल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	22801 यू 70101 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22801	177.	मैसर्स एमसीएस फैंडर्स प्राईवेट लिमिटेड	13100 यू 32109 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13100
164.	मैसर्स झंडू बोर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	23237 यू 21012 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23237	178.	मैसर्स पावर वोल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	18106 यू 28991 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18106
165.	मैसर्स जी एंड जी एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	24792 यू 70101 पी.बी. 2001 पी.टी.सी. 24792	179.	मैसर्स युवराज नितवेयर प्राईवेट लिमिटेड	20040 यू 17115 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20040
166.	मैसर्स एस.जी. गोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	18594 यू 63022 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18594	180.	मैसर्स एच. गिल फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड	13424 यू 65921 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13494
167.	मैसर्स नीलीबार ट्रेवल्स एंड टूरिज्म प्राईवेट लिमिटेड	19682 यू 63040 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19682	181.	मैसर्स मरीदयाल एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	16184 यू 45201 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16184
168.	मैसर्स चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल कंसलटेंसी ब्यूरो प्राईवेट लिमिटेड	4024 यू 74140 सी.एच. 1979 पी.टी.सी. 4024	182.	मैसर्स जीई एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	22745 यू 18101 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22745
169.	मैसर्स बब्बर मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	8528 यू 32109 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8528	183.	मैसर्स श्री सचदा आनंद रोशन फै. प्राईवेट लिमिटेड	12058 यू 24222 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12058

1	2	3
184.	मैसर्स डेलमेक इंडी. प्राइवेट लिमिटेड	17615 यू 74200 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17615
185.	मैसर्स पुंज एक्स्.आ. मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड	20369 यू 15543 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20369
186.	मैसर्स मित्तल एडवोकेट्स प्राइवेट लिमिटेड	12079 यू 29219 सी.एच.डी. 1992 पी.टी.सी. 12079
187.	मैसर्स अरीसुदाना इनवेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	13514 यू 65921 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13514
188.	मैसर्स शिवालिक फिनवेस्ट लिमिटेड	16175 यू 65921 एच.पी. 1995 पी.एल.सी. 16175
189.	मैसर्स गारंटी इन्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड	17702 यू 51211 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17702
190.	मैसर्स न्यू शक्ति रोड लाइंस प्राइवेट लिमिटेड	17349 यू 60222 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17349
191.	मैसर्स ग्रीन फौशनज़ प्राइवेट लिमिटेड	13323 यू 18101 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13323
192.	मैसर्स अहूजा निर्माण प्राइवेट लिमिटेड	13618 यू 45201 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13618
193.	मैसर्स अरीसुदाना होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	13515 यू 67120 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13515
194.	मैसर्स श्यामा श्याम इनवेस्टर्स एंड फा. क. प्राइवेट लिमिटेड	17054 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17054
195.	मैसर्स विवा इ.फ. प्रो. प्राइवेट लिमिटेड	7553 यू 74140 पी.बी. 1987 पी.टी.सी. 7553
196.	मैसर्स मेदी रूब सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	22942 यू 85110 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22942
197.	मैसर्स कुंदरा प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड	11444 यू 25209 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11444

1	2	3
198.	मैसर्स सिकरी फाइनैस एंड इनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	14608 यू 65921 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14608
199.	मैसर्स कंडोफार्म प्राइवेट लिमिटेड	13686 यू 01222 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13686
200.	मैसर्स श्रेयांस स्पीनर्ज लिमिटेड	9320 यू 0000 पी.बी. 1989 पी.एल.सी. 9320
201.	मैसर्स फिशर फाइनैस एंड इनवेस्टमेंट लिमिटेड	7552 यू 65910 पी.बी. 1987 पी.एल.सी. 7552
202.	मैसर्स गुल्लू इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	10206 यू 65921 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10206
203.	मैसर्स नवयुग जनरल फाइनैस कं. प्राइवेट लिमिटेड	5819 यू 65921 पी.एन.बी. 1984 पी.टी.सी. 5819
204.	मैसर्स फौसी वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	8590 यू 17115 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8590
205.	मैसर्स मिक्की बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	11414 यू 45202 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11414
206.	मैसर्स स्पर्श फौब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	7443 यू 18101 पी.बी. 1987 पी.टी.सी. 7443
207.	मैसर्स ओरबिट रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	6665 यू 70109 सी.एच.डी. 1986 पी.टी.सी. 6645
208.	मैसर्स विजन फाइनैस एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	5606 यू 65921 सी.एच. 1983 पी.टी.सी. 5606
209.	मैसर्स प्रीत फास्टर्स प्राइवेट लिमिटेड	6922 यू 70101 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 6922
210.	मैसर्स एसटी होटल्स एंड मोटल्स प्राइवेट लिमिटेड	12604 यू 55101 एच.पी. 1992 पी.टी.सी. 12604
211.	मैसर्स सरू पैलेस प्राइवेट लिमिटेड	20136 यू 92120 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20136

1	2	3	1	2	3
212.	मैसर्स यू नीक मैडीकल फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	11380 यू 85110 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11380	226.	मैसर्स शिवालिक अग्रेरियंस एंड चाल्ड लिमिटेड	20292 यू 01122 एच.पी. 1997 पी.एल.सी. 20292
213.	मैसर्स नसीब एडवांसिस एंड डिपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड	8096 यू 65910 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8096	227.	मैसर्स ओजला एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	20663 यू 1109 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20663
214.	मैसर्स सिटी पैलेस होटल्स एंड कामर्शियल प्राइवेट लिमिटेड	10889 यू 55101 सी.एच.डी. 1990 पी.टी.सी. 10889	228.	मैसर्स राजधानी प्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड	6189 यू 17219 सी.एच.डी. 1985 पी.टी.सी. 6189
215.	मैसर्स दालसन फाइनैशियल कंसलटेंट्स लिमिटेड	19783 यू 65921 सी.एच. 1997 पी.एल.सी. 19783	229.	मैसर्स थापर हाऊसिंग फाइनैस लिमिटेड	12317 यू 65921 पी.बी. 1992 पी.एल.सी. 12317
216.	मैसर्स पम्मीस साईस वर्ल्स लिमिटेड	7971 यू 74210 सी.एच.डी. 1988 पी.एल.सी. 7971	230.	मैसर्स सतनाम डिपोजिट एंड एडवांसिस प्राइवेट लिमिटेड	8557 यू 65921 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8557
217.	मैसर्स चंडीगढ़ प्लाई सम्राट प्राइवेट लिमिटेड	8953 यू 20219 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 8953	231.	मैसर्स यू नीसन लॉन्स इक्यूपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	17369 यू 29212 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17369
218.	मैसर्स वर्द्धमान फाईवर्ज लिमिटेड	16988 यू 17219 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16988	232.	मैसर्स जोली फौब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड	20952 यू 17111 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 20952
219.	मैसर्स नोवा कैपिटल सर्विसिस लिमिटेड	15861 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 15861	233.	मैसर्स जालंधर मैडीकल डाईग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड	10390 यू 85110 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10390
220.	मैसर्स रोपड़ ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड	3810 यू 50500 पी.बी. 1978 पी.टी.सी. 3810	234.	मैसर्स नेट ब्रेंज इंफोटेक सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	24082 यू 72200 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 24082
221.	मैसर्स रीटा फिनलीज़ लिमिटेड	15566 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15566	235.	मैसर्स न्यू लिंक पब्लिशर्स एंड एडवर्टाइजर प्राइवेट लिमिटेड	24222 यू 22110 पी.बी. 2001 पी.टी.सी. 24222
222.	मैसर्स हेग होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	11312 यू 55101 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11312	236.	मैसर्स सतलुज विवरेजीज प्राइवेट लिमिटेड	7251 यू 15543 पी.बी. 1987 पी.टी.सी. 7251
223.	मैसर्स ओसवाल टेक्नोलॉजीस लिमिटेड	16806 यू 17219 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16806	237.	मैसर्स सुरभि बिल्डिंग एंड रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड	20522 यू 70101 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20522
224.	मैसर्स डीपी फिनलीज़ प्राइवेट लिमिटेड	16197 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16197	238.	मैसर्स शोभित ऐग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड	20759 यू 01409 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20759
225.	मैसर्स राजाजयनंदन फार्मसी प्राइवेट लिमिटेड	18043 यू 24239 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18043	239.	मैसर्स विनसन पेलिटैक्स प्राइवेट लिमिटेड	5711 यू 24302 सी.एच.डी. 1984 पी.टी.सी. 5711

1	2	3	1	2	3
240.	मैसर्स मैटल इंग्रैविंग वर्क्स प्राईवेट लिमिटेड	8218 यू 27106 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8218	254.	मैसर्स जीजी सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	22281 यू 51909 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22281
241.	मैसर्स एच.आर. इन्वेस्टमेंट एंड कंसलटेंट्स लिमिटेड	6711 यू 64921 सी.एच.डी. 1986 पी.एल.सी. 6711	255.	मैसर्स कम्पलीट इन्फोरमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	18083 यू 72100 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18083
242.	मैसर्स मयूर एडवॉर्ड्स एंड डिजाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	10003 यू 65921 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10003	256.	मैसर्स शशि भूषण एलायस प्राईवेट लिमिटेड	18099 यू 27106 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18099
243.	मैसर्स गंधरवा वीवरिस प्राईवेट लिमिटेड	17726 यू 15520 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17726	257.	मैसर्स बूम इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	25086 यू 80302 एच.पी. 2002 पी.टी.सी. 25086
244.	मैसर्स चामुंडा एलायस प्राईवेट लिमिटेड	21785 यू 27107 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 21785	258.	मैसर्स पीजा पिजेरिया प्राईवेट लिमिटेड	21961 यू 55202 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21961
245.	मैसर्स जीडी फाइनेंशियल सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	14142 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14142	259.	मैसर्स विनारो सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	22680 यू 67120 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22680
246.	मैसर्स कॉटी शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	17987 यू 61100 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17987	260.	मैसर्स एडेला फाइनांस एंड लीजिंग लिमिटेड	15864 यू 65910 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15864
247.	मैसर्स सेंट्रल कैपिटल सर्विसिज लिमिटेड	17411 यू 16592 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 17411	261.	मैसर्स शुभम कलेक्शन प्राईवेट लिमिटेड	21073 यू 18101 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21073
248.	मैसर्स नागरा गायर्ज प्राईवेट लिमिटेड	24090 यू 34300 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 24090	262.	मैसर्स विपिन फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	17057 यू 17219 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17057
249.	मैसर्स जयको सिनचेम (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	7340 यू 25208 पी.बी. 1987 पी.टी.सी. 7340	263.	मैसर्स मानसा हाऊस बिल्डिंग लिमिटेड	15596 यू 45201 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 15596
250.	मैसर्स मोगन केबल्स प्राईवेट लिमिटेड	12541 यू 31300 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12541	264.	मैसर्स शिमला मंडी हायर परचेज एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	10881 यू 65921 सी.एच.डी. 1990 पी.टी.सी. 10881
251.	मैसर्स सिंह इन्वेस्टमेंट एंड हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	4681 यू 65921 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4681	265.	मैसर्स पी.बी.बी. इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	16092 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16092
252.	मैसर्स मुक्तसर इनवीरो-टांच प्राईवेट लिमिटेड	14914 यू 23201 पी.बी. 1984 पी.टी.सी. 14914	266.	मैसर्स रायल कम्युनिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	18990 यू 92311 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18990
253.	मैसर्स मुक्तसर पेपर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	14915 यू 21011 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14915	267.	मैसर्स ईएमएम ईएसएस मोटर्स एंड फाइनेंस	12623 यू 65921 सी. एच. 1992 पी.टी.सी. 12623

1	2	3
268.	मैसर्स नाकरा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	13118 यू 51909 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13118
269.	मैसर्स इकोनो ग्रीन (नोएडा) प्राइवेट लिमिटेड	11629 यू 35303 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11629
270.	मैसर्स रैम एजेंसीज लिमिटेड	17531 यू 51396 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17531
271.	मैसर्स एनकेजी कै. सर्विस एंड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	17762 यू 45201 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17762
272.	मैसर्स जय सी ईएमएम फाइनेंसर्ज प्राइवेट लिमिटेड	17493 यू 65921 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17493
273.	मैसर्स वैस्ट स्टोन सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड	13378 यू 26942 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13378
274.	मैसर्स स्पेस.काम सल्यूशंस लिमिटेड	23545 यू 72400 सी.एच. 2000 पी.एल.सी. 23545
275.	मैसर्स सनसाल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड	24122 यू 01119 एच.पी. 2000 पी.टी.सी. 24122
276.	मैसर्स वाई.पी. गोयल कानसूलेशंस प्राइवेट लिमिटेड	19720 यू 74110 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19720
277.	मैसर्स रामा कृष्णा एलायस प्राइवेट लिमिटेड	16217 यू 27310 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16217
278.	मैसर्स आत्म दूर एंड ट्रेवलर्स प्राइवेट लिमिटेड	19320 यू 63040 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19320
279.	मैसर्स कोहीनूर वूडक्राफ्ट्स लिमिटेड	21150 यू 20221 पी.बी. 1998 पी.एल.सी. 21150
280.	मैसर्स संधू सराफ फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड	12475 यू 06592 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12475
281.	मैसर्स सेवल हिल एलगोरिथम लिमिटेड	22210 यू 32200 एच.पी. 1999 पी.टी.सी. 22210

1	2	3
282.	मैसर्स एसएमआरएस फा. एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	15030 यू 65921 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 15030
283.	मैसर्स एसपी हौजरी प्राइवेट लिमिटेड	6113 यू 51311 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6113
284.	मैसर्स गगन वीर्विंग एंड स्पिनिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	13783 यू 17111 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13783
285.	मैसर्स हरमान पेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	14023 यू 24221 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 14023
286.	मैसर्स टीसी स्टील एंड सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	2702 यू 24105 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 2702
287.	मैसर्स भाई लीजिंग एंड फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड	19346 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19346
288.	मैसर्स बैजनाथ अशरफीलाल प्राइवेट लिमिटेड	5294 यू 27109 सी.एच.डी. 1983 पी.टी.सी. 5294
289.	मैसर्स सिंह फाइनांस प्राइवेट लिमिटेड	6172 यू 65921 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6172
290.	मैसर्स एसईबी स्टील द्यूब्स प्राइवेट लिमिटेड	20827 यू 27109 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20827
291.	मैसर्स जगदीश कपूर कन्सलटेंट्स एंड इंजी. प्राइवेट लिमिटेड	19436 यू 74210 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19436
292.	मैसर्स शिवालिक फ़ोजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	19043 यू 51221 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 19043
293.	मैसर्स सुनील खन्ना सागर खन्ना पोटल प्राइवेट लिमिटेड	11408 यू 55101 एच.पी. 1991 पी.टी.सी. 11408
294.	मैसर्स धीमान हाइड्रोलिक प्राइवेट लिमिटेड	19792 यू 29120 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19792
295.	मैसर्स परे कृष्णानाम वूलन मिल्स प्राइवेट लिमिटेड	5378 यू 17117 पी.बी. 1983 पी.टी.सी. 5378

1	2	3	1	2	3
296.	मैसर्स जसजोत कैपिटल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	17807 यू 67120 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17807	310.	मैसर्स मोहाली ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	23054 यू 51109 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23054
297.	मैसर्स पातरन कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	19698 यू 63023 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19698	311.	मैसर्स मक्कड़ फार्मेशियल सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	20195 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20195
298.	मैसर्स दर्पण पब्लिशर्स प्राईवेट लिमिटेड	20188 यू 22110 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20188	312.	मैसर्स ओजोन इनफ्राटेक लिक्स प्राईवेट लिमिटेड	20235 यू 74140 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20235
299.	मैसर्स लिब्रा माइक्रो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	23972 यू 74999 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23972	313.	मैसर्स बी.सी. आर्चिज एंड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	22948 यू 45201 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22948
300.	मैसर्स पी.बी. प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड	20998 यू 21020 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 20998	314.	मैसर्स एबीएम हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	19316 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19316
301.	मैसर्स क्विस मेडिकल ट्रांसक्रैप्शन प्राईवेट लिमिटेड	23546 यू 74400 सी. एच. 2000 पी.टी.सी. 23546	315.	मैसर्स चैनसन टेक्सटाइल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	19832 यू 17221 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19832
302.	मैसर्स वेरका निटवियर्स प्राईवेट लिमिटेड	23314 यू 17299 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23314	316.	मैसर्स फिरानी प्लाईवुड प्राईवेट लिमिटेड	21098 यू 20219 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21098
303.	मैसर्स पारशी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	20989 यू 55101 एच.पी. 1998 पी.टी.सी. 20989	317.	मैसर्स पार्कर प्रीकेशन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	21639 यू 28939 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21639
304.	मैसर्स ग्लोबल डाटकॉम लिमिटेड	23138 यू 64202 सी.एच. 1999 पी.एल.सी. 23138	318.	मैसर्स श्री वर्द्धमान एग्रो टेक लिमिटेड	16384 यू 01122 एच.एल. 1995 पी.एल.सी. 16384
305.	मैसर्स आईओन हाईटेक इंजीनियरिंग लिमिटेड	18189 यू 35914 बी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18189	319.	मैसर्स पी. एस. फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	16525 यू 15203 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16525
306.	मैसर्स अरोड़ा फिनलीज लिमिटेड	16168 यू 67120 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16168	320.	मैसर्स गौटगिर एग्रो. प्राईवेट लिमिटेड	24123 यू 01119 एच.पी. 2000 पी.टी.सी. 24123
307.	मैसर्स बजाज भंसाली बिल्डर्स लिमिटेड	13502 यू 45201 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 13502	321.	मैसर्स शक्तिमान इंडो फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	21931 यू 15209 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 21931
308.	मैसर्स बीर इन्वेस्टमेंट्स एंड लीजिंग लिमिटेड	15381 यू 65910 सी.एच. 1994 पी.एल.सी. 15381	322.	मैसर्स अर्जुनराम धीमान एंड संस मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	17172 यू 29212 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17172
309.	मैसर्स अहमदाबाद इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	12829 यू 67120 पी.बी. 1992 पी.एल.सी. 12829	323.	मैसर्स सनलिट आटोज पार्स प्राईवेट लिमिटेड	17819 यू 27104 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17819

1	2	3
324.	मैसर्स परिवर्तन सल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	23672 यू 72120 सी.एच.डी. 2000 पी.टी.सी. 23672
325.	मैसर्स एक्सप्रेस कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड	14601 यू 67120 सी.एच. 1994 पी.एल.सी. 14601
326.	मैसर्स गुरचरण फास्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	18150 यू 27109 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18150
327.	मैसर्स ईस्ट वार्ड इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	23200 यू 74140 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23200
328.	मैसर्स पीपीआई ऑयल एंड लूब्रीकेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	19892 यू 32301 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19892
329.	मैसर्स गुप्ता एण्ड मिश्र सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड	18517 यू 74920 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18517
330.	मैसर्स मधु ट्रेडिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	6386 यू 17118 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6386
331.	मैसर्स त्रिशला स्पिनिंग प्राईवेट लिमिटेड	18240 यू 51109 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18240
332.	मैसर्स आशुतोष बिल्डकोर्न प्राईवेट लिमिटेड	21976 यू 45201 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21976
333.	मैसर्स वील्स लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	10294 यू 65910 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10294
334.	मैसर्स फकीर इंजी. प्राईवेट लिमिटेड	18605 यू 27310 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18605
335.	मैसर्स प्योरड्रिक्स (हैदराबाद) प्राईवेट लिमिटेड	3894 यू 1514 पी.बी. 1978 पी.टी.सी. 3894
336.	मैसर्स जयंती इलैक्ट्रिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	23328 यू 27109 सी. एच. 2000 पी.टी.सी. 23328
337.	मैसर्स होली हर्ट केयर एंड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	18938 यू 85110 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18938

1	2	3
338.	मैसर्स मित्त इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	16825 यू 51909 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16825
339.	मैसर्स मीना डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	14451 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14451
340.	मैसर्स रशमी डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	14453 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14453
341.	मैसर्स पटियाला आयुर्वेदिक फार्मसी प्राईवेट लिमिटेड	11660 यू 24233 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11660
342.	मैसर्स साल्वो फाईनेंस एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	10270 यू 65910 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10270
343.	मैसर्स एम.आर. पेस्टीसाइड्स प्राईवेट लिमिटेड	8180 यू 51497 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8180
344.	मैसर्स स्वर्ण साइकिल प्राईवेट लिमिटेड	8345 यू 921 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8345
345.	मैसर्स स्कैंड फाईनेंस प्राईवेट लिमिटेड	10813 यू 65921 सी.एच.डी. 1990 पी.टी.सी. 10813
346.	मैसर्स वी स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	9572 यू 36931 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9572
347.	मैसर्स जेना डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	4988 यू 21012 पी.बी. 1982 पी.टी.सी. 4988
348.	मैसर्स विजन इंजी. प्राईवेट लिमिटेड	8657 यू 27107 सी.एच. 1988 पी.टी.सी. 8657
349.	मैसर्स आर प्रकाश इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	14158 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14158
350.	मैसर्स पंजाब मिल्कमेन लिमिटेड	14042 यू 15201 सी.एच. 1993 पी.एल.सी. 14042
351.	मैसर्स रीटा फार्मिडिस प्राईवेट लिमिटेड	7890 यू 27310 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 7890

1	2	3	1	2	3
352.	मैसर्स दासवंद इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	14031 यू 51909 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 14031	366.	मैसर्स वरुण पोलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	13425 यू 17118 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13425
353.	मैसर्स राजा डिस्टीलर्स एंड एलाइड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	5320 यू 15550 पी.बी. 1983 पी.टी.सी. 5320	367.	मैसर्स प्रभात ग्लू प्राईवेट लिमिटेड	15247 यू 15331 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15247
354.	मैसर्स अंगद पेपर्स मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	7770 यू 21012 सी.एच. 1987 पी.टी.सी. 7770	368.	मैसर्स सनबीम मैनीजमेंट्स कंसलटैंट्स प्राईवेट लिमिटेड	11362 यू 74130 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11362
355.	मैसर्स फालकाम आरकीटेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	15683 यू 45203 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15683	369.	मैसर्स प्रैस वेल माइक्रो सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	12631 यू 30009 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12631
356.	मैसर्स बी. के. कोटवूल स्पिनर्स लिमिटेड	15703 यू 17161 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15703	370.	मैसर्स बर्दस फैशन प्राईवेट लिमिटेड	13451 यू 18101 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13451
357.	मैसर्स माइक्रो स्पेयर्स इन्फोटेक लिमिटेड	24301 यू 72200 सी.एच. 2001 पी.एल.सी. 24301	371.	मैसर्स डायना टैक इलो. प्राईवेट लिमिटेड	12666 यू 32109 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12666
358.	मैसर्स थापर टेलीकॉम लिमिटेड	15705 यू 64201 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15705	372.	मैसर्स माइन एग्रो टेक प्राईवेट लिमिटेड	12761 यू 15311 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12761
359.	मैसर्स थापर पेट्रोलियम लिमिटेड	15706 यू 23209 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15706	373.	मैसर्स रेनबो एंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	11359 यू 52324 सी.एच. 1991 पी.टी.सी. 11359
360.	मैसर्स थापर कोट स्पिन लिमिटेड	15707 यू 17115 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15707	374.	मैसर्स जी.एस. स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	11148 यू 36939 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11148
361.	मैसर्स सिपाय फाइ. एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	15841 यू 65921 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 15841	375.	मैसर्स किसान मिल्क प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	12095 यू 15201 सी.एच.डी 1992 पी.एल.सी. 12095
362.	मैसर्स बी.एस. इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	15451 यू 65921 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15451	376.	मैसर्स जी.आर. ब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	12818 यू 26921 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12818
363.	मैसर्स पंजाब माइक्रोटेक लिमिटेड	13619 यू 32209 सी.एच. 1993 पी.एल.सी. 13619	377.	मैसर्स आकाश बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	4630 यू 45201 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4630
364.	मैसर्स थापर इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	20898 यू 51224 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 20898	378.	मैसर्स अजय सर्जिकल प्राईवेट लिमिटेड	15211 यू 33119 सी.एच. 1994 पी.एल.सी. 15211
365.	मैसर्स करण रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	19935 यू 55101 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19935	379.	मैसर्स रूबी फा. प्राईवेट लिमिटेड	4569 यू 65921 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4569

1	2	3
380.	मैसर्स रजिन्द्रा स्टील प्राईवेट लिमिटेड	15269 यू 27109 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15269
381.	मैसर्स ए.के.जी. स्क्रिप्स एंड फा. प्राईवेट लिमिटेड	15265 यू 27120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15265
382.	मैसर्स डीएम हायर प्रचेज प्राईवेट लिमिटेड	11245 यू 65921 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11245
383.	मैसर्स वीसी एस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	19302 यू 70101 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 19302
384.	मैसर्स जीटी इंट्रोडक्शन प्राईवेट लिमिटेड	10332 यू 27310 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10332
385.	मैसर्स प्रोफेशनल्स सोर्सिज प्राईवेट लिमिटेड	23938 यू 51909 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23938
386.	मैसर्स बर्जन कमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड	8309 यू 51109 सी.एच. 1988 पी.टी.सी. 8309
387.	मैसर्स धीमान इंजी. प्राईवेट लिमिटेड	8193 यू 26261 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8193
388.	मैसर्स एनसी मोटर्स प्राईवेट लिमिटेड	9825 यू 52603 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9825
389.	मैसर्स सूहेम ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	14162 यू 25396 एच.पी. 1994 पी.एल.सी. 14162
390.	मैसर्स शानिंग स्टार इनवेस्टमेंट एण्ड लिजिंग लिमिटेड	14543 यू 65910 सी.एच. 1994 पी.एल.सी. 14543
391.	मैसर्स एकेजी कौपीटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	14547 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14547
392.	मैसर्स यू जीहिम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	6803 यू 55101 एच.पी. 1986 पी.टी.सी. 6803
393.	मैसर्स स्याल रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	15541 यू 55101 एच.पी. 1995 पी.टी.सी. 15541

1	2	3
394.	मैसर्स गीता एक्कीलक्स लिमिटेड	19535 यू 17219 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19535
395.	मैसर्स एस.के. एंड कं. (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	20115 यू 29309 सी.एच.डी. 1997 पी.टी.सी. 20115
396.	मैसर्स गोबिंदगढ़ गैसिज प्राईवेट लिमिटेड	16368 यू 23303 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16368
397.	मैसर्स गुरकिरपा गोविन्दगढ़ गैसिज प्राईवेट लिमिटेड	15087 यू 15312 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15087
398.	मैसर्स एसपीएस फाइनैशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	14751 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14751
399.	मैसर्स पाइलेट इलैक्ट्रो (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	14875 यू 29303 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14875
400.	मैसर्स सरकाघाट मोटर्स फाइनैस प्राईवेट लिमिटेड	1756 यू 65921 एच.पी. 1995 पी.टी.सी. 1756
401.	मैसर्स मदर इंडिया एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	18597 यू 17115 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18597
402.	मैसर्स लाम्बा टेलीकोम प्राईवेट लिमिटेड	15946 यू 64201 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 15946
403.	मैसर्स संगरूर कैमिकल्स लिमिटेड	15829 यू 27204 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15829
404.	मैसर्स एएच कारपोरेट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	15803 यू 67120 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15803
405.	मैसर्स बाल ब्रदर्स प्राईवेट लिमिटेड	312 यू 51909 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 312
406.	मैसर्स शीतल एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	7011 यू 19129 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 7011
407.	मैसर्स क्रोकोडाइल फाइनैशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	16445 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16445

1	2	3
408.	मैसर्स धीमान मशीन टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	8243 यू 29222 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8243
409.	मैसर्स रामराज बिल्डिंग प्राईवेट लिमिटेड	16139 यू 45201 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16139
410.	मैसर्स रैव मार्किटिंग प्राईवेट लिमिटेड	10213 यू 51909 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10213
411.	मैसर्स प्रिंस फिमलीज प्राईवेट लिमिटेड	18802 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 18802
412.	मैसर्स वर्धमान रबर्स प्राईवेट लिमिटेड	10372 यू 01116 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10372
413.	मैसर्स भारत सीमेंट प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	4894 यू 26941 सी.एच.डी. 1982 पी.टी.सी. 4894
414.	मैसर्स एकेजी मेनेजमेंट सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	14548 यू 741140 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14548
415.	मैसर्स सारा प्रॉडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	14472 यू 67120 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14472
416.	मैसर्स अटलांटिक प्लाइवर् प्राईवेट लिमिटेड	14887 यू 26914 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14887
417.	मैसर्स खंडेलवाल एलोइमिन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	12715 यू 51909 एच.पी. 1992 पी.टी.सी. 12715
418.	मैसर्स टाईटेनियम कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	14948 यू 74140 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14948
419.	मैसर्स एआरसी पोर्टफोलियो लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	14115 यू 65910 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14115
420.	मैसर्स हरियाणा इंटीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	9813 यू 36109 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9813
421.	मैसर्स इंडिया आटो इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	9992 यू 35921 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 9992

1	2	3
422.	मैसर्स एनआर सिक्वोरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	15991 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 15991
423.	मैसर्स कीरत लीज फाइनेंस लिमिटेड	15549 यू 65921 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 15549
424.	मैसर्स वरयान सिंह एंड संस (मशीनरी) प्राईवेट लिमिटेड	10673 यू 29219 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10673
425.	मैसर्स इंटरनेशनल हाइड्रो पावर जेनरेशन लिमिटेड	22101 यू 40101 पी.बी. 1998 पी.एल.सी. 22101
426.	मैसर्स पेनाफिक इन्वेस्टमेंट प्रा. कं. विद अनलिमि. लाइबिलिटी	13257 यू 67120 पी.बी. 1993 पी.एल.सी. 13257
427.	मैसर्स कानविक इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड	10427 यू 29222 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10427
428.	मैसर्स को.के. इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड	6360 यू 52110 पी.बी. 1985 पी.एल.सी. 6360
429.	मैसर्स रवि मरकेंटाइल एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड	14854 यू 51909 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14854
430.	मैसर्स गौतम फास्टनर्स प्राईवेट लिमिटेड	18250 यू 28939 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18250
431.	मैसर्स वी.के. ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	10214 यू 18209 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10214
432.	मैसर्स बी. को. सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	10462 यू 51229 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10462
433.	मैसर्स एवेन्यू हायर परचेज एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	10680 यू 65921 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10680
434.	मैसर्स अपर इंडिया फाइनेंस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	2950 यू 65921 पी.बी. 1970 पी.टी.सी. 2950
435.	मैसर्स ए.एन.सी. एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	9812 यू 74140 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9812

1	2	3	1	2	3
436.	मैसर्स आइडोज लाइना इंटरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड	21792 यू 25112 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21792	450.	मैसर्स मक्कड़ कार्स्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	20666 यू 29246 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20666
437.	मैसर्स स्टेप-अप ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	22021 यू 51229 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 22021	451.	मैसर्स सिद्धा एसोसिएटिड प्राईवेट लिमिटेड	10886 यू 74999 सी.एच.डी. 1990 पी.टी.सी. 10886
438.	मैसर्स त्रिमूर्ति कार्स्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	4585 यू 27310 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4585	452.	मैसर्स सिटी डिपोजिट्स एंड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड	10733 यू 65921 सी.एच.डी. 1990 पी.टी.सी. 10733
439.	मैसर्स ढींगरा एडवांसिज एंड डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	9882 यू 65921 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9882	453.	मैसर्स अर्जुन कार्स्टिंग प्राईवेट लिमिटेड	12305 यू 27310 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12305
440.	मैसर्स फ्रंटियर एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	10779 यू 51909 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10779	454.	मैसर्स प्रगति हाउसिंग एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	11961 यू 45201 सी.एस.डी. 1992 पी.टी.सी. 11961
441.	मैसर्स अभी डिपोजिट्स एंड एडवांस प्राईवेट लिमिटेड	9817 यू 65921 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9817	455.	मैसर्स मोहन डिपोजिट एंड एडवांसिज प्राईवेट लिमिटेड	11985 यू 65921 सी.एच.डी. 1992 पी.टी.सी. 11985
442.	मैसर्स एसपीजी कम्प्यूटर्स लिमिटेड	22015 यू 80302 सी.एच. 1998 पी.एल.सी. 22015	456.	मैसर्स एजीके टेक्नोवैल प्राईवेट लिमिटेड	19967 यू 26246 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 19967
443.	मैसर्स एक्सएलओ ब्रेक कं. (पंजाब) लिमिटेड	6529 यू 34300 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6529	457.	मैसर्स प्रताप मोटर फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	6629 यू 65921 एच.पी. 1986 पी.टी.सी. 6629
444.	मैसर्स सोनालीका कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	5896 यू 74140 पी.बी. 1984 पी.टी.सी. 5896	458.	मैसर्स सिटी लिंक इन्फो प्राईवेट लिमिटेड	22738 यू 72900 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22738
445.	मैसर्स लीको इंजीनियर्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड	22229 यू 45203 सी.एच. 1999 पी.एल.सी. 22229	459.	मैसर्स मालवा सॉप मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	17616 यू 24241 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17616
446.	मैसर्स टूर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	18728 यू 701101 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18728	460.	मैसर्स ग्रांड माल सुपर मार्केट प्राईवेट लिमिटेड	23434 यू 51221 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23434
447.	मैसर्स गेलास्टिक सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	12660 यू 34100 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12660	461.	मैसर्स गोईदवाल इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	9602 यू 31300 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9602
448.	मैसर्स ब्लू मून इन्फार्मेशन टेक्नोलोजिज प्राईवेट लिमिटेड	23645 यू 72200 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23645	462.	मैसर्स सुरैया स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	6434 यू 27104 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6434
449.	मैसर्स ब्राइट एग्रो फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	22788 यू 15203 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22788	463.	मैसर्स एआरके कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	8566 यू 74210 सी.एच. 1988 पी.टी.सी. 8566

1	2	3	1	2	3
464.	मैसर्स अदित कैपिटल सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड	13921 यू 65191 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13921	478.	मैसर्स एमके कैमिकल एंड पिगमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	17043 यू 24114 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17043
465.	मैसर्स सोनावर प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड	11091 यू 70101 पी.बी. 1991 पी.एल.सी. 11091	479.	मैसर्स केएसटी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	22220 यू 01132 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22220
466.	मैसर्स गोल्डन कारगेट्स प्राइवेट लिमिटेड	19522 यू 22012 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19522	480.	मैसर्स काइनेटिक फाइनेंसिज लिमिटेड	20049 यू 65921 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 20049
467.	मैसर्स लांबा मोटर्स लिमिटेड	19357 यू 55101 सी.एच. 1997 पी.एल.सी. 19357	481.	मैसर्स मिलाप फाइनेंस कं. प्राइवेट लिमिटेड	20190 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20190
468.	मैसर्स संपूर्ण ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड	21314 यू 51225 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21314	482.	मैसर्स सार कम्प्यूटर प्राइवेट लिमिटेड	21183 यू 80904 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21183
469.	मैसर्स जय कला इंटरप्राइजिज प्राइवेट लिमिटेड	4975 यू 55101 एच.पी. 1982 पी.टी.सी. 4975	483.	मैसर्स लीगो फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	18478 यू 67120 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18478
470.	मैसर्स शेर-ए-पंजाब बस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	4003 यू 60222 पी.बी. 1979 पी.टी.सी. 4003	484.	मैसर्स विसरो कम्प्यूटर सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	17932 यू 72200 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 17932
471.	मैसर्स वीनस फाइनेंस सर्विसिज लिमिटेड	16853 यू 64120 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16853	485.	मैसर्स निस्को सर्जिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	23873 यू 33125 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23873
472.	मैसर्स सतकार होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	21145 यू 55101 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21145	486.	मैसर्स एवीएस कारपोरेट कंसलटेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	23789 यू 74140 सी.एच.डी. 2000 पी.टी.सी. 23789
473.	मैसर्स आदर्श एक्सल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड	11885 यू 45201 सी.एच.डी. 1992 पी.टी.सी. 11885	487.	मैसर्स हायर फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड	8617 यू 61921 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8617
474.	मैसर्स वरुण डायर्स प्राइवेट लिमिटेड	5837 यू 24114 पी.बी. 1984 पी.टी.सी. 5837	488.	मैसर्स एमबी डिपोजिट्स प्राइवेट लिमिटेड	12113 यू 65921 सी.एच.डी. 1992 पी.टी.सी. 12113
475.	मैसर्स रिशू एग्रो स्पाइस प्राइवेट लिमिटेड	16379 यू 15136 एच.पी. 1995 पी.टी.सी. 16379	489.	मैसर्स इंटरएक्ट एक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड	10125 यू 51311 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10125
476.	मैसर्स शास जी स्टील प्राइवेट लिमिटेड	17390 यू 27105 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17390	490.	मैसर्स केएसएम फाइनेंसियल प्राइवेट लिमिटेड	16630 यू 67120 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16630
477.	मैसर्स एएसएस आर्जे एडवांसिज प्राइवेट लिमिटेड	20389 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20389	491.	मैसर्स जगतंज इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	20925 यू 65921 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 20925

1	2	3
492.	मैसर्स क्राप केयर बायो पेस्टीसाइड्स लिमिटेड	16985 यू 24231 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16985
493.	मैसर्स मेजिस्टिक फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	16263 यू 67120 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16263
494.	मैसर्स मुक्ती गेसिज प्राइवेट लिमिटेड	17444 यू 40200 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17444
495.	मैसर्स एक्सलो ब्राल (पंजाब) लिमिटेड	5424 यू 28999 सी.एच.डी. 1983 पी.टी.सी. 5424
496.	मैसर्स फ्यूचरिस्टिक फूड्स लिमिटेड	16254 यू 15116 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16254
497.	मैसर्स कल्पना फाइनेंसियल कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	16629 यू 67120 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16629
498.	मैसर्स न्यू मिलेनियम इमीग्रेशन कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	7951 यू 74999 सी.एच.डी. 1988 पी.टी.सी. 7951
499.	मैसर्स मैक होजरी प्राइवेट लिमिटेड	17051 यू 18101 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17051
500.	मैसर्स ईएसएसटीईई सीमेंट्स लिमिटेड	16896 यू 26942 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16896
501.	मैसर्स नार्दन सिक्कोरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड	17005 यू 74999 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17005
502.	मैसर्स वशिष्ठ एल्लोयस प्राइवेट लिमिटेड	6522 यू 27106 एच.पी. 1995 पी.टी.सी. 6522
503.	मैसर्स एयरपैक एयरकंडीशनिंग कंसलटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	15649 यू 85320 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 15649
504.	मैसर्स ओसेनिक इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	16041 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16041
505.	मैसर्स राजपूताना इंटरप्रा. प्राइवेट लिमिटेड	20330 यू 51109 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20330

1	2	3
506.	मैसर्स अनुवार सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	23106 यू 55101 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23106
507.	मैसर्स अमर डुपलेक्स बोर्ड लिमिटेड	17334 यू 21012 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 17334
508.	मैसर्स भवानी आटो मोबाइल्स लिमिटेड	20226 यू 29246 पी.बी. 1997 पी.एल.सी. 20226
509.	मैसर्स जेपीएस बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	16408 यू 45201 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16408
510.	मैसर्स अंचित एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	16230 यू 15209 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16230
511.	मैसर्स कमांडर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	19363 यू 55101 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19363
512.	मैसर्स बाल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2432 यू 65921 पी.बी. 1962 पी.टी.सी. 2432
513.	मैसर्स कानसॉस हैल्थकेयर लिमिटेड	24173 यू 24235 सी.एच. 2001 पी.एल.सी. 24173
514.	मैसर्स विशाल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड	16152 यू 65999 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16152
515.	मैसर्स सिटी हार्ट रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	23756 यू 55101 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23756
516.	मैसर्स गीतांश फाइनांस कं. प्राइवेट लिमिटेड	2855 यू 65921 पी.बी. 1969 पी.टी.सी. 2855
517.	मैसर्स स्टोक्स-वाइन्स एंड साइडर	9513 यू 15520 एच.पी. 1989 पी.टी.सी. 9513
518.	मैसर्स पंजाब टेककैपस प्राइवेट लिमिटेड	6415 यू 91120 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6415
519.	मैसर्स रिलायंस होटल्स लिमिटेड	7307 यू 55101 सी.एच. 1987 पी.एल.सी. 7307

1	2	3	1	2	3
520.	मैसर्स कैमे शू प्राईवेट लिमिटेड	23764 यू 19201 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23764	534.	मैसर्स फार्मर्स मार्केटिंग कं. प्राईवेट लिमिटेड	22591 यू 51019 एच.पी. 1999 पी.टी.सी. 22591
521.	मैसर्स शांतज कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	18153 यू 74140 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18153	535.	मैसर्स रोटार इकोपाइमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	21151 यू 51501 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21151
522.	मैसर्स संग्राम मेटल्स लिमिटेड	9543 यू 27109 पी.बी. 1989 पी.एल.सी. 9543	536.	मैसर्स कोसमोस टूरस प्राईवेट लिमिटेड	17486 यू 63040 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17486
523.	मैसर्स सिंगल विंडो सर्वि. प्राईवेट लिमिटेड	17777 यू 51599 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17777	537.	मैसर्स पंचकूला बायोमड प्राईवेट लिमिटेड	22468 यू 85110 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22468
524.	मैसर्स राजा भगवान सिंह होट. प्राईवेट लिमिटेड	3566 यू 55101 सी.एच. 1975 पी.टी.सी. 3566	538.	मैसर्स टर्निंग प्वाइंट रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	22600 यू 55101 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22600
525.	मैसर्स एसएस जीएम प्रापर्टी प्राईवेट लिमिटेड	20841 यू 70101 सी.एच.डी. 1997 पी.टी.सी. 20841	539.	मैसर्स सागर यार्नस प्राईवेट लिमिटेड	16700 यू 71117 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16700
526.	मैसर्स एनसी फार्मास्युटिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	6997 यू 24239 एच.पी. 1986 पी.टी.सी. 6997	540.	मैसर्स जैटेज मल्टीमीडिया गैलरी प्राईवेट लिमिटेड	21015 यू 30007 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 21015
527.	मैसर्स सियाल कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	18647 यू 63022 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18647	541.	मैसर्स यू टेच प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	21482 यू 33119 सी.एच.डी. 1998 पी.टी.सी. 21482
528.	मैसर्स बैल सॉफ्ट इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	23148 यू 72100 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 23148	542.	मैसर्स पत्तर हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	14974 यू 65921 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14974
529.	मैसर्स नानो इनफोटेक प्राईवेट लिमिटेड	23560 यू 72200 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23560	543.	मैसर्स जालंधर टेक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड	13295 यू 17219 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13295
530.	मैसर्स एमजी फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	19268 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19268	544.	मैसर्स ग्रिड इलेक. कंट्रोल सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड	25589 यू 32109 सी.एच. 2002 पी.टी.सी. 25589
531.	मैसर्स बाजवा फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	3078 यू 65921 सी.एच. 1971 पी.टी.सी. 3078	545.	मैसर्स श्रेष्ठ टूल्स लिमिटेड	22177 यू 28999 पी.बी. 1999 पी.एल.सी. 22177
532.	मैसर्स कैन्न टूल्स लिमिटेड	19265 यू 28932 सी.एच.डी. 1997 पी.एल.सी. 19265	546.	मैसर्स डाइमंड कैस्टल ट्रेडलिंक्स प्राईवेट लिमिटेड	24717 यू 52599 पी.बी. 2001 पी.टी.सी. 24717
533.	मैसर्स सुपिरियर बिन्स प्राईवेट लिमिटेड	22562 यू 15220 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22562	547.	मैसर्स अंकुर स्पाइस लिमिटेड	23022

1	2	3
548.	मैसर्स चाली बीवयर्स एंड फूड्स लिमिटेड	13305 यू 15549 पी.बी. 1993 पी.एल.सी. 13305
549.	मैसर्स टैंडरकेयर हास्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	20847 यू 85110 सी.एच.डी. 1997 पी.टी.सी. 20847
550.	मैसर्स हिमालिया कारपेट्स अंडरली प्राईवेट लिमिटेड	21721 यू 17223 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21721
551.	मैसर्स वोहरा फाइनांस ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	4868 यू 65921 सी.एच.डी. 1982 पी.टी.सी. 4868
552.	मैसर्स खुराना फाउंडरी (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	5409 यू 27310 सी.एच. 1983 पी.टी.सी. 5409
553.	मैसर्स अलमा फिल्म्स प्राईवेट लिमिटेड	22461 यू 92120 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22461
554.	मैसर्स अना हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड	24807 यू 92411 सी.एच. 2001 पी.टी.सी. 24807
555.	मैसर्स सैनी कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	20789 यू 74140 सी.एच.डी. 1997 पी.टी.सी. 20789
556.	मैसर्स ओनलाइन इंटरनेट सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	22864 यू 64202 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22864
557.	मैसर्स अंकित टैक्सटाइल प्राईवेट लिमिटेड	17608 यू 18101 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17608
558.	मैसर्स स्नेक्स टाइम्स मार्केटिंग लिमिटेड	23247 यू 15209 सी.एच. 2000 पी.एल.सी. 23247
559.	मैसर्स मलाह फाइनांस एंड इनवेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	19087 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 19087
560.	मैसर्स जेटीवी हायर पर्चेज लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	20506 यू 659210 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20506
561.	मैसर्स पंजाब राजस्थान हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	6673 यू 65921 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 6673

1	2	3
562.	मैसर्स सोफ्ट ब्रेन इनवेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	15251 यू 67120 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 15251
563.	मैसर्स प्रभ टूल्स प्राईवेट लिमिटेड	20256 यू 24114 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20256
564.	मैसर्स अर्जुन फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	19613 यू 523222 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19613
565.	मैसर्स आइस बर्ग रैफरीजीरेटड गड्डाउन प्राईवेट लिमिटेड	20240 यू 63022 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20240
566.	मैसर्स बीके फिनवेस्ट लिमिटेड	16305 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16305
567.	मैसर्स आभूषण मार्केटिंग लिमिटेड	24005 यू 51398 सी.एच. 2000 पी.एल.सी. 24005
568.	मैसर्स अमन रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड	19055 यू 60100 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 19055
569.	मैसर्स नेकम इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	25488 यू 31200 सी.एच. 2002 पी.टी.सी. 25488
570.	मैसर्स स्वर्ण एजेंसी प्राईवेट लिमिटेड	16144 यू 5101 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16144
571.	मैसर्स गर्ग एंड कंपनी (इलेक.) इंडिया लिमिटेड	23149 यू 31503 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23149
572.	मैसर्स कौशल हौजरी एंड टैक्सटाइल मिल प्राईवेट लिमिटेड	19798 यू 18101 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19798
573.	मैसर्स नार्थ इंडिया इंडस्ट्रियल फाइनांस लिमिटेड	7213 यू 65921 सी.एच.डी. 1986 पी.एल.सी. 7213
574.	मैसर्स सीएमसी कैसेट प्राईवेट लिमिटेड	17067 यू 32109 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17067
575.	मैसर्स गणेश अप्रैल्स प्राईवेट लिमिटेड	21321 यू 17115 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21321

1	2	3	1	2	3
576.	मैसर्स शिवालिक इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	6729 यू 51पी 0096 सी.एच.डी. 1986 पी.टी.सी. 6729	590.	मैसर्स कुलतेज चिट एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	10615 यू 65921 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10615
577.	मैसर्स लीथो फोम प्राईवेट लिमिटेड	4966 यू 19201 सी.एच.डी. 1982 पी.टी.सी. 4966	591.	मैसर्स गुरदर्शन कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	18107 यू 63022 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 18107
578.	मैसर्स स्टेल्को कैमिकल प्राईवेट लिमिटेड	16626 यू 24242 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16626	592.	मैसर्स विकास एल्यूमिनियम इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	8956 यू 28991 एच.पी. 1989 पी.टी.सी. 8956
579.	मैसर्स टूरस ट्रांसपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	21354 यू 63090 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 21354	593.	मैसर्स विचित्रा पैकेजिंग प्राईवेट लिमिटेड	22045 यू 21029 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 22045
580.	मैसर्स क्राउन एसोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड	6385 यू 74999 एच.पी. 1985 पी.टी.सी. 6385	594.	मैसर्स सनराइस फ्लोरा प्राईवेट लिमिटेड	18601 यू 15310 सी.एच.डी. 1996 पी.टी.सी. 18601
581.	मैसर्स परफेक्ट मैच मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	16337 यू 24291 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16337	595.	मैसर्स मक्कड़ हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	10210 यू 65921 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10210
582.	मैसर्स विवेक गुड्स कैरियर प्राईवेट लिमिटेड	21164 यू 34102 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21164	596.	मैसर्स जग्गी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	18212 यू 65910 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18212
583.	मैसर्स त्रिप्ता रोटोफेब लिमिटेड	17289 यू 17115 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 17289	597.	मैसर्स भारती फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	10458 यू 18101 पी.बी. 390 पी.टी.सी. 10458
584.	मैसर्स गगन मोटर प्राईवेट लिमिटेड	19632 यू 6002100 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 1962	598.	मैसर्स ए.पी.वी. कैपिटल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	14470 यू 67120 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14470
585.	मैसर्स हायर फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	16698 यू 65921 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16698	599.	मैसर्स परफेक्ट मैच मैनुफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड	17573 यू 24291 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17573
586.	मैसर्स वीर (इंडिया) लिमिटेड	22379 यू 51311 सी.एच. 1999 पी.एल.सी. 22379	600.	मैसर्स सूवी एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड	12050 यू 74210 सी.एच.डी. 1992 पी.टी.सी. 12050
587.	मैसर्स के सिन्क्योरिटीज प्राईवेट लिमिटेड	23989 यू 74920 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23989	601.	मैसर्स क्रिएटिव म्यूजिकल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	14736 यू 32303 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14736
588.	मैसर्स एचिलेक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड	18771 यू 51909 सी.एच.डी. 1996 पी.टी.सी. 18771	602.	मैसर्स इजी गुड्स कैरियर प्राईवेट लिमिटेड	19343 यू 60210 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19343
58.	मैसर्स सहाय फ्लोर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	22181 यू 15311 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22181	603.	मैसर्स आंचल फाइनांशियल कंसलटेंट प्राईवेट लिमिटेड	14576 यू 67120 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14576

1	2	3
604.	मैसर्स यूनोट्रेड मैटेल्स प्राईवेट लिमिटेड	22378 यू 28910 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22378
605.	मैसर्स पी.डी. ज्ञान एंड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	6204 यू 55909 सी.एच.डी. 1985 पी.टी.सी. 6204
606.	मैसर्स ब्रिस्टल टेप्स प्राईवेट लिमिटेड	18437 यू 25209 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18437
607.	मैसर्स ब्लूमिंग एक्सपोर्ट लिमिटेड	16597 यू 51909 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16597
608.	मैसर्स न्यू चंडीगढ़ ट्रेडिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	16145 यू 51101 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16145
609.	मैसर्स यू वी फाइनांस लिमिटेड	14953 यू 65921 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14953
610.	मैसर्स शाइन स्टार हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	14613 यू 65921 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14613
611.	मैसर्स ए.के. इनवेस्टीगेटर एंड लोस एसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	14440 यू 67200 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14440
612.	मैसर्स क्रिस्टन फाइनांशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	14192 यू 67120 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14192
613.	मैसर्स विकासदीप अर्थ मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड	10916 यू 60231 सी.एच.डी. 1990 पी.टी.सी. 10916
614.	मैसर्स रिजेंसी फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड	15544 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15544
615.	मैसर्स एमपीएम फाइनांशियल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	14218 यू 65999 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14218
616.	मैसर्स टिनी टोट नर्सरी स्कूल प्राईवेट लिमिटेड	9462 यू 80101 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9462
617.	मैसर्स इलजेंट फार्म प्राईवेट लिमिटेड	9181 यू 70101 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9181

1	2	3
618.	मैसर्स नोबल इंटरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड	15119 यू 31200 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15119
619.	मैसर्स अकालगढ़ पोल्ट्री फार्म प्राईवेट लिमिटेड	9200 यू 01222 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9200
620.	मैसर्स स्वाति हायर परचेज फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	12162 यू 65921 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12162
621.	मैसर्स फ्रैंड्स स्प्रिंग लीव्ज प्राईवेट लिमिटेड	16271 यू 28991 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16271
622.	मैसर्स पैराडाइज एडवेंचर क्लब प्राईवेट लिमिटेड	15202 यू 92419 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 15202
623.	मैसर्स राली शर्मा सर्वेयर्स प्राईवेट लिमिटेड	13616 यू 74140 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13616
624.	मैसर्स मेहरा प्रोसेसर्स प्राईवेट लिमिटेड	13552 यू 18101 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13552
625.	मैसर्स सियरा इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	13536 यू 51494 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13536
626.	मैसर्स कौनरी कैपिटल सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	15371 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15371
627.	मैसर्स गोबिन्द रोडवेज प्राईवेट लिमिटेड	13805 यू 60221 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13805
628.	मैसर्स प्राइम स्टार फाइबर लिमिटेड	15753 यू 18101 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15753
629.	मैसर्स इशहान टेलीविजन इंडिया लिमिटेड	15511 यू 32101 सी.एच. 1994 पी.एल.सी. 15511
630.	मैसर्स सुर्ब सिनकोट लिमिटेड	15545 यू 17115 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15545
631.	मैसर्स रोड फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	9337 यू 63022 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9337

1	2	3	1	2	3
632.	मैसर्स रचिता फेशनज प्राईवेट लिमिटेड	23999 यू 18101 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23999	646.	मैसर्स मार्या सेल्ज प्राईवेट लिमिटेड	21192 यू 64201 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 21192
633.	मैसर्स आर.के. इलैक्ट्रो केबलज लिमिटेड	17125 यू 31300 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 17125	647.	मैसर्स अना विजन लिमिटेड	10754 यू 31504 पी.बी. 1990 पी.एल.सी. 10754
634.	मैसर्स एच.आर. माइन्ड.काम प्राईवेट लिमिटेड	23572 यू 74140 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23572	648.	मैसर्स वी.जी. एक्जिम प्राईवेट लिमिटेड	19811 यू 18101 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 19811
635.	मैसर्स वी.आर. टेक्नोलोजिस प्राईवेट लिमिटेड	23433 यू 64202 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23433	649.	मैसर्स रायो क्रेडिट्स लिमिटेड	13361 यू 65921 सी.एच. 1993 पी.एल.सी. 13361
636.	मैसर्स हिल व्यु हाइड्रोलिक्स प्राईवेट लिमिटेड	14383 यू 28939 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 14383	650.	मैसर्स मून टैक फैब्रीकेटर्स प्राईवेट लिमिटेड	20881 यू 27106 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20881
637.	मैसर्स ओक्टोपस मल्टीविजन प्राईवेट लिमिटेड	23675 यू 80302 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23675	651.	मैसर्स हरियाणा पैकेजज प्राईवेट लिमिटेड	3985 यू 21029 सी.एच. 1979 पी.टी.सी. 3985
638.	मैसर्स के.जे. अलायज प्राईवेट लिमिटेड	9993 यू 27310 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 9993	652.	मैसर्स सनबलैस इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	17487 यू 67120 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17487
639.	मैसर्स कोठारी फिनलीज लिमिटेड	16046 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16046	653.	मैसर्स मैडीवैल कार्डियक केयर प्राईवेट लिमिटेड	17342 यू 85110 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17342
640.	मैसर्स स्पेशलिस्ट लीगल कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	23714 यू 74140 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23714	654.	मैसर्स नमस्कार एडवर्टाइजमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	18125 यू 74300 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 18125
641.	मैसर्स चांदी एक्सपो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	24101 यू 67120 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 24101	655.	मैसर्स आशियाना कोटेजज प्राईवेट लिमिटेड	15593 यू 55203 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 15593
642.	मैसर्स द्रोणा सिक्वोरिटी एंड सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	20073 यू 74910 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20073	656.	मैसर्स आजाद एडवांसिस प्राईवेट लिमिटेड	17347 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17347
643.	मैसर्स जी.एच.पी. होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	15582 यू 55101 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 15582	657.	मैसर्स ए.एम.टी. रोलिंग मिल मशीन्स प्राईवेट लिमिटेड	15501 यू 27101 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15501
644.	मैसर्स एस.एस. फैब्रिक्स प्राईवेट लिमिटेड	9201 यू 17117 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9201	658.	मैसर्स इंडियन ओशियन माल्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	15595 यू 15533 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15595
645.	मैसर्स केटी हिमालय रिसोर्ट्स लिमिटेड	13798 यू 55101 एच.पी. 1993 पी.एल.सी. 13798	659.	मैसर्स बहारां पंजाब दियां इंटरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	25504 यू 92141 पी.बी. 2002 पी.टी.सी. 25504

1	2	3	1	2	3
660.	मैसर्स मिडास ब्राइक्स प्राईवेट लिमिटेड	13754 यू 35921 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13754	674.	मैसर्स पारस फाइनांशियल एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	13954 यू 67120 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13954
661.	मैसर्स वशिष्ठ होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	6832 यू 67120 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 6832	675.	मैसर्स परवाणु फाइनांस एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	10571 यू 65921 एच.पी. 1990 पी.टी.सी. 10571
662.	मैसर्स रिलायंस स्ट्रिप्स प्राईवेट लिमिटेड	5918 यू 27107 पी.बी. 1984 पी.टी.सी. 5918	676.	मैसर्स प्रगति फाइनांशियल एंड मैनेजमेंट कंसलटेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	6854 यू 74140 सी.एच.डी. 1986 पी.टी.सी. 6854
663.	मैसर्स लक्ष्मी रिजेंसी रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	18243 यू 55101 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18243	677.	मैसर्स आर.ए. एग्रो कैमिकल ऐड्ज प्राईवेट लिमिटेड	3915 यू 51101 पी.बी. 1979 पी.टी.सी. 3915
664.	मैसर्स रोबस्ट टायर्स एंड रबर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	3436 यू 25119 सी.एच. 1974 पी.टी.सी. 3436	678.	मैसर्स टी.एन.टी. इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	26003 यू 51397 सी.एच. 2003 पी.टी.सी. 26003
665.	मैसर्स अतुल इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	16143 यू 51909 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16143	679.	मैसर्स पीएबीएम स्टोक-इन्वेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	24199 यू 67120 सी.एच. 2001 पी.टी.सी. 24199
666.	मैसर्स कोटकपूरा डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	18004 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18004	680.	मैसर्स मैकल्योड इंडिया फोरेक्स लिमिटेड	22921 यू 67110 एच.पी. 1999 पी.एल.सी. 22921
667.	मैसर्स पैकट क्रेडिट प्राईवेट लिमिटेड	9714 यू 65921 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9714	681.	मैसर्स मनाली ट्रेव कार्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	20254 यू 63040 एच.पी. 1997. पी.टी.सी. 20254
668.	मैसर्स किडराइड इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	6489 यू 51909 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6489	682.	मैसर्स काका इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	22884 यू 15142 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22884
669.	मैसर्स हिमाचल टेलीफोन इंडस्ट्री प्राईवेट लिमिटेड	6750 यू 642000 एच.पी. 1986 पी.टी.सी. 6750	683.	मैसर्स कारटेयर एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	24124 यू 01119 एच.पी. 2000 पी.टी.सी. 24124
670.	मैसर्स आस्था इंटरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	18584 यू 27310 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18584	684.	मैसर्स सियाराम र यू रेल सूटिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	22069 यू 18101 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 22069
671.	मैसर्स लोट्स माइग्रेशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	25771 यू 74999 पी.बी. 2003 पी.टी.सी. 25771	685.	मैसर्स उद्योग फाइनांस एंड चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड	3047 यू 65921 पी.बी. 1971 पी.टी.सी. 3047
672.	मैसर्स यूनिटेक इनफोमेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	24396 यू 80302 पी.बी. 2001 पी.टी.सी. 24396	686.	मैसर्स फोनिक्स एलायंस प्राईवेट लिमिटेड	8960 यू 27105 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 8960
673.	मैसर्स लोट्स ह्यूमन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	25770 यू 74999 पी.बी. 2003 पी.टी.सी. 25770	687.	मैसर्स होटल शिराज प्राईवेट लिमिटेड	4967 यू 55101 पी.बी. 1982 पी.टी.सी. 4967

1	2	3
688.	मैसर्स बी जे स्पिनर्स प्राईवेट लिमिटेड	11055 यू 17115 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11055
689.	मैसर्स सहगल सन्ज मैडीसन प्राईवेट लिमिटेड	8171 यू 15543 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8171
690.	मैसर्स राघव कम्प्यूटर्स एंड साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	13078 यू 72200 सी.एच. 1993 पी.टी.सी. 13078
691.	मैसर्स राघव साफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	13765 यू 72200 सी.एच.डी. 1993 पी.टी.सी. 13765
692.	मैसर्स मनाली होटल्स लिमिटेड	12530 यू 55101 एच.पी. 1992 पी.एल.सी. 12530
693.	मैसर्स पंजाब एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	10151 यू 24232 सी.एच. 1990 पी.एल.सी. 10151
694.	मैसर्स आर.एम. चिट्स एंड लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड	11895 यू 65910 एच.पी. 1992 पी.टी.सी. 11895
695.	मैसर्स बी. शाह फाइनांस कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	14700 यू 65921 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14700
696.	मैसर्स प्रीत कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्टरी प्राईवेट लिमिटेड	4593 यू 63022 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4593
697.	मैसर्स उस्मान फाइनांस एंड रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड	13605 यू 65921 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13605
698.	मैसर्स इजीवे पब्लिशर्स एंड एडवर्टाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड	24317 यू 22110 पी.बी. 2001 पी.टी.सी. 24317
699.	मैसर्स लांसर सिक्योरिटी प्राईवेट लिमिटेड	23518 यू 67110 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23518
700.	मैसर्स आर.सी.एम. पाइप्स प्राईवेट लिमिटेड	23019 यू 27204 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 23019
701.	मैसर्स एकाम साफ्टवेयर सोल्यूशंस लिमिटेड	23133 यू 3007 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23133

1	2	3
702.	मैसर्स जे.एन.एच. इंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड	23412 यू 72200 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23412
703.	मैसर्स डोनीमेंट कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	24959 यू 74140 पी.बी. 2002 पी.टी.सी. 24959
704.	मैसर्स हैल्थलाइन ट्रेडर्स नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	23523 यू 51391 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23523
705.	मैसर्स जगसोनी ट्रांसपोर्ट्स एंड फाइनांसर्स प्राईवेट लिमिटेड	8946 यू 65921 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 8946
706.	मैसर्स मद्रांचल कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	3478 यू 24119 पी.बी. 1974 पी.टी.सी. 3478
707.	मैसर्स भाई हरनाम सिंह टिम्बर प्राईवेट लिमिटेड	6931 यू 20213 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 6931
708.	मैसर्स साइनर टैक कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	8676 यू 74140 सी.एच. 1988 पी.टी.सी. 8676
709.	मैसर्स संगरूर शेयर ट्रेडर्स लिमिटेड	12897 यू 67120 पी.बी. 1993 पी.एल.सी. 12897
710.	मैसर्स आर.पी. हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	8866 यू 65921 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8866
711.	मैसर्स कोसमिक मोवीटेल प्राईवेट लिमिटेड	15995 यू 64201 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15995
712.	मैसर्स गुरजी बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	14985 यू 45201 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14985
713.	मैसर्स के.जी.बी. टेली आई प्राईवेट लिमिटेड	8545 यू 29306 एच.पी. 1988 पी.टी.सी. 8545
714.	मैसर्स आर.जी. इलैक्ट्रो प्लेमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	8546 यू 29306 एच.पी. 1988 पी.टी.सी. 8546
715.	मैसर्स अतुल फर्नीचर प्राईवेट लिमिटेड	16142 यू 36109 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 16142

1	2	3	1	2	3
716.	मैसर्स ट्रैंड सैटर्ज ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	12081 यू 74999 सी.एच.डी. 1992 पी.टी.सी. 12081	730.	मैसर्स इकलैट टेक्नो प्राईवेट लिमिटेड	19488 यू 45201 सी.एच.डी. 1997 पी.एल.सी. 19488
717.	मैसर्स मल्टीप्लैक्स गिफ्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	20607 यू 51109 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20607	731.	मैसर्स स्काई स्वेनर्ज केबल नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	20078 यू 64202 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 20078
718.	मैसर्स भंडारी बैल्टिंग कंपनी प्राईवेट लिमिटेड	14539 यू 25192 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14539	732.	मैसर्स हिमाचल ब्रेव्रीज लिमिटेड	17743 यू 15520 एच.पी. 1996 पी.एल.सी. 17743
719.	मैसर्स सुदर्शन क्रेडिट एडवांसेज प्राईवेट लिमिटेड	9583 यू 65921 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9583	733.	मैसर्स जीवाश्री इनफोटेक सिस्टम्स लिमिटेड	18223 यू 30007 सी.एच. 1996 पी.एल.सी. 18223
720.	मैसर्स चट्टा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	11637 यू 65921 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11637	734.	मैसर्स ए.एस. हाईटेक इन्फॉर्मेटिक्स प्राईवेट लिमिटेड	23390 यू 72900 सी.एच.डी. 2000 पी.टी.सी. 23390
721.	मैसर्स आर.एम. इलैक्ट्रो डिवाइसिज प्राईवेट लिमिटेड	8547 यू 29306 एच.पी. 1988 पी.टी.सी. 8547	735.	मैसर्स एस.डी. फाइनलीज लिमिटेड	16363 यू 65910 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 16363
722.	मैसर्स विश्व प्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	23489 यू 25209 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23489	736.	मैसर्स कुल्लू हाइड्रोजनरेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	24995 यू 40101 एच.पी. 2002 पी.टी.सी. 24995
723.	मैसर्स सैच्युरी हेल्थ प्राईवेट लिमिटेड	5677 यू 24231 सी.एच. 1983 पी.टी.सी. 5677	737.	मैसर्स जी. डाटा सोल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	25809 यू 72200 सी.एच. 2003 पी.टी.सी. 25809
724.	मैसर्स जैन सोल्वेंट ऑयल मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	3490 यू 15143 पी.बी. 1974 पी.टी.सी. 3490	738.	मैसर्स कैन्थोन हेल्थ केयर प्राईवेट लिमिटेड	21731 यू 24232 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21731
725.	मैसर्स हर-जस इलैक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड	6870 यू 32107 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 6870	739.	मैसर्स हिमवे नेटवर्क सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	24803 यू 52599 एच.पी. 2001 पी.टी.सी. 24803
726.	मैसर्स क्रोसलैंड सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड	18005 यू 26959 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18005	740.	मैसर्स मैक्स कैपिटल लिमिटेड	23216 यू 65910 पी.बी. 1999 पी.एल.सी. 23216
727.	मैसर्स आर.एस. स्पोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	24403 यू 36939 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 24403	741.	मैसर्स लुधियाना फर्टिलाइजर्स एंड इनपुट्स प्राईवेट लिमिटेड	16361 यू 24129 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16361
728.	मैसर्स हार्ट कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	22976 यू 72900 सी.एच.डी. 1999 पी.टी.सी. 22976	742.	मैसर्स प्रताप मोटर फिनवैस्ट लिमिटेड	20222 यू 65921 पी.बी. 1997 पी.एल.सी. 20222
729.	मैसर्स नारंग डिपोजिट प्राईवेट लिमिटेड	14008 यू 65929 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 14008	743.	मैसर्स इनफोटेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	20449 यू 30007 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20449

1	2	3	1	2	3
744.	मैसर्स स्काई स्क्वेनर्ज केबल विजन प्राईवेट लिमिटेड	23797 यू 64204 सी.एच.डी. 2000 पी.टी.सी. 23797	758.	मैसर्स ईशाम मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	26068 यू 50599 एच.पी. 2003 पी.टी.सी. 26068
745.	मैसर्स नोर्दन एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन्स प्राईवेट लिमिटेड	17924 यू 24231 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 17924	759.	मैसर्स जेएम इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	7721 यू 51109 पी.बी. 1987 पी.टी.सी. 7721
746.	मैसर्स जी.बी. मैग्नेटिक वर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड	23922 यू 851999 सी.एच. 2000 पी.टी.सी. 23922	760.	मैसर्स जेटी टेलीविजन प्राईवेट लिमिटेड	7169 यू 32200 पी.बी. 1986 पी.टी.सी. 7169
747.	मैसर्स एन.के.एच. फोरजिंग मशीनरी प्राईवेट लिमिटेड	19280 यू 29219 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19280	761.	मैसर्स अमृतसर इन्वेंस्टमेंट्स एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	5986 यू 62921 पी.बी. 1984 पी.टी.सी. 5986
748.	मैसर्स एन.के.एच. मशीन टूलज प्राईवेट लिमिटेड	19281 यू 28939 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19281	762.	मैसर्स गिगल ऑटो मोबाइल इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	2719 यू 34300 पी.बी. 1967 पी.एल.सी. 2719
749.	मैसर्स महंत ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	16511 यू 15312 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16511	763.	मैसर्स कोरा कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	6760 यू 74140 सी.एच.डी. 1986 पी.टी.सी. 6760
750.	मैसर्स करावन रिजोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	10852 यू 55101 एच.पी. 1990 पी.टी.सी. 10852	764.	मैसर्स कोहली पोल्ट्री फीड्स प्राईवेट लिमिटेड	9206 यू 15332 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9206
751.	मैसर्स प्रभु किरपा निट्स प्राईवेट लिमिटेड	21971 यू 27115 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21971	765.	मैसर्स संदीप ऑक्सीजन कं. प्राईवेट लिमिटेड	8609 यू 24112 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8609
752.	मैसर्स सिंग एंजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड	20735 यू 51909 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20735	766.	मैसर्स डबी इम्पैक्स प्राईवेट लिमिटेड	12436 यू 29260 पी.बी. 1992 पी.टी.सी. 12436
753.	मैसर्स हैवन्स ट्रेवल प्राईवेट लिमिटेड	21415 यू 63040 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21415	767.	मैसर्स हर्देश फाइनेंशियल एंड इंडस्ट्रीयल कन्सलटेंट्स (प्राईवेट) लिमिटेड	9317 यू 74140 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9317
754.	मैसर्स नारोहा मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	8408 यू 15543 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8408	768.	मैसर्स जेन्यू व्हील्स (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	11296 यू 35921 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11296
755.	मैसर्स स्टेग फाडनांस प्राईवेट लिमिटेड	11833 यू 65921 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11833	769.	मैसर्स आपका पेपर एंड कैमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	4846 यू 51909 पी.बी. 1982 पी.टी.सी. 4846
756.	मैसर्स एवन फ्लैशलाइट्स प्राईवेट लिमिटेड	18403 यू 31909 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18403	770.	मैसर्स इंडो सोवियत टायर लिमिटेड	9580 यू 25111 पी.बी. 1989 पी.एल.सी. 9580
757.	मैसर्स नील कंठ आयरन मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	22552 यू 27105 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22552	771.	मैसर्स एचएमबी फिनवेस्ट लिमिटेड	15791 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 15791

1	2	3
772.	मैसर्स पंजाब लायड एप्लीसएंसिज लिमिटेड	10186 यू 29305 सी.एच. 1990 पी.एल.सी. 10186
773.	मैसर्स हर्देश चिट्स एंड फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	8759 यू 65992 सी.एच. 1988 पी.टी.सी. 8759
774.	मैसर्स विश्व आटोज प्राईवेट लिमिटेड	15001 यू 15032 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 15001
775.	मैसर्स स्टार हेयर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	4920 यू 65921 पी.बी. 1982 पी.टी.सी. 4920
776.	मैसर्स प्रताप सीमेंट प्राईवेट लिमिटेड	4976 यू 26941 सी.एच.बी. 1982 पी.टी.सी. 4976
777.	मैसर्स रैनबो ड्रग्स लिमिटेड	12657 यू 51109 सी.एच. 1992 पी.एल.सी. 12657
778.	मैसर्स सिमर्स बिजनेस हाउस प्राईवेट लिमिटेड	7689 यू 72200 सी.एच. 1987 पी.टी.सी. 7689
779.	मैसर्स यू एस इंडस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	5669 यू 00000 सी.एच. 1983 पी.टी.सी. 5669
780.	मैसर्स पंजाब एग्रो विडीडिज लिमिटेड	5668 यू 24299 सी.एच.डी. 1983 पी.एल.सी. 5668
781.	मैसर्स चौधरी राम कृष्ण फाइनांस एंड इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड	5529 यू 65921 पी.बी. 1983 पी.टी.सी. 5529
782.	मैसर्स हिन्दुस्तान पल्पराइजिंग मिल्स प्राईवेट मिल्स	5219 यू 24299 सी.एच.डी. 1982 पी.टी.सी. 5219
783.	मैसर्स एमएल बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	5046 यू 45202 सी.एच.डी. 1982 पी.टी.सी. 5046
784.	मैसर्स चानन पेपर प्राईवेट लिमिटेड	4502 यू 21012 सी.एच. 1981 पी.टी.सी. 4502
785.	मैसर्स शक्तिमान फाइबर प्राईवेट लिमिटेड	14074 यू 17115 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 14074

1	2	3
786.	मैसर्स एंजल फार्मास्यू- टिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	4387 यू 24232 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4387
787.	मैसर्स कोनल कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	9214 यू 74140 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9214
788.	मैसर्स राज एंड कंपनी कांटेक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड	4051 यू 74210 पी.बी. 1979 पी.टी.सी. 4051
789.	मैसर्स विश्वदीप प्राईवेट लिमिटेड	4224 यू 27106 पी.बी. 1980 पी.टी.सी. 4224
790.	मैसर्स चीप फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	3660 यू 65993 पी.बी. 1976 पी.टी.सी. 3660
791.	मैसर्स चौधरी हायर पर्चेज प्राईवेट लिमिटेड	3967 यू 65921 पी.बी. 1979 पी.टी.सी. 3967
792.	मैसर्स मैन्स एपालर्स प्राईवेट लिमिटेड	23043 यू 17299 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23043
793.	मैसर्स बंगा फाइनेंसर्ज प्राईवेट लिमिटेड	6293 यू 65921 पी.बी. 1985 पी.टी.सी. 6293
794.	मैसर्स फार्म इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड	8198 यू 34102 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8198
795.	मैसर्स हमसाय फार्मास्यू- टिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	7990 यू 24293 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 7990
796.	मैसर्स नालागढ़ फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	7481 यू 61921 एच.पी. 1987 पी.टी.सी. 7481
797.	मैसर्स श्री कृष्णा कैमिकल्स एंड आयरन प्राईवेट लिमिटेड	23418 यू 24110 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 23418
798.	मैसर्स लाकरा साइकल प्राईवेट लिमिटेड	7458 यू 34921 पी.बी. 1987 पी.टी.सी. 7458
799.	मैसर्स एम्स आटोमोशंस प्राईवेट लिमिटेड	17661 यू 72100 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17661

1	2	3	1	2	3
800.	मैसर्स कामधेनु हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	15290 यू 65921 एच.पी. 1994 पी.टी.सी. 15290	814.	मैसर्स एग्रीपेस्ट मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	21166 यू 74140 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21166
801.	मैसर्स एक्स्ट्रेट प्रोजेक्ट्स एंड कैपिटल सर्विस लिमिटेड	15492 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.एल.सी. 15492	815.	मैसर्स प्रेस्टीज बोलिंग एंड बिलियर्ड्स प्राईवेट लिमिटेड	21599 यू 36934 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21599
802.	मैसर्स विक्रांत ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	23170 यू 51109 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23170	816.	मैसर्स केसरी फिनवेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	21228 यू 65921 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21228
803.	मैसर्स किंग इन्फोटेक साफ्टवेयर सल्यूशंस लिमिटेड	23034 यू 64202 पी.बी. 1999 पी.एल.सी. 23034	817.	मैसर्स फेनटेस्टिक फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	21190 यू 15310 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21190
804.	मैसर्स साहिब क्रेडिट्स प्राईवेट लिमिटेड	11671 यू 65921 सी.एच.डी. 1991 पी.टी.सी. 11671	818.	मैसर्स जीआर इमीग्रेशन सर्विस प्राईवेट लिमिटेड	21842 यू 72900 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21842
805.	मैसर्स पेरल सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	9370 यू 51909 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9370	819.	मैसर्स जीएलआर इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड	21944 यू 51909 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21944
806.	मैसर्स फेंसी लासिस प्राईवेट लिमिटेड	13477 यू 17297 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13477	820.	मैसर्स वीनस हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स लिमिटेड	16711 यू 85199 सी.एच. 1995 पी.एल.सी. 16711
807.	मैसर्स हमसाय फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	9316 यू 65921 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9316	821.	मैसर्स बी.बी. हैचरीज प्राईवेट लिमिटेड	18192 यू 01222 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 18192
808.	मैसर्स योगराज होटल्स एंड रिसोर्ट्स लिमिटेड	15212 यू 55101 एच.पी. 1994 पी.एल.सी. 15212	822.	मैसर्स टापटेक कंस्ट्रक्शंस प्राईवेट लिमिटेड	19600 यू 45202 सी.एच.डी. 1997 पी.टी.सी. 19600
809.	मैसर्स जैनसंस साप्स एंड डिस्ट्रिब्यूट प्राईवेट लिमिटेड	15448 यू 24241 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 15448	823.	मैसर्स गुजरांवाला एग्रो सीड्स प्राईवेट लिमिटेड	16562 यू 01119 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16562
810.	मैसर्स होशियारपुर एग्रीकल्चर एंड एलाइस इ. प्राईवेट लिमिटेड	3087 यू 29211 पी.बी. 1971 पी.टी.सी. 3087	824.	मैसर्स वर्धमान गारमेंट्स (इंडिया) लिमिटेड	18346 यू 52322 पी.बी. 1996 पी.एल.सी. 18346
811.	मैसर्स विलियम्स टेक्सटाइल्स लिमिटेड	16334 यू 17115 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 16334	825.	मैसर्स जलंधर पेलेस एंड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	22268 यू 55101 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22268
812.	मैसर्स राऊ बायोटेक प्रोडक्ट्स लिमिटेड	17441 यू 124232 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 17441	826.	मैसर्स मालवा सिविल प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	18187 यू 15203 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18187
813.	मैसर्स एसएमएस कम्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	20790 यू 72200 सी.एच.डी. 1997 पी.टी.सी. 20790	827.	मैसर्स कनोमो फाइनांस लिमिटेड	17291 यू 67120 पी.बी. 1995 पी.एल.सी. 17291

1	2	3	1	2	3
828.	मैसर्स सत्कार इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	22629 यू 28999 सी.एच. 1999 पी.टी.सी. 22629	842.	मैसर्स एवरेस्ट स्पिनिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	8380 यू 17116 एच.पी. 1988 पी.टी.सी. 8380
829.	मैसर्स उत्तम एयरकॉन प्राईवेट लिमिटेड	21137 यू 29309 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21137	843.	मैसर्स परफेक्ट रियल इस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड	9066 यू 70101 सी.एच. 1989 पी.टी.सी. 9066
830.	मैसर्स सरस्वती लीजिंग लिमिटेड	18271 यू 65921 सी.एच. 1996 पी.एल.सी. 18271	844.	मैसर्स शालीमार फूड्स प्राईवेट लिमिटेड	8268 यू 15499 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8268
831.	मैसर्स सैराम इम्यूक्स प्राईवेट लिमिटेड	20669 यू 51909 सी.एच. 1997 पी.टी.सी. 20669	845.	मैसर्स एपल कम्प्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड	8477 यू 72200 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8477
832.	मैसर्स एसएलआर प्रापर्टीज एंड बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	17563 यू 45203 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17563	846.	मैसर्स सनबीम रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	14077 यू 55101 एच.पी. 1994 पी.टी.सी. 14077
833.	मैसर्स क्रिकन एजेंसीज प्राईवेट लिमिटेड	17318 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17318	847.	मैसर्स पंजाब निटवेयर लिमिटेड	13468 यू 18101 पी.बी. 1993 पी.एल.सी. 13468
834.	मैसर्स एल्फा फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	17910 यू 65910 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17910	848.	मैसर्स ओकासा पेट्रोलियम प्राईवेट लिमिटेड	13821 यू 24111 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13821
835.	मैसर्स नीति ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड	9597 यू 51225 पी.बी. 1989 पी.टी.सी. 9597	849.	मैसर्स एजे सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	9863 यू 51909 सी.एच.डी. 1989 पी.टी.सी. 9863
836.	मैसर्स आशिना डिपोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड	11004 यू 65921 सी.एच.डी. 1991 पी.टी.सी. 11004	850.	मैसर्स क्यूरियो आरगेनिंग प्राईवेट लिमिटेड	15012 यू 2423 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 15012
837.	मैसर्स सुखबानी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	10620 यू 51909 सी.एच. 1990 पी.टी.सी. 10620	851.	मैसर्स कूल होम फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	15302 यू 65921 सी.एच. 1994 पी.टी.सी. 15302
838.	मैसर्स पिनजी एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	11222 यू 51398 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11222	852.	मैसर्स टोटल सोल्यूशन कम्प्यूटैक लिमिटेड	15096 यू 72200 सी.एच.डी. 1994 पी.एल.सी. 15096
839.	मैसर्स ईमीनेंट डिस्टीलर्स एंड बोटलर्स प्राईवेट लिमिटेड	14655 यू 15331 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14655	853.	मैसर्स साहिब बोटलिंग एवं पेट्रोलियम गैसिक्स प्राईवेट लिमिटेड	13592 यू 23303 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 13592
840.	मैसर्स एसआरए बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	16608 यू 45202 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16608	854.	मैसर्स के.एल. राज कुमार जैन हौजरी प्राईवेट लिमिटेड	11850 यू 17111 पी.बी. 1991 पी.टी.सी. 11850
841.	मैसर्स कमल होलीडेज रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	10498 यू 55201 पी.बी. 1990 पी.टी.सी. 10498	855.	मैसर्स अल्ट्रा विजन डायग्नोस्टिक प्राईवेट लिमिटेड	15555 यू 85195 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 15555

1	2	3	1	2	3
856.	मैसर्स जे.एस. एडवाइजर एंड कंसल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	14694 यू 67120 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14694	870.	मैसर्स आर. फिनटेस्ट प्राईवेट लिमिटेड	16373 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16373
857.	मैसर्स रिवैप सोफटेक प्राईवेट लिमिटेड	24690 यू 72200 एच.पी. 2001 पी.टी.सी. 24690	871.	मैसर्स एबी फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड	16371 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16371
858.	मैसर्स काहन केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	12322 यू 24119 सी.एच. 1992 पी.टी.सी. 12322	872.	मैसर्स मां हरतेश्वरी प्राईवेट लिमिटेड	24265 यू 45201 एच.पी. 2001 पी.टी.सी. 24265
859.	मैसर्स बैरन ब्रवरीज प्राईवेट लिमिटेड	14835 यू 15520 पी.बी. 1994 पी.टी.सी. 14835	873.	मैसर्स आवाज इंटर प्राईवेट लिमिटेड	24407 यू 92112 सी.एच. 2001 पी.टी.सी. 24407
860.	मैसर्स अतुल रोलर फ्लोर मिल्स प्राईवेट लिमिटेड	12900 यू 153111 पी.बी. 1993 पी.टी.सी. 12900	874.	मैसर्स जीजे पोर्टोस प्राईवेट लिमिटेड	23055 यू 23209 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23055
861.	मैसर्स टेनेट कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	19876 यू 74140 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19876	875.	मैसर्स फ्रेंड्स हाइटेक रिफा. प्राईवेट लिमिटेड	18640 यू 23209 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18640
862.	मैसर्स क्वालिटी सोर्सिंग एंड सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड	21169 यू 74140 सी.एच. 1998 पी.टी.सी. 21169	876.	मैसर्स छाबड़ा स्ट्रिप्स लिमिटेड	18864 यू 27105 सी.एच. 1996 पी.एल.सी. 18864
863.	मैसर्स जीके विल्ट कोन प्राईवेट लिमिटेड	22170 यू 45201 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22170	877.	मैसर्स ब्रह्म फिनवैस्ट प्राईवेट लिमिटेड	18216 यू 65921 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 18216
864.	मैसर्स तेज पाल एंड संस फाइनांस प्राईवेट लिमिटेड	17988 यू 61921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 17988	878.	मैसर्स गुरकिरपा हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	18337 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18337
865.	मैसर्स वीएन फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड	16372 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16372	879.	मैसर्स कश्मीर हर्बज एंड रैमेडिज लिमिटेड	17343 यू 24333 सी.एच. 1995 पी.टी.सी. 17343
866.	मैसर्स न्यू दशमेश प्रिंटर प्राईवेट लिमिटेड	23187 यू 74300 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 23187	880.	मैसर्स ए.एस. कैपिटल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	16374 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16374
867.	मैसर्स सुभाष कैमिस्ट प्राईवेट लिमिटेड	17693 यू 92312 सी.एच. 1996 पी.टी.सी. 17693	881.	मैसर्स प्रीमियम अपार्टमेंट्स लिमिटेड	17884 यू 45201 पी.बी. 1996 पी.एल.सी. 17884
868.	मैसर्स विजेता टेक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड	22176 यू 17116 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 22176	882.	मैसर्स आर.एस. होलीडे रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	16883 यू 55101 एच.पी. 1995 पी.टी.सी. 16883
869.	मैसर्स एचबी डाइकोवर्स प्राईवेट लिमिटेड	8480 यू 17120 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 8480	883.	मैसर्स डलहौजी ट्रेड लिंक प्राईवेट लिमिटेड	17001 यू 1909 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 17001

1	2	3
884.	मैसर्स रूद्रा फिनकैप प्राईवेट लिमिटेड	18910 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18910
885.	मैसर्स संजोत टैक्सटाईल्स प्राईवेट लिमिटेड	24025 यू 17115 पी.बी. 2000 पी.टी.सी. 24025
886.	मैसर्स आशीर्वाद डाईगनोस्टिक एंड क्योर सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	16429 यू 85195 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16429
887.	मैसर्स सुपर जियोन शॉपिंग नेटवर्क प्राईवेट लिमिटेड	25490 यू 52599 पी.बी. 2002 पी.टी.सी. 25490
888.	मैसर्स शोरे-ए-पंजाब हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	16188 यू 65921 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16188
889.	मैसर्स आर.के. फिनमैन प्राईवेट लिमिटेड	18340 यू 67120 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18340
890.	मैसर्स जी.जे. पॉलीपैक प्राईवेट लिमिटेड	22174 यू 55209 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22174
891.	मैसर्स पैरागान टूलज प्राईवेट लिमिटेड	16028 यू 28931 पी.बी. 1995 पी.टी.सी. 16028
892.	मैसर्स एटलस हायर परचेज प्राईवेट लिमिटेड	18908 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18908
893.	मैसर्स एपीएन प्रोफेशनल सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड	19564 यू 74140 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19564
894.	मैसर्स बाजवा स्टील ग्रिप प्राईवेट लिमिटेड	19599 यू 27109 पी.बी. 1997 पी.टी.सी. 19599
895.	मैसर्स अमनदीप फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	18217 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18217
896.	मैसर्स शोरे-ए-पंजाब लिजिंग एंड इन्वेस्टमेंट कं.	18305 यू 65921 पी.बी. 1996 पी.टी.सी. 18305
897.	मैसर्स सिद्ध होस्टल्स प्राईवेट लिमिटेड	22208 यू 80302 पी.बी. 1999 पी.टी.सी. 22208

1	2	3
898.	मैसर्स मोपिका इलैक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड	21625 यू 32301 पी.बी. 1998 पी.टी.सी. 21625
899.	मैसर्स विश्वकिरण एंटरप्राइजिज प्राईवेट लिमिटेड	5300 यू 20299 पी.बी. 1983 पी.टी.सी. 5300
900.	मैसर्स विश्वकिरण सेविंग एंड फाइनेंस प्राईवेट लिमिटेड	4594 यू 65921 पी.बी. 1981 पी.टी.सी. 4594
901.	मैसर्स नरिन्द्रा वाटर मैनेजमेंट प्राईवेट लिमिटेड	9123 यू 70101 पी.बी. 1988 पी.टी.सी. 9123

एम. आर. दास

सहायक रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स साहू इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कोलकाता-700020, दिनांक 14 सितम्बर 2005

सं. टी.एस./प्रा./560/81367/617--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 90(नब्बे) दिनों की समाप्ति तक किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार की आपत्ति न होने पर मैसर्स साहू इन्टरप्राइजेज प्रा. लि. (कम्पनी सं. 81367) का नाम रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

टी.पी. शर्मा
कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिमी बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

हैदराबाद-500195, दिनांक 15 सितम्बर 2005

सं. आर.ओ.सी./ए.पी./एस.ई.एस.-2005/560(3)/2005--सूचना दी जाती है कि कम्पनी कार्य मंत्रालय के एस ई एस-2005 (आसान कलम स्कीमें-2005 दिनांक 28 जनवरी 2005 के अनुसरण) इस कार्यालय में आवेदन किया है। सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन माह के अवसान पर निम्नलिखित कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर के काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी।

क्रम सं.	कम्पनी नं.	कम्पनी का नाम	निगमन की तिथि
1	2	3	4
01.	01-3274	सत्या ज्वाला इंजीनियरिंग प्रा. लि.	21.11.1981
02.	01-10469	पामुलापाटि सदन इंजीनियरिंग सर्विसेस एण्ड कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.	19.09.1999

1	2	3	4
03.	01-30976	कैपनवी प्रोसेसड फ्रूट्स प्रा. लि.	25.01.1999
04.	01-43380	बनिशा सैबरटेक प्रा. लि.	02.06.2004
05.	01-43595	ब्रूटेन म्यूजिक प्रा. लि.	07.07.2004
06.	01-38672	वेजोमई एस्टेट्स एण्ड डेवलपर्स प्रा. लि.	19.03.2002
07.	01-41830	सैवी सोल्यूशन्स प्रा. लि.	09.10.2003
08.	01-41644	विनरोक एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	05.09.2003
09.	01-38495	आई एल जी कार्पोरेट सर्विसेस प्रा. लि.	12.02.2002
10.	01-31294	गोएका पाल्म आगो-टेक लि.	09.03.1999
11.	01-38460	कोनाग बायो-न्यूट्रो-टेक प्रा. लि.	07.02.2002
12.	01-32789	इकोवेटिव इंटरनेट टेक्नोलोजी प्रा. लि.	03.11.1999
13.	01-33879	आई टेक इन्वेस्टमेंट्स प्रा. लि.	15.03.2000
14.	01-31966	समैक्या ट्रेडिंग्स प्रा. लि.	23.06.1999
15.	01-14583	इयूक्सिन डेवलपर्स प्रा. लि.	28.07.1992
16.	01-31059	नन्दूरि सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रा. लि.	08.02.1999
17.	01-36427	मिलिनियम प्लेसमेंट्स एण्ड एड्यूकेशनल सर्विसेस प्रा. लि.	19.03.2001
18.	01-32871	श्री श्रीदेवी पॉवर प्रा. लि.	18.11.1999
19.	01-34606	ई-डॉक्टर्स नेट प्रा. लि.	07.06.2000
20.	01-31765	जे किसान ही-फिन लि.	24.05.1999
21.	01-41837	एस एम पी मिल्क प्रोडक्ट्स प्रा. लि.	10.10.2003
22.	01-2805	हैदराबाद फौजिंग्स प्रा. लि.	15.11.1980
23.	01-11982	शान्ति रेमिडीस प्रा. लि.	16.11.1990
24.	01-11059	फार्मेशिया हेल्थ केयर प्रा. लि.	27.02.1990
25.	01-27155	चलुवाडि फैनान्स एण्ड लीजिंग प्रा. लि.	21.05.1997
26.	01-11696	अर्चना प्लास्टिक्स प्रा. लि.	06.09.1990
27.	01-30837	यूनी स्टोरेज सिस्टम्स प्रा. लि.	04.06.2001
28.	01-32110	कांता होम्स प्रा. लि.	16.07.1999
29.	01-37738	श्री शिवाशंकर आटोमोबैलस प्रा. लि.	03.09.2001
30.	01-41616	श्री टेल टेक्नोलोजीस इण्डिया प्रा. लि.	01.09.2003
31.	01-3904	इन्दुसा सिस्टम्स प्रा. लि.	13.04.1983
32.	01-39030	सुरेश अडवर्टाइसर्स प्रा. लि.	22.05.2002

उक्त दर्शाए कम्पनियों को प्रस्ताव के अनुसार हटाने के बारे में किसी व्यक्ति विशेष से कोई आपत्ति हो तो व इस तारीख से 30 दिनों के भीतर अपनी शिकायत लिखित रूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ अधोहस्ताक्षरी के पास प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रस्ताव के अनुसार बिना किसी सूचना के कम्पनियों के नामों को हटाया जाएगा।

पी. अच्युता रामरूपा
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
औंध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में।

चैनै दिनांक 16 सितम्बर 2005

सं. 1181 से 55703 तक/560(3)/एसईएस/2005--कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा(3) के अनुसरण के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर नीचे दिये गये

कम्पनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो, रजिस्टर से काट दिया जाएगा, और उक्त कम्पनियां विघटित की जाएंगी।

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	1181	सूरज स्ट्रक्चरल्स प्रा. लि.
2.	7486	केम टेक कंसल्टेंट्स प्रा. लि.
3.	8448	तिर्पती मेटच एण्ड टोको इण्डसट्रीस प्रा. लि.
4.	18512	ए.बी.ओ. अरुण काटन मिल्स प्रा. लि.
5.	19408	आटो पार्ट्स एण्ड एस्सेसरीज प्रा. लि.
6.	24274	ए.आर.एफ. नेक्सकी इंजीनियरिंग प्रा. लि.
7.	27127	इमेजिनेशन मैनेजमेंट एण्ड एपलिकेशंस टेक्नालाजी (इंडिया) प्रा. लि.
8.	27686	टोपाज़ सेक्यूरिटीस प्रा. लि.
9.	28694	लाशलान इंटरनेशनल्स प्रा. लि.
10.	29025	सुमंगली पब्लिकेशन्स प्रा. लि.
11.	29542	पार्कस्टोन होल्डिंग्स प्रा. लि.
12.	32282	पोरकोडी चिट्स प्रा. लि.
13.	33122	जेनिथ फार्मस प्रा. लि.
14.	35472	कल्याण पेट्रो प्राडक्ट्स प्रा. लि.
15.	37152	पानी रिसार्ट्स एण्ड होटल्स प्रा. लि.
16.	39367	रूबी साफ्टवेयर प्रा. लि.
17.	41822	सार कंस्ट्रक्शन्स प्रा. लि.
18.	42975	फोरसा सिक्कुरिटी एण्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रा. लि.
19.	43131	विजुअल इमेजेस प्रा. लि.
20.	44261	ईक्नोल्स साफ्ट सोल्यूशन्स प्रा. लि.
21.	45185	चूडामणी साफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.
22.	46578	वेनपट इम्पेक्स प्रा. लि.
23.	47431	ई-टाईम ओ.टी. सर्विसिस (इंडिया) प्रा. लि.
24.	47976	ध्रुव एजेंसिस प्रा. लि.
25.	48442	ए.ओ.मारे हाई-टेक इंडिया प्रा. लि.
26.	48589	ए.एन.पी. मणी चेंजर प्रा. लि.
27.	50423	बुडलैण्ड्स मोटल प्रा. लि.
28.	50880	पेराट सिस्टम्स प्रा. लि.
29.	51371	रोनासिस टेक्नालोजिस प्रा. लि.
30.	52634	प्रोनया सिस्टम्स प्रा. लि.
31.	53654	सिन्टेल्ली साफ्टवेयर सर्विसिस प्रा. लि.
32.	55703	सन्मार एपीओ लि.

एस. मीनाक्षी
सहायक कंपनी पंजीयक
तमिलनाडू

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 8th September 2005

No. A-60011/8/2005-Admn. I.—In terms of Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Central Public Information Officers in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Telephone No.	Subject matter
1.	S/Shri M. P. Singh	Joint Secretary (Examination)	23381164	All matters pertaining to various Examinations conducted by Commission and all matters pertaining to Confidential Branch of the Commission.
2.	Ved Prakash	Joint Secretary (Recruitment)	23385090	All matters pertaining to direct recruitment by interview/recruitment test.
3.	Vasumitra	Joint Secretary (Examination Reforms)	23386793	All matters pertaining to Examination Reforms.
4.	A. K. Dash	Joint Secretary (Administration/ Vigilance)	23385883	All administrative and establishment matters in r/o officers and staff of the Commission.
5.	P. C. Barnwal	Joint Secretary (Appointments)	23385374	All matters pertaining to appointments by promotion and appointments by deputation/absorption.
6.	R. L. Sidhu	Joint Secretary (Recruitment Rules)	23385176	All matters pertaining to framing and amendment of Recruitment rules of Group 'A' and 'B' posts.
7.	K. M. Shahid	Joint Secretary (Services-IA)	23070813	All matters pertaining to disciplinary cases (referred to the Commission) involving imposition of major penalty.
8.	Pradeep Kumar	Joint Secretary (Services-IB)	23386585	All matters pertaining to disciplinary cases (referred to the Commission) involving imposition of minor penalty and pension cuts of Group 'C' and 'D' posts.
9.	Pravin Srivastava	Joint Secretary (All India Services)	23073413	All matters pertaining to induction to the All India Services.
10.	Jatinder Kumar	Deputy Secretary (General)	23070261	All matters pertaining to General Branch of the Commission.
11.	Krishan Lal	Deputy Secretary (Services-II)	23381440	All policy matters pertaining to service rules/regulations and amendments thereto, UPSC (exemption from consultation). Regulations, and references received for advice/recommendations of the UPSC, Annual Report of UPSC, references received from various State PSCs including Conference of State PSCs.

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

No. A-60011/8/2005-Admn. I.—In terms of Section 19 and as provided under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005, the following officers of the Union Public Service Commission are hereby designated as Appellate Authorities in respect of the specific subject matters mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Telephone No.	Subject matter
1.	Shri D. K. Samantaray	Additional Secretary (AAGS)	23384688	<p>—All administrative and establishment matters in r/o officers and staff of the commission.</p> <p>—All House Keeping matters.</p> <p>—All proposals/Cases of various Ministries/ Departments received in the Appointments Branch of UPSC pertaining to appointment by promotion/by deputation/absorption in respect of Central Group 'A' & 'B' posts.</p> <p>—All matters pertaining to disciplinary cases referred to the Commission.</p> <p>—Proposals received from various Ministries/Departments for framing of RRs and amendments therein.</p> <p>—All matters pertaining to induction of State Services Officers to the AIS.</p> <p>—Annual Report of UPSC.</p> <p>—UPSC (exemption from consultation) Regulations, UPSC (Members).</p> <p>—Regulations, UPSC (Staff) Regulations and policy matters and references received for advice/recommendations of the Commission.</p>
2.	Shri Biresh Kumar	Additional Secretary (RER) & CE	23383723	<p>—All matters pertaining to various examinations conducted by the Commission, direct recruitment by interview/recruitment tests, examination reforms.</p> <p>—All matters relating to Confidential Branch of the Commission.</p> <p>—All matters relating to Information System Wing of the Commission.</p>

S. ANANDAN
Under Secy. (Admn.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(BUREAU OF POLICE RESEARCH &
DEVELOPMENT)

New Delhi-110 003, the 15th September 2005

No. 3/4/2005-Admn.—Consequent upon his retirement on superannuation from Government service Shri Nihal Singh, Assistant Director in the Bureau of Police Research

and Development, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi relinquished charge of the post of Assistant Director, Bureau of Police Research and Development, New Delhi on the afternoon of 31st July, 2005.

A. K. SOOD
Assistant Director (Admn.)

**DIRECTORATE GENERAL
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE**

New Delhi-110 003, the 22nd August 2005

No. O. II-3667/05-CRC (MOs).—The President is pleased to appoint Dr. Shekhar Kansara as Medical Officer in Central Reserve Police Force in temporary capacity from the forenoon of 19.07.2005 till further orders. He is posted to 24 BN CRPF.

J. N. SHARMA
Addl. DIG (Pers-I)

New Delhi-110 003, the 27th August 2005

No. P. VII-4/2005-Pers-3.—Consequent on their retirement from the Government service on attaining the age of superannuation, the following have relinquished the charge as Administrative/Section Officer in the Offices as mentioned against each :—

Sl. No.	Name of Officer	Office in which Posted	Date of handing over charge
1.	Shri Ishwar G. Manghani IRLA-4532	O/o The Addl. DIGP, GC-II, CRPF, Ajmer	31.07.2005 (AN)
2.	Shri Gyan Singh Rawat IRLA-4625	O/o The IGP, Central Sector, CRPF, Lucknow	31.07.2005 (AN)

JOGINDRA SINGH
Addl. DIGP (Pers-III)

The 29th August 2005

No. P. VII-4/2005-Pers-3.—Consequent on acceptance of his Voluntarily retirement w.e.f. 01.08.2005 (FN) from the post of Administrative/Section Officer, Shri Ramavtar Singh Tyagi, (IRLA-5770) had handed over the charge of Administrative/Section Officer in the Office of IGP NES, CRPF Shillong, Meghalaya from the same date.

JOGINDRA SINGH
Addl. DIGP (Pers-III)

The 6th September 2005

No. P. VII-4/2005-Pers-3.—Consequent on his promotion to the post of Administrative/Section Officer Shri K. Haridas, Subedar Major/Office Superintendent of 105 BN RAF/CRPF has taken over charge as Administrative/Section Officer in the O/o DIGP, RAF/CRPF, Navi Mumbai in the forenoon of 06th August, 2005.

JOGINDRA SINGH
Addl. DIGP (Pers-III)

**INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
CENTRAL REVENUES**

New Delhi-II0 002, the 14th September 2005

No. Admn. I/O.O. NO.-176.—Director General of Audit, Central Revenues, New Delhi hereby appoints the following Assistant Audit Officers of this office to officiate as Audit Officer in the scale of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the dates mentioned against their names until further orders.

	Names	Date
	S/Shri	
1.	Daya Sagar Rai	31.08.2005 (F/N)
2.	Prahlad Singh	31.08.2005 (F/N)

K. PRASAD
Director (Admn.)

**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT
GENERAL (CIVIL AUDIT)
ANDHRA PRADESH**

Hyderabad-500 004, the September 2005

Principal Accountant General (Civil Audit), Andhra Pradesh, Hyderabad is pleased to declare the retirement of the following Assistant Audit Officer (Civil) with effect from the date noted against his name :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of retirement
1.	Shri K. Viswasankara Rao	31.08.2005 (AN)

C. SAILAJA
Sr. DAG (Admn.)

**OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (CIVIL
AUDIT) ORISSA**

Bhubaneswar, the 9th September 2005

No. E. O. No. 14 [Memo No. Admn. (CA)17-2(AO)/Vol-V/1193].—In pursuance of OOC No. 510 dated 01.09.2005, communicated vide Memo No. Admn (CA) 17-2 (AO)/Vol-V/1123 dtd. 01.09.2005, the following officer on promotion has assumed charge as Audit Officer in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- with effect from the date as indicated against him.

Sl. No.	Name of the Officer taken over charge as Audit Officer	Date of taking over charge as Audit Officer
1.	Shri Jaladhar Sethi	01.09.2005 (FN)

T. ACHARYA
Sr. Audit Officer/Admn.

MINISTRY OF MINES
INDIAN BUREAU OF MINES

Nagpur, the 6th September 2005

No. A-19011/218/2005-Estt.A.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee Shri V. K. Jain, Sr. Chemist has been promoted to the post of Superintending Chemist in Indian Bureau of Mines at Nagpur w.e.f. 24.8.2005 (F/N).

S. K. BATAV
Senior Admn. Officer

Nagpur, the 6th September 2005

No. 19011/385/2005-Estt. APP.—Shri Ranjeet Singh, Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the After-noon of 31.8.2005 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admn. Officer

The 14th September 2005

No. 19011/130/2005-Estt. APP.—Shri S. R. Varadaraj, Assistant Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the After-noon of 31.8.2005 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admn. Officer

No. 19011/450/2005-Estt. APP.—Shri Vijay L. Meshram, Senior Assistant Controller of Mines, Indian Bureau of Mines, has relinquished charge on the After-noon of 31.8.2005 on attaining the age of superannuation.

A. N. NANDANWAR
Asstt. Admn. Officer

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
(DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL
PUBLICITY)

New Delhi-110 001, the 12th September 2005

No. 21/4/2001-Admn. II.—The Director, Directorate of Advertising & Visual Publicity is pleased to appoint the following Accountants as Assistant Accounts Officer in this Directorate on regular basis in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of the official	Date of regular appointment as Assistant Accounts Officer
---------	----------------------	---

	S/Shri	
1.	O. N. Aggarwal	21.04.2004 (FN)
2.	Raj Pal Singh	21.05.2004 (FN)
3.	M. L. Goya	04.06.2004 (FN)
4.	J. S. Sahni	29.07.2005 (AN)

ASHOK KUMAR
Dy. Director (Admn.)

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400 085, the 30th August 2005

No. PD/4(1)/2003-R-III/1081.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri P. Gopalakrishnan, Stenographer Grade I as Private Secretary (Non-Secretariat) on regular basis with effect from the forenoon of 04.08.2005, in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- in this Research Centre until further orders.

K. C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

The 13th September 2005

No. PD/6(1)/2005-R-III/1149.—Controller, BARC appoints Kum. Sheela Siddharthan, Assistant, BARC to officiate as Asstt. Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/-, in this Research Centre itself w.e.f. the forenoon of 01st September, 2005 on regular basis until further orders.

K. C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

No. PD/13(7)/98-R-III/1150.—Controller, BARC appoints Shri Mahabir Singh, Asstt. Accounts Officer, IIW, DAE, Hyderabad to the post of Accounts Officer in this Research Centre at Mumbai, in the scale of pay of Rs. 7500-250-12000/- w.e.f. the forenoon of 29.08.2005, on regular basis, until further orders.

K. C. DIVAKARAN
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400 001, the 31st August 2005

No. 21/3(3)/2004-CCS/32.—The President is pleased to appoint Ms. Revathi, Senior Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000—13,500/-), Atomic Minerals Directorate for Exploration & Research, Hyderabad of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000-

15200/-) in Centre for Advanced Technology, Indore with effect from the forenoon of 04.08.2005 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

No. 21/3(3)/2004-CCS/33.—The President is pleased to appoint Smt. K. P. Saraswathy, Senior Accounts Officer (Scale of pay Rs. 8000—13,500/-), Bhabha Atomic Research Centre, Mumbai of this Department as Deputy Controller of Accounts (Scale of pay Rs. 10000-15200/-) in General Services Organisation, BARC, Tarapur with effect from the forenoon of 08.08.2005 until further orders.

SOBHA DEVI N.
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 13th September 2005

No. 18/1 (11)/2004-ER/2363.—The President is pleased to appoint Shri Diptendu Das as Scientific Officer/D in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200 in Atomic Energy Regulatory Board (AERB) with effect from the forenoon of August 16, 2005 until further orders.

K. PADMANABHAN
Under Secy.

Mumbai-400 001, the 13th September 2005

No. 6(2306)/2000-Adm/6765.—The President is pleased to extend the service of Dr. Anil Kakodkar, Secretary, Department of Atomic Energy and Chairman, Atomic Energy Commission, for a period of two years with effect from December 1, 2005.

R. C. JOSHI
Additional Secy.

HEAVY WATER BOARD

Mumbai-400 094, the 14th September 2005

No. HWB/R/5(2)-Tal/2005/969.—Chief Executive, Heavy Water Board, (Central Office) appoints Shri Ramesh Chandra Nanda, Senior Clerk of Heavy Water Plant (Talcher) to officiate as Assistant Personnel Officer in the scale of pay of Rs. 6500-200-10500/- with effect from June 22, 2004 (Forenoon) to June 21, 2005 (Afternoon).

N. J. SIMON
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 062, the 19th September 2005

No. NFC/PAR. II/8-2005/1679.—The President is pleased to appoint Dr. P. Balakrishna, Scientific Officer/Engineer

Grade 'G' of Nuclear Fuel Complex, Hyderabad as Scientific Officer/Engineer grade "H" (Scale of pay—Rs. 18400-500-22400) w.e.f. 01.08.2005 in the same Unit, in an officiating capacity, until further orders.

A. S. LAXMAN RAO
Administrative Officer

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500 016, the 13th September 2005

No. AMD-51(39)/2005-Pen./786.—On attaining the age of superannuation, the following Officers have relinquished the charge of their posts in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the dates mentioned against each.

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Shri R. S. Negi, Scientific Officer-E	31.08.2005	Superannuation
2.	Shri T. K. N. Nair, Security Officer	31.08.2005	Superannuation

Smt. AGNES BENSELY
Chief Administrative and Accounts Officer

INCOME-TAX APPELLATE TRIBUNAL

Mumbai-400 020, the 25th August 2005

No. F.301-Ad (AT)/2005.—Shri S. K. Parida, Steno Gr. II of Directorate of Field Publicity, New Delhi is appointed to officiate as Private Secretary in the Income-tax Appellate Tribunal, Cuttack Bench Cuttack in the pay scale of Rs. 6500-200-10500/- with effect from 10.08.2005 (F. N.) on deputation basis for a period of three years on the usual terms and conditions of deputation contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, (Deptt. of Personnel & Training) O. M. No. 2/29/91-Estt. (Pay-II) dated 05.01.1994 as amended from time to time.

VIMAL GANDHI
President

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS) OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. H. Overseas Private Limited

Kanpur-208001, the 15th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/25118/3014.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months

from the date hereof the name of M/s. M. H. Overseas Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Ganpati Forest Limited

Kanpur-208001, the 16th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/19922/3021.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Ganpati Forest Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Jupiter Electricals Industries Private Limited

Kanpur-208001, the 16th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/14867/3025.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Jupiter Electricals Industries Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vector Educationals Private Limited

Kanpur-208001, the 16th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/26700/3030.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vector Educationals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Sharma Dal & Oil Mills Private Limited

Kanpur-208001, the 16th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/14348/3034.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Sharma Dal & Oil Mills Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shivam Graphics Private Limited

Kanpur-208001, the 16th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/21432/3039.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shivam Graphics Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Life Electricals Private Limited

Kanpur-208001, the 16th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/11386/3043.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Life Electricals Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Vasudeo Memorial Nursing Home Private Limited

Kanpur-208001, the 19th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/11339/3050.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Vasudeo Memorial

Nursing Home Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shree Kamal Pharmaceuticals Company Private
Limited

Kanpur-208001, the 19th September 2005

No. 560(3)/SES-5605/11499/3054.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the name of M/s. Shree Kamal Pharmaceuticals Company Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said Company will be dissolved.

B. K. BANSAL
Registrar of Companies
Uttar Pradesh & Uttranchal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. S. J. Bulbs and Wires Private Limited

Jaipur, the 7th September 2005

No. ROC/JPR/560/15056/2263.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. S. J. Bulbs and Wires Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Leo Marbles Private Limited

Jaipur, the 9th September 2005

No. ROC/JPR/560/13824/2273.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Leo Marbles Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. M. Queens and Kings College Private Limited

Jaipur, the 9th September 2005

No. ROC/JPR/560/18223/2277.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. M. M. Queens and Kings College Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. M. M. Queens College Private Limited

Jaipur, the 9th September 2005

No. ROC/JPR/560/18391/2281.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. M. M. Queens College Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Pragaya Finlease Private Limited

Jaipur, the September 2005

No. ROC/JPR/560/13611/2286.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Pragaya Finlease Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Shakti Computech Private Limited

Jaipur, the September 2005

No. ROC/JPR/560/16961/2290.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Shakti Computech

Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
M/s. Gopal Marbles and Granites Private Limited

Jaipur, the 15th September 2005

No. ROC/JPR/560/9593/2323.—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that after expiry of three months from the date hereof the name of M/s. Gopal Marbles and Granites Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off from the Register and the said Company will be dissolved.

B. C. MEENA
Registrar of Companies
Rajasthan

In the matter of Companies Act, 1956 and Application under Simplified Exit Scheme-2003 under Section 560 and of the following Companies

Jalandhar City-144 003, the September 2005

No. ROC/560(5)/SES-2003/1 to 903 —Notice is hereby given pursuant to sub-section 5 of section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of the following 903 companies have been struck off from the Register of Companies and the companies stand dissolved from the date of publication of this notice :—

Sl. No.	Name of Company	Company No. and CIN
1	2	3
1.	M/s. Dalhousie Re-sorts Private Limited	20616 U55101HP1997PTC20616
2.	M/s. Brahma Flour Mills Private Limited	20108 U45311PB1997PTC20108
3.	M/s. Silverline Breweries Limited	13893 U15520PB1993PLC13893
4.	M/s. Tirath Motors Private Limited	17668 U35911PB1996PTC17668
5.	M/s. Savera Lamps Private Limited	10398 U31506PB1990PTC10398
6.	M/s. Pioneer Technology Systems Limited	22879 U74140CH1999PLC22879

1	2	3
7.	M/s. GSRK Estates Private Limited	12859 U70200PB1992PTC 12859
8.	M/s. Topline Polymers Private Limited	18677 U25209PB1996PTC18677
9.	M/s. MBM Milk and Food Products Private Limited	20343 U15201CH1997PTC20343
10.	M/s. Eshaan Super Enamel Wires Private Limited	18371 U27109PB1996PTC18371
11.	M/s. Ashoka Gases & Electricals Private Limited	4160 U24111PB1980PTC4160
12.	M/s. Devika Chemicals Private Limited	16017 U24231CH1995PTC16017
13.	M/s. Kairon Steels Private Limited	11254 U27109PB1991PTC11254
14.	M/s. Gobind Spinners Private Limited	13877 U17115PB1993PTC13877
15.	M/s. Kumar Enterprises Private Limited	6718 U70100CHD1986PTC6718
16.	M/s. Shiva Restaurants Private Limited	20313 U55101CH1997PTC20313
17.	M/s. Brahma Estates Private Limited	20310 U70101CH1997PTC20310
18.	M/s. Leader Finance & Chit Fund Private Limited	2554 U65921PB1964PTC2554
19.	M/s. ALPS Computers Private Limited	16212 U80302HPI995PTC16212
20.	M/s. Chhabra Agros Private Limited	16561 U01119PB1995PTC16561
21.	M/s. Satyadeep Plywood and Board Private Limited	17478 U20211PB1995PTC17478
22.	M/s. Aditi Cultivators Private Limited	11165 U51147PB1991PTC11165
23.	M/s. Gee Jay Marketing Private Limited	24200 U51102CH2001PTC24200
24.	M/s. Yodha Finance Private Limited	17131 U67120CH1995PTC17131
25.	M/s. Param Powers Private Limited	17128 U31101CH1995PTC17128
26.	M/s. Bichwa Export Private Limited	17129 U18101PB1995PTC17129
27.	M/s. Baaj Nain Security Printers Private Limited	17124 U22219CH1995PTC17124

1	2	3
28.	M/s. Lehar System Rice Exporters Private Limited	17130 U51211CH1995PTC17130
29.	M/s. Banc One Finance and Plantation Limited	17127 U65929CH1995PLC17127
30.	M/s. Sungh Bagera Textile Private Limited	17126 U17115CH1995PTC17126
31.	M/s. Himgiri Exim Private Limited	18225 U51909CH1996PTC18225
32.	M/s. PACL Alco-Vinyls Limited	11770 U92111CHD1991PLC11770
33.	M/s. H. R. Knit International Limited	20043 U17155PB1997PTC20043
34.	M/s. Jai Mata Roller Flour Mills Private Limited	12865 U15311PB1992PTC12865
35.	M/s. Liberty Colour Lab Private Limited	8486 U74940PB1988PTC8486
36.	M/s. Indian Tracks Private Limited	9911 U27106CH1989PTC9911
37.	M/s. Madox Medicaments Private Limited	5821 U24236CH1984PTC5821
38.	M/s. Nanda Palace Private Limited	22206 U55101PB1999PTC22206
39.	M/s. E Textile Point. Com Limited	23423 U30007PB2000PLC23423
40.	M/s. Oswal Spintex Limited	16854 U17219PB1995PLC16854
41.	M/s. Hi-Tech Farms Private Limited	13594 U01122PB1993PTC13594
42.	M/s. Aegir Impex Private Limited	15651 U50300PB1995PTC15651
43.	M/s. Ascent Impex and Marketing Private Limited	23770 U51909PB2000PTC23770
44.	M/s. Stilton Devices Limited	13018 U29219HP1993PTC13018
45.	M/s. Vantage Capital Services Limited	15809 U67120CH1995PLC15809
46.	M/s. Mehar Constructions Private Limited	21727 U74210CH1998PTC21727
47.	M/s. D F Constructions Private Limited	11820 U45201CHD1991PTC11820
48.	M/s. Vikas Electro Aircon Private Limited	17069 U17069PB1995PTC17069

1	2	3
49.	M/s. Gheru Lal Bal Chand Industries Limited	17976 U74999PB1996PLC17976
50.	M/s. Kingsway Auto Engineering Private Limited	16382 U34103CH1995PTC16382
51.	M/s. Ganapati Organics Limited	11773 U15142CH1991PLC11773
52.	M/s. A. B. Fashioners Private Limited	12325 U52321CH1992PTC12325
53.	M/s. Parav Textiles Private Limited	10416 U17115PB1990PTC10416
54.	M/s. Newell Builders Private Limited	9492 U45201CH1989PTC9492
55.	M/s. Golden Synthetics Private Limited	8578 U18101PB1988PTC8578
56.	M/s. Master Trading Company Private Limited	17105 U52395PB1995PTC17105
57.	M/s. G and M Travels Private Limited	10696 U63040CHD1990PTC10696
58.	M/s. Meridian Financial Services Private Limited	19390 U67120HP1997PTC19390
59.	M/s. Jai Durge Finance Private Limited	6826 U65921CHD1986PTC6826
60.	M/s. Kusum Bhalla Financial and Investment Consultants Private Limited	14577 U65999CH1994PTC14577
61.	M/s. Fairgood Garments Exports Private Limited	18055 U17111PB1996PTC18055
62.	M/s. Vindhya Trading Company Private Limited	5376 U51909PB1983PTC5376
63.	M/s. Tecnoimpex Electronics Private Limited	7665 U32109HP1987PTC7665
64.	M/s. Key Investments & Finance Private Limited	4125 U65921PB1980PTC4125
65.	M/s. Apple Country Hotels Private Limited	21260 U55101HP1998PTC21260
66.	M/s. Morni Investment & Finance Private Limited	4126 U65921PB1980PTC4126
67.	M/s. Rajpura Estate Development Limited	4762 U45201PB1981PLC4762
68.	M/s. Ujjal Rubbers Private Limited	10083 U25199PB1990PTC10083

1	2	3
69.	M/s. A B News Network Private Limited	17288 U92113CH1995PTC17288
70.	M/s. Suryaansh Chemicals Private Limited	22810 U24121PB1999PTC22810
71.	M/s. Derabassi Enterprises Private Limited	21724 U92120PB1998PTC21724
72.	M/s. Raikhy Financers and Traders Private Limited	15807 U65921PB1995PTC15807
73.	M/s. Shaktiman Woollen & Hosiery Mills Private Limited	4548 U18101PB1981PTC4548
74.	M/s. Knit Export Private Limited	3210 U52322PB1972PTC3210
75.	M/s. Sunder Nirman Hire Purchase Private Limited	3623 U65921PB1976PTC3623
76.	M/s. Vibgyor Pharmaceuticals Private Limited	11153 U24231PB1991PTC11153
77.	M/s. Halifax Organics Private Limited	20933 U24231PB1998PTC20933
78.	M/s. Brahm Shakti Cargo Carriers Private Limited	18097 U60221CH1996PTC18097
79.	M/s. Charu Auto Private Limited	4295 U27310PB1980PTC4295
80.	M/s. Ananta Carbonates Limited	20523 U26941HP1997PLC20523
81.	M/s. Sunglow Enterprises Private Limited	23394 U27109PB2000PTC23394
82.	M/s. Marshal Poultry Private Limited	13093 U15114CH1993PTC13093
83.	M/s. Eybl Exports Private Limited	14021 U17210PB1993PTC14021
84.	M/s. Precise Chemicals Private Limited	22809 U24121CH1999PTC22809
85.	M/s. Piara Lal Jain Foods Private Limited	22258 U15312PB1999PTC22258
86.	M/s. Patiala IVF and Infertility Research Centre Private Limited	24042 U85110PB2000PTC24042
87.	M/s. Appu Dairy and Allied Services Private Limited	15607 U15203PB1995PTC15607
88.	M/s. Baddi Steel Balls Private Limited	10304 U27106HP1990PTC10304

1	2	3
89.	M/s. Gopal Dass Hari Chand Yanrs Private	15235 U17115PB1994PTC15235
90.	M/s. Gauri Ganesh Builders and Promoters Private Limited	17523 U45201PB1996PTC17523
91.	M/s. Bajaj Agro Oils Limited	11965 U15142PB1992PTC11965
92.	M/s. Fatehsons Hosiery Exports Limited	15234 U18101PB1994PLC15234
93.	LSRS Securities Private Limited	17892 U67120PB1996PTC17892
94.	M/s. Ludhiana Bye-Pass Toll Road Limited	23174 U45203CH1999PLC23174
95.	M/s. Mega Netcom Marketing Limited	18683 U01121PB1996PLC18683
96.	M/s. Shiv Shakti Treads Private Limited	22984 U25199PB1999PTC22984
97.	M/s. Magnum Advances Private Limited	10581 U65921CH1990PTC10581
98.	M/s. Shivam Port Folio Private Limited	12640 U67110CH1992PTC12640
99.	M/s. Mahesh Port Folio Financial Services Private Limited	12601 U74140HP1992PTC12601
100.	M/s. Shyam Financial Services Limited	15402 U67120CH1994PLC15402
101.	M/s. Chandigarh Chit & Finance Private Limited	6167 U65992CHD1985PTC6167
102.	M/s. Toshika Finance Limited	16388 U65921CH1995PLC16388
103.	M/s. Agil High-Tech Steels Private Limited	16276 U27108PB1995PTC16276
104.	M/s. Bonanza Fincap Consultants Private Limited	17985 U65921PB1996PTC17985
105.	M/s. Upper India Cargo Carriers Private Limited	18013 U60210CH1996PTC18013
106.	M/s. B. Dass Exports Private Limited	22671 U51909PB1999PTC22671
107.	M/s. Rajen Financial Services Private Limited	18738 U65921PB1996PTC18738
108.	M/s. Punjab Marketing Private Limited	18401 U71150PB1996PTC18401

1	2	3
109.	M/s. Jasbindra Enterprises Private Limited	5922 U
110.	M/s. Naresh Aggarwal Deposits and Advances Private Limited	11185 U65921PB1991PTC11185
111.	M/s. Shaktimaan Exports Private Limited	13763 U51909PB1993PTC13763
112.	M/s. Sumangla Laminates Private Limited	6924 U20211PB1986PTC6924
113.	M/s. Deepak Marketing Private Limited	8740 U29212PB1988PTC8740
114.	M/s. Gupta Board and Papers Private Limited	6495 U21015PB1985PTC6495
115.	M/s. Krishna Finman Services Limited	3667 U65993PB1976PLC3667
116.	M/s. Milk Time Health Care Limited	20158 U85110CH1997PLC20158
117.	M/s. Raja Bottlers Private Limited	14698 U15331PB1994PTC14698
118.	M/s. Sarav Sanjhi Net Marketing Private Limited	25424 U52599PB2002PTC25424
119.	M/s. Jodhson and Paulson Financiers Private Limited	13456 U65921PB1993PTC13456
120.	M/s. Manani Leasing and Finance Private Limited	15015 U65921CH1994PTC15015
121.	M/s. Anmol Electricals Private Limited	10871 U31909PB1990PTC10871
122.	M/s. Genesis Network Private Limited	24410 U72200CH2001PTC24410
123.	M/s. Goldenchain Hotels and Industries Limited	15761 U55101PB1995PLC15761
124.	M/s. Sandhu Pipes Private Limited	6974 U26920PB1986PTC6974
125.	M/s. Stanley Tools Private Limited	8498 U29222PB1988PTC8498
126.	M/s. Choice Builders Private Limited	19460 U45202CHD1997PTC19460
127.	M/s. Milk Time De Confiteria Limited	20159 U15146CH1997PLC20159
128.	M/s. MSL Frozen Foods Limited	20156 U15203CH1997PLC20156

1	2	3
129.	M/s. Grapho Pack and Printers Private Limited	12044 U22110PB1992PTC12044
130.	M/s. Amulya Cables and Compounding Private Limited	17132 U31300CH1995PTC17132
131.	M/s. AGK Electricals Private Limited	21909 U32108PB1998PTC21909
132.	M/s. Milk Time Exports Limited	20157 U51225CH1997PLC20157
133.	M/s. VHS Surveyors and Assessors Private Limited	13799 U74992PB1993PTC13799
134.	M/s. Real Surveyors and Consultants Private Limited	20356 U74999PB1997PTC20356
135.	M/s. Tri-Shakti Chemicals Limited	6038 U24231PB1984PLC6038
136.	M/s. Rohit Woollens Private Limited	8401 U17117PB1988PTC8401
137.	M/s. Daulat Ramco Sales Private Limited	15655 U28932PB1995PTC15655
138.	M/s. Broad Info Word Private Limited	25553 U80302PB2002PTC25553
139.	M/s. Patiala Cargo and Finco Private Limited	19270 U60201PB1997PTC19270
140.	M/s. Altos India Network Private Limited	25554 U52599PB2002PTC25554
141.	M/s. Vardaini Investments Private Limited	14685 U65921PB1994PTC14685
142.	M/s. Nipul Financing Private Limited	12973 U65921PB1993PTC12973
143.	M/s. Nagpal Exports Private Limited	13739 U18101PB1993PTC13739
144.	M/s. Palvi Trading and Finance Private Limited	16237 U65921PB1995PTC16237
145.	M/s. Magic Homecare Private Limited	25607 U24248CH2002PTC25607
146.	M/s. R. K. Trehan Finance Private Limited	16288 U65921PB1995PTC16288
147.	M/s. Macro Information Systems Private Limited	11288 U22212PB1991PTC11288
148.	M/s. Yahoo Communications Private Limited	21922 U72100PB1998PTC21922
149.	M/s. Today Expositions Private Limited	14880 U92490PB1994PTC14880

1	2	3	1	2	3
150.	M/s. Haryana Pesticides Private Limited	7961 U24219CHD1988PTC7961	170.	M/s. Pargats Stick Work Private Limited	19510 U22211PB1997PTC19510
151.	M/s. Alcon Poly Products Limited	20138 U25209PB1997PLC20138	171.	M/s. Demeter Oils Private Limited	13101 U15141CH1993PTC13101
152.	M/s. Vishal Bharat Consumer Products Private Limited	8817 U18101PB1988PTC8817	172.	M/s. Pritam Singh and Company Private Limited	11052 U51396CH1991PTC11052
153.	M/s. South East Exim Private Limited	19931 U51109PB1997PTC19931	173.	M/s. Santosh Anand Consultants Private Limited	22240 U749999PB1999PTC22240
154.	M/s. Alcan Cables Private Limited	13430 U31300PB1993PTC13430	174.	M/s. JDS Electro-Tech Private Limited	12790 U52334CH1992PTC12790
155.	M/s. Kohli Properties Private Limited	9402 U70101CH1989PTC9402	175.	M/s. Divya Leasing Limited	12764 U65921CH1992PLC12764
156.	M/s. G. M. Sales Private Limited	12260 U51909CH1992PTC12260	176.	M/s. Alfa Securities Private Limited	22191 U67120PB1999PTC22191
157.	M/s. Reliable Ispat Profiles Private Limited	19566 U27109PB1997PTC19566	177.	M/s. MCS Feddrs Private Limited	13100 U32109CH1993PTC13100
158.	M/s. PMW Hosiery Machinery Private Limited	21977 U29291PB1998PTC21977	178.	M/s. Power Bolts Private Limited	18106 U28991PB1996PTC18106
159.	M/s. Bindal Financial Services Private Limited	13833 U74140CH1993PTC13833	179.	M/s. Yuvraj Knitwears Private Limited	20040 U17115 PB1997PTC20040
160.	M/s. Frontier Wheels Private Limited	16788 U35923PB1995PTC16788	180.	M/s. H. Gill Finance Private Limited	13424 U65921PB1993PTC13424
161.	M/s. Satyrop Chemicals Private Limited	20086 U24123PB1997PTC20086	181.	M/s. Maridian Estates Private Limited	16184 U45201PB1995PTC16184
162.	M/s. Seth Detergent Private Limited	12908 U24241PB1993PTC12908	182.	M/s. G E Exports Private Limited	22745 U18101PB1999PTC22745
163.	M/s. H. M. Real Estates Private Limited	22801 U70101CH1999PTC22801	183.	M/s. Shri Sachda Anand Rosin Factory Private Limited	12058 U24222PB1992PTC12058
164.	M/s. Jandhu Boards Private Limited	23237 U21012CH2000PTC23237	184.	M/s. Delmac Engineers Private Limited	17615 U74200PB1996PTC17615
165.	M/s. G. & G. Associates Private Limited	24792 U70101PB2001PTC24792	185.	M/s. Punj Acqua Minerals Private Limited	20369 U15543PB1997PTC20369
166.	M/s. S. G. Cold Storage Private Limited	18594 U63022PB1996PTC18594	186.	M/s. Mittal Advocates Private Limited	12079 U29219CHD1992PTC12079
167.	M/s. Nilibar Travels and Tours Private Limited	19682 U63040PB1997PTC19682	187.	M/s. Arisudana Investments Private Limited	13514 U65921PB1993PTC13514
168.	M/s. Chandigarh Industrial Consultancy Bureau Private Limited	4024 U74140CH1979PTC4024	188.	M/s. Shivalik Finvest Limited	16175 U65921HP1995PLC16175
169.	M/s. Bubber Machine Tools Private Limited	8528 U32109PB1988PTC8528	189.	M/s. Guarantee Impex Private Limited	17702 U51211PB1996PTC17702
			190.	M/s. New Shakti Roadlines Private Limited	17349 U60222CH1995PTC17349

1	2	3
191.	M/s. Green Fashions Private Limited	13323 U18101PB1993PTC13323
192.	M/s. Ahuja Nirman Private Limited	13618 U45201CH1993PTC13618
193.	M/s. Arisudana Holdings Private Limited	13515 U67120PB1993PTC13515
194.	M/s. Shyama Shyam Investors and Financial Consultants Private Limited	17054 U67120CH1995PTC17054
195.	M/s. Viva Information Processing Private Limited	7553 U74140PB1987PTC7553
196.	M/s. Medi Rehab Systems Private Limited	22942 U85110CH1999PTC22942
197.	M/s. Kundra Plastics Private Limited	11444 U25209PB1991PTC11444
198.	M/s. Sikri Finance and Investments Private Limited	14608 U65921PB1994PTC14608
199.	M/s. Kandi Farms Private Limited	13686 U01222PB1993PTC13686
200.	M/s. Shreyans Spinners Limited	9320 U0000PB1989PLC9320
201.	M/s. Fisher Finance & Investments Limited	7552 U65910PB1987PLC7552
202.	M/s. Gullu Investments Private Limited	10206 U65921PB1990PTC10206
203.	M/s. Navyug General Finance Co. Private Limited	5819 U65921PNB1984PTC5819
204.	M/s. Fancy Wollen Mills Private Limited	8590 U17115PB1988PTC8590
205.	M/s. Micky Builders Private Limited	11414 U45202PB1991PTC11414
206.	M/s. Suparash Fabrics Private Limited	7443 U18101PB1987PTC7443
207.	M/s. Orbit Realestates Private Limited	6645 U70109CHD1986PTC6645
208.	M/s. Vinson Finance and Investments Private Limited	5606 U65921CH1983PTC5606
209.	M/s. Preet Fastners Private Limited	6922 U70101PB1986PTC6922
210.	M/s. Esstee Hotels and Motels Private Limited	12604 U55101HP1992PTC12604

1	2	3
211.	M/s. Sru Palace Private Limited	20136 U92120PB1997PTC20136
212.	M/s. Unique Medical Foundation and Research Centre Private Limited	11380 U85110PB1991PTC11380
213.	M/s. Nasib Advances & Deposits Private Limited	8096 U65910PB1988PTC8096
214.	M/s. City Palace Hotels and Commercials Private Limited	10889 U55101CHD1990PTC10889
215.	M/s. Dalsan Financial Consultants Limited	19783 U65921CH1997PLC19783
216.	M/s. Pamys Science Works Limited	7971 U74210CHD1988PLC7971
217.	M/s. Chandigarh Ply Samrat Private Limited	8953 U20219CH1989PTC8953
218.	M/s. Vardhman Fibres Limited	16988 U17219PB1995PCL16988
219.	M/s. Nova Capital Services Limited	15861 U67120CH1995PLC15861
220.	M/s. Ropar Automobiles Private Limited	3810 U50500PB1978PTC3810
221.	M/s. Rita Finlease Limited	15566 U65921PB1995PLC15566
222.	M/s. Haig Hotels Private Limited	11312 U55101PB1991PTC11312
223.	M/s. Oswal Technologies Limited	16806 U17219PB1995PLC16806
224.	M/s. D. P. Finlease Private Limited	16197 U65921PB1995PTC16197
225.	M/s. Rajajainandan Pharmacy Private Limited	18043 U24239PB1996PTC18043
226.	M/s. Shivalik Agrarians and Orchards Limited	20292 U01122HP1997PLC20292
227.	M/s. Aujla Exports Private Limited	20663 U1109PB1997PTC20663
228.	M/s. Rajdhani Processors Private Limited	6189 U17219CHD1985PTC6189
229.	M/s. Thapar Housing Finance Limited	12317 U65921PB1992PLC12317
230.	M/s. Satnam Deposits and Advances Private Limited	8557 U65921PB1988PTC8557

1	2	3	1	2	3
231.	M/s. Unison Lawn Equipments Private Limited	17369 U29212PB1995PTC17369	250.	M/s. Mogan Cables Private Limited	12541 U31300CH1992PTC12541
232.	M/s. Jolly Fabrics Private Limited	20952 U17111PB1998PTC20952	251.	M/s. Singh Investment and Hire Purchase Private Limited	4681 U65921PB1981PTC4681
233.	M/s. Jalandhar Medical Diagnostic Centre Private Limited	10390 U85110PB1990PTC10390	252.	M/s. Muktsar Enviro-Tech Private Limited	14914 U23201PB1994PTC14914
234.	M/s. Netbrainz Infotech Software Solutions Private Limited	24082 U72200PB2000PTC24082	253.	M/s. Muktsar Paper Mills Private Limited	14915 U21011PB1994PTC14915
235.	M/s. Newlink Publishers & Advertisers Private Limited	24222 U22110PB2001PTC24222	254.	M/s. GG Sales Private Limited	22281 U51909PB1999PTC22281
236.	M/s. Sutlej Beverages Private Limited	7251 U15543PB1987PTC7251	255.	M/s. Complete Informatic Private Limited	18083 U72100PB1996PTC18083
237.	M/s. Surbhi Builders and Real Estates Private Limited	20522 U70101CH1997PTC20522	256.	M/s. Shashi Bhushan Alloys Private Limited	18099 U27106PB1996PTC18099
238.	M/s. Shobhit Agro-tech Private Limited	20759 U01409CH1997PTC20759	257.	M/s. Boom Infotech Private Limited	25086 U80302HP2002PTC25086
239.	M/s. Vinson Polytex Private Limited	5711 U24302CHD1984PTC5711	258.	M/s. Pizza Pizzeria Private Limited	21961 U55202PB1998PTC21961
240.	M/s. Metal Engraving Works Private Limited	8218 U27106PB1988PTC8218	259.	M/s. Vinaja Securities Private Limited	22680 U67120PB1999PTC22680
241.	M/s. HR Investments & Consultants Limited	6711 U64921CHD1986PLC6711	260.	M/s. Adela Finance and Leasing Limited	15864 U65910PB1995PLC15864
242.	M/s. Mayur Advances & Deposits Private Limited	10003 U65921CH1990PTC10093	261.	M/s. Shubham Collections Private Limited	21073 U18101PB1998PTC21073
243.	M/s. Gandharva Breweries Private Limited	17726 U15520PB1996PTC17726	262.	M/s. Vipin Fabrics Private Limited	17057 U17219PB1995PTC17057
244.	M/s. Chamunda Alloys Private Limited	21785 U27107CH1998PTC21785	263.	M/s. Mansa House Building Limited	15596 U45201CH1995PLC15596
245.	M/s. G. D. Financial Services Private Limited	14142 U67120PB1994PTC14142	264.	M/s. Simla Mandi Hire Purchase and Leasing Private Limited	10881 U65921CHD1990PTC10881
246.	M/s. Contee Shipping and Transport Private Limited	17987 U61100PB1996PTC17987	265.	M/s. PBB Investments Private Limited	16092 U67120CH1995PTC16092
247.	M/s. Central Capital Services Limited	17411 U165921PB1995PLC17411	266.	M/s. Royal Communications Private Limited	18990 U92311PB1996PTC18990
248.	M/s. Nagra Gears Private Limited	24090 U34300CH2000PTC24090	267.	M/s. Emm Ess Motors and Financiers Private Limited	12623 U65921CH1992PTC12623
249.	M/s. Jaico Synchem (India) Private Limited	7340 U25208PB1987PTC7340	268.	M/s. Nakra Marketing Private Limited	13118 U51909CH1993PTC13118
			269.	M/s. Econo Green (India) Private Limited	11629 U35303PB1991PCT11629
			270.	M/s. Riam Agencies Limited	17531 U51396PB1996PTC17531

1	2	3	1	2	3
271.	M/s. NKG Capital Services and Exports Private Limited	17762 U45201PB1996PTC17762	291.	M/s. Jagdish Kapoor Consultants and Engineers Private Limited	19436 U74210PB1997PTC19436
272.	M/s. Jay Cee Emm Financiers Private Limited	17493 U65921CH1995PTC17493	292.	M/s. Shivalik Frozen Products Private Limited	19043 U51221CH1996PTC19043
273.	M/s. Whet Stone Cement Private Limited	13378 U26942PB1993PTC13378	293.	M/s. Sunil Khanna Sagar Khanna Hotel Private Limited	11408 U55101HP1991PTC11408
274.	M/s. Space.Com Solutions Limited	23545 U72400CH2000PLC23545	294.	M/s. Dhiman Hydraulic Private Limited	19792 U29120PB1997PTC19792
275.	M/s. Sansal Agro Private Limited	24122 U01119HP2000PTC24122	295.	M/s. Hare Krishnam Woollen Mills Private Limited	5378 U17117PB1983PTC5378
276.	M/s. Y. P. Goyal Consultants Private Limited	19720 U74110PB1997PTC19720	296.	M/s. Jasjot Capital Services Private Limited	17807 U67120PB1996PTC17807
277.	M/s. Rama Krishna Alloys Private Limited	16217 U27310PB1995PTC16217	297.	M/s. Patran Cold Storage Private Limited	19698 U63023PB1997PTC19698
278.	M/s. Atam Tours and Travels Private Limited	19320 U63040PB1997PTC19320	298.	M/s. Darpan Publishers Private Limited	20188 U22110CH1997PTC20188
279.	M/s. Kohinoor Wood-crafts Limited	21150 U20221PB1998PLC21150	299.	M/s. Libra Micro Systems Private Limited	23972 U74999PB2000PTC23972
280.	M/s. Sandhu Sarai Finance Private Limited	12475 U06592CH1992PTC12475	300.	M/s. P. B. Plywoods Private Limited	20998 U21020PB1998PTC20998
281.	M/s. Seven Hill Algorithms Limited	22210 U32200HP1999PTC22210	301.	M/s. Quick Medical Transcription Private Limited	23546 U72400CH2000PTC23546
282.	M/s. SMRS Finance and Investments Private Limited	15030 U65921CH1994PTC15030	302.	M/s. Virka Knitweaves Private Limited	23314 U17299PB2000PTC23314
283.	M/s. S. P. Hosiery Private Limited	6113 U51311PB1985PTC6113	303.	M/s. Parshi Resorts Private Limited	20989 U55101HP1998PTC20989
284.	M/s. Gagan Weaving and Spinning Mills Private Limited	13783 U17111PB1993PTC13783	304.	M/s. Global Datcom Limited	23138 U64202CH1999PLC23138
285.	M/s. Harman Paints Private Limited	14023 U24221PB1993PTC14023	305.	M/s. Aeon Hitech Engineering Limited	18189 U35914PB1996PTC18189
286.	M/s. T. C. Steel & Sales Private Limited	2702 U27105PB1996PTC2702	306.	M/s. Arora Finlease Limited	16168 U67120PB1995PLC16168
287.	M/s. Bhai Leasing and Finance Private Limited	19346 U65921PB1997PTC19346	307.	M/s. Bajaj Bhansali Builders Limited	13502 U45201PB1993PLC13502
288.	M/s. Baijnath Asharfi-lal Private Limited	5294 U27109CHD1983PTC5294	308.	M/s. Bir Investment and Leasing Limited	15381 U65910CH1994PLC15381
289.	M/s. Singh Financiers Private Limited	6172 U65921PB1985PTC6172	309.	M/s. Ahmedgarh Investments Limited	12829 U67120PB1992PLC12829
290.	M/s. Seeb Steel Tubes Private Limited	20827 U27109PB1997PTC20827	310.	M/s. Mohali Overseas Private Limited	23054 U51109PB1999PTC23054

1	2	3	1	2	3
311.	M/s. Makkar Financial Services Private Limited	20195 U65921PB1997PTC20195	331.	M/s. Trishla Spinnings Private Limited	18240 U51109PB1996PTC18240
312.	M/s. Ozone Infratech Links Private Limited	20235 U74140CH1997PTC20235	332.	M/s. Ashutosh Buildcon Private Limited	21976 U45201PB1998PTC21976
313.	M/s. B. C. Architects and Builders Private Limited	22948 U45021PB1999PTC22948	333.	M/s. Wheels Leasing Private Limited	10294 U65910CH1990PTC10294
314.	M/s. ABM Hire Purchase Private Limited	19316 U65921PB1997PTC19316	334.	M/s. Faqir Engineers Private Limited	18605 U27310PB1996PTC18605
315.	M/s. Chanson Textiles Mills Private Limited	19832 U17221PB1997PTC19832	335.	M/s. Pure Drinks (Hyderabad) Private Limited	3894 U1514PB1978PTC33894
316.	M/s. Firani Plywood Private Limited	21098 U20219PB1998PTC21098	336.	M/s. Jayanti Electricals Private Limited	23328 U27109CH2000PTC23328
317.	M/s. Parker Precision Tools Private Limited	21639 U28939PB1998PTC21639	337.	M/s. Holy Heart Care and Research Center Private Limited	18938 U85110PB1996PTC18938
318.	M/s. Shri Vardhman Agrotech Limited	16384 U01122CH1995PLC16384	338.	M/s. Mittal Impex Private Limited	16825 U51909PB1995PTC16825
319.	M/s. P. S. Foods Private Limited	16525 U15203PB1995PTC16525	339.	M/s. Meena Deposits Private Limited	14451 U67120PB1994PTC14451
320.	M/s. Gautgir Agro Private Limited	24123 U01119HP2000PTC24123	340.	M/s. Rashmi Deposits Private Limited	14453 U67120PB1994PTC14453
321.	M/s. Shakti Maan Indo Foods Private Limited	21931 U15209CH1998PTC21931	341.	M/s. Patiala Ayurvedic Pharmacy Private Limited	11660 U24233PB1991PTC11660
322.	M/s. Arjan Ram Dhiman and Sons Machine Tools Private Limited	17172 U29212CH1995PTC17172	342.	M/s. Solvo Finance and Leasing Private Limited	10270 U65910CH1990PTC10270
323.	M/s. Sunlit Autos Parts Private Limited	17819 U27104PB1996PTC17819	343.	M/s. M. R. Pesticides Private Limited	8180 U51497PB1988PTC8180
324.	M/s. e-Parivartan Solutions Private Limited	23672 U72200CHD2000PTC23672	344.	M/s. Swarn Cycles Private Limited	8345 U35921PB1988PTC8345
325.	M/s. Express Capital Services Limited	14601 U67120CH1994PLC14601	345.	M/s. Sacred Finance Private Limited	10813 U65921CHD1990PTC10813
326.	M/s. Gurucharan Fastners Private Limited	18150 U27109PB1996PTC18150	346.	M/s. Vee Sports Private Limited	9572 U36931PB1989PTC9572
327.	M/s. Eastward Infotech Private Limited	23200 U74140PB1999PTC23200	347.	M/s. Jaina Distributors Private Limited	4988 U21012PB1982PTC4988
328.	M/s. PPI Oils and Lubricants Private Limited	19892 U32301PB1997PTC19892	348.	M/s. Vision Engineering Private Limited	8657 U27107CH1988PTC8657
329.	M/s. Gupta and Mittal Surveyors Private Limited	18517 U74920PB1996PTC18517	349.	M/s. R. Prakash Investments Private Limited	14158 U67120PB1994PTC14158
330.	M/s. Madhu Trading Co Private Limited	6386 U17118PB1985PTC6386	350.	M/s. Punjab Milkman Limited	14042 U15201CH1993PLC14042
			351.	M/s. Rita Foundries Private Limited	7890 U27310PB1988PTC7890

1	2	3
352.	M/s. Daswand Impex Private Limited	14031 U51909CH1993PTC14031
353.	M/s. Raja Distillers & Allied Industries Private Limited	5320 U15520PB1983PTC5320
354.	M/s. Angad Papers Mills Private Limited	7770 U21012CH1987PTC7770
355.	M/s. Falcon Architects Private Limited	15683 U45203PB1995PTC15683
356.	M/s. B. K. Cotwool Spinners Limited	15703 U17116PB1995PLC15703
357.	M/s. Microsphere Infotech Limited	24301 U72200CH2001PLC24301
358.	M/s. Thapar Telecom Limited	15705 U64201PB1995PLC15705
359.	M/s. Thapar Petroleum Limited	15706 U23209PB1995PLC15706
360.	M/s. Thapar Cotspin Limited	15707 U17115PB1995PLC15707
361.	M/s. Sepoy Finance and Investment Private Limited	15841 U65921CH1995PTC15841
362.	M/s. Vee Ess Finvest Private Limited	15451 U65921PB1994PTC15451
363.	M/s. Punjab Micro Tech Limited	13619 U32209CH1993PLC13619
364.	M/s. Thapar Enterprises Private Limited	20898 U51224CH1998PTC20898
365.	M/s. Karan Resorts Private Limited	19935 U55101PB1997PTC19935
366.	M/s. Varun Polymers Private Limited	13425 U17118PB1993PTC13425
367.	M/s. Parbhat Glue Private Limited	15247 U15331PB1994PTC15247
368.	M/s. Sunbeam Management Consultants Private Limited	11362 U74130PB1991PTC11362
369.	M/s. Presswell Micro Systems Private Limited	12631 U30009PB1992PTC12631
370.	M/s. Brothers Fashions Private Limited	13451 U18101PB1993PTC13451
371.	M/s. Dynatech Electronics Private Limited	12666 U32109PB1992PTC12666
372.	M/s. Modern Agro-tech Private Limited	12761 U15311PB1992PTC12761

1	2	3
373.	M/s. Rainbow Enterprises Private Limited	11359 U52324CH1991PTC11359
374.	M/s. G. S. Sports Private Limited	11148 U36939PB1991PTC11148
375.	M/s. Kisan Milk Processors Limited	12095 U15201CHD1992PLC12095
376.	M/s. G. R. Bricks Private Limited	12818 U26921PB1992PTC12818
377.	M/s. Akash Builders Private Limited	4630 U45201PB1981PTC4630
378.	M/s. Ajay Surgical Company Limited	15211 U33119CH1994PLC15211
379.	M/s. Ruby Financiers Private Limited	4569 U65921PB1981PTC4569
380.	M/s. Rajindra Steels Private Limited	15269 U27109PB1994PTC15269
381.	M/s. AKG Scrips and Finance Private Limited	15265 U67120PB1994PTC15265
382.	M/s. D. M. Hire Purchase Private Limited	11245 U65921PB1991PTC11245
383.	M/s. V. C. Estates Private Limited	19302 U70101CH1997PTC19302
384.	M/s. G T Inductions Engineers Private Limited	10332 U27310PB1990PTC10332
385.	M/s. Professional Sources Private Limited	23938 U51909PB2000PTC23938
386.	M/s. Bergen Commercials Private Limited	8309 U51109CH1988PTC8309
387.	M/s. Dhiman Engineering Works Private Limited	8193 U29261PB1988PTC8193
388.	M/s. N. C. Motors Private Limited	9825 U52603CH1989PC9825
389.	M/s. Suhem Traders Private Limited	14162 U25396HP1994PTC14162
390.	M/s. Shiningstar Investment and Leasing Limited	14543 U65910CH1994PLC 3
391.	M/s. AKG Capital Services Private Limited	14547 U67120PB1994PTC14 3
392.	M/s. U. G. HIM Resorts Private Limited	6803 U55101HP1986PTC6803

1	2	3
393.	M/s. Syal Resorts Private Limited	15541 U55101HP1995PTC15541
394.	M/s. Geeta Acrylics Limited	19535 17219PB1997PTC19535
395.	M/s. S. K. and Company (India) Private Limited	20115 U29309CHD1997PTC20115
396.	M/s. Gobindgarh Gases Private Limited	16368 U23203PB1995PTC16368
397.	M/s. Guru Kirpa Rice and General Mills Private Limited	15087 U15312PB1994PTC15087
398.	M/s. SPS Financial Services Private Limited	14751 U67120PB1994PCT14751
399.	M/s. Pilot Electro (India) Private Limited	14875 U29303PB1994PTC14875
400.	M/s. Sarkaghat Motors Finance Private Limited	17256 U65921HP1995PTC17256
401.	M/s. Mother India Exports Private Limited	18597 U17115PB1996PTC18597
402.	M/s. Lamba Telecoms Private Limited	15946 U64201CH1995PTC15946
403.	M/s. Sangrur Chemicals Limited	15829 U27204PB1995PLC15829
404.	M/s. A.H. Corporate Services Private Limited	15803 U67120PB1995PTC15803
405.	M/s. Bal Brothers Private Limited	312 U51909PB1939PTC312
406.	M/s. Shital Exports Private Limited	7011 U19129PB1986PTC7011
407.	M/s. Crocodile Financial Services Private Limited	16445 U65921PB1995PTC16445
408.	M/s. Dhiman Machine Tools Private Limited	8243 U29222PB1988PTC8243
409.	M/s. Ramraj Builders Private Limited	16139 U45201PB1995PTC16139
410.	M/s. Rave Marketing Private Limited	10213 U51909CH1990PTC10213
411.	M/s. Prince Finlease Private Limited	18802 U65921PB1996PTC18802
412.	M/s. Vardhman Rubbers Private Limited	10372 U01116CH1990PTC10372
413.	M/s. Bharat Cement Products Private Limited	4894 U26941CHD1982PTC4894

1	2	3
414.	M/s. AKG Management Services Private Limited	14548 U74140PB1994PTC14548
415.	M/s. Sara Trading and Investment Private Limited	14472 U67120CH1994PTC14472
416.	M/s. Atlantic Polyware Private Limited	14887 U26914PB1994PTC14887
417.	M/s. Khandelwal Alloy-min (India) Private Limited	12715 U51909HP1992PTC12715
418.	M/s. Titania Consultants Private Limited	14948 U74140CH1994PTC14948
419.	M/s. ARC Portfolio Leasing Private Limited	14115 U65910CH1994PTC14115
420.	M/s. Haryana Interiors Private Limited	9813 U36109CH1989PTC9813
421.	M/s. Nim Auto Engineers Private Limited	9992 U35921PB1990PTC9992
422.	M/s. N. R. Securities Limited	15991 U67120CH1995PLC15991
423.	M/s. Keerat Lease Finance Limited	15549 U65921CH1995PLC15549
424.	M/s. Waryan Singh & Sons (Machinery) Private Limited	10673 U29219PB1990PTC10673
425.	M/s. International Hydro Power Generation Limited	22101 U40101PB1998PLC22101
426.	M/s. Panafic Investments (A Private Co. with Unlimited Liability)	13257 U67120PB1993PLC13257
427.	M/s. Kanvik Enterprises Private Limited	10427 U29222PB1990PTC10427
428.	M/s. K. K. Enterprises Limited	6360 U52110PB1985PLC6360
429.	M/s. Ravi Mercantile Agencies Private Limited	14854 U51909PB1994PTC14854
430.	M/s. Gautam Fastners Private Limited	18250 U28939PB1996PTC18250
431.	M/s. V. K. Overseas Private Limited	10214 U18209CH1990PTC10214
432.	M/s. Bee Kay Sales Private Limited	10462 U51229CH1990PTC10462

1	2	3
433.	M/s. Avenue Hire Purchase and Leasing Private Limited	10680 U65921PB1990PTC10680
434.	M/s. Upper India Finance & Chit Fund Private Limited	2950 U65921PB1970PTC2950
435.	M/s. ANC Associates Private Limited	9812 U74140CH1989PTC9812
436.	M/s. IHDOS Lyna International Private Limited	21792 U25112PB1998PTC21792
437.	M/s. Step-up Traders Private Limited	22021 U51229PB1998PTC22021
438.	M/s. Trimurti Castings Private Limited	4585 U27310PB1981PTC4585
439.	M/s. Dhingra Advances and Deposits Private Limited	9882 U65921PB1989PTC9882
440.	M/s. Frontier Exports Private Limited	10779 U51909PB1990PTC10779
441.	M/s. Abhi Deposits and Advances Private Limited	9817 U65921CH1989PTC9817
442.	M/s. SPG Computers Limited	22015 U80302CH1998PLC22015
443.	M/s. X L O Brake Co. (Punjab) Limited	6529 U34300PB1985PTC6529
444.	M/s. Sonalika Consul- tants Private Limited	5896 U74140PB1984PTC5896
445.	M/s. Leco Engineers and Builders Limited	22229 U45203CH1999PLC22229
446.	M/s. Toor Builders and Developers Private Limited	18728 U70101PB1996PTC18728
447.	M/s. Galactic Sales Private Limited	12607 U34100CH1992PTC12607
448.	M/s. Blue Moon Information Techno- logies Private Limited	23645 U72200PB2000PTC23645
449.	M/s. Bright Agro Food Products Private Limited	22788 U15203PB1999PTC22788
450.	M/s. Makkar Castings Private Limited	20666 U29246PB1997PTC20666
451.	M/s. Saidha Associated Private Limited	10886 U74999CHD1990PTC10886

1	2	3
452.	M/s. Citi Deposits & Advances Private Limited	10733 U65921CHD1990PTC10733
453.	M/s. Arjun Castings Private Limited	12305 U27310CH1992PTC12305
454.	M/s. Pragati Housing and Finance Private Limited	11961 U45201CHD1992PTC11961
455.	M/s. Mohan Deposits and Advances Private Limited	11985 U65921CHD1992PTC11985
456.	M/s. AGK Technowell Private Limited	19967 U29246CH1997PTC19967
457.	M/s. Partap Motor Finance Private Limited	6629 U65921HP1986PTC6629
458.	M/s. City Link Info Private Limited	22738 U72900PB1999PTC22738
459.	M/s. Malwa Soap Mills Private Limited	17616 U24241PB1996PTC17616
460.	M/s. Grand Mall Super Market Private Limited	23434 U51221PB2000PTC23434
461.	M/s. Goindwal Engi- neers Private Limited	9602 U31300PB1989PTC9602
462.	M/s. Surya Steels Private Limited	6434 U27104PB1985PTC6434
463.	M/s. A R K Consultants Private Limited	8566 U74210CH1988PTC8566
464.	M/s. Adit Capital Services Private Limited	13921 U65191CH1993PTC13921
465.	M/s. Sanawar Properties Limited	11091 U70101PB1991PLC11091
466.	M/s. Golden Corru- gated Private Limited	19522 U22012PB1997PTC19522
467.	M/s. Lamba Motels Limited	19357 U55101CH1997PLC19357
468.	M/s. Sampuran Traders Private Limited	21314 U51225PB1998PTC21314
469.	M/s. Jai Kala Enter- prises Private Limited	4975 U55101HP1982PTC4975
470.	M/s. Shere Punjab Bus Service Private Limited	4003 U60221PB1979PTC4003
471.	M/s. Venus Fincap Services Limited	16853 U67120CH1995PTC16853
472.	M/s. Satkar Hotels Private Limited	21145 U55101PB1998PTC21145

1	2	3
473.	M/s. Adarsh Axle Housings Private Limited	11885 U45201CHD1992PTC11885
474.	M/s. Varun Dyes Private Limited	5837 U24114PB1984PTC5837
475.	M/s. Rishu Agro Spices Private Limited	16379 U15136HP1995PTC16379
476.	M/s. Sham Ji Steels Private Limited	17390 U27105PB1995PTC17390
477.	M/s. S. S. Auto Advances Private Limited	20389 U65921PB1997PTC20389
478.	M/s. M. Kay Chemicals and Pigments Private Limited	17043 U24114PB1995PTC17043
479.	M/s. K. S. Tea Company Private Limited	22220 U01132PB1999PTC22220
480.	M/s. Kinetic Finlease Limited	20049 U65921PB1997PTC20049
481.	M/s. Milap Finlease Company Private Limited	20190 U65921PB1997PTC20190
482.	M/s. SAR Computers Private Limited	21183 U80904PB1998PTC21183
483.	M/s. Lego Finvest Private Limited	18478 U67120PB1996PTC18478
484.	M/s. Vinsro Compu Systems Private Limited	17932 U72200CH1996PTC17932
485.	M/s. Nisco Surgicals Private Limited	23873 U33125CH2000PTC23873
486.	M/s. AVS Corporate Consultants Private Limited	23789 U74140CHD2000PTC23789
487.	M/s. Hayre Finance Private Limited	8617 U65921PB1988PTC8617
488.	M/s. M. B. Deposits Private Limited	12113 U65921CHD1992PTC12113
489.	M/s. Interact Exports Private Limited	10125 U51311PB1990PTC10125
490.	M/s. K. S. M. Financial Services Private Limited	16630 U67120PB1995PTC16630
491.	M/s. Jagraon Investments Private Limited	20925 U65921PB1998PTC20925
492.	M/s. Crop Care Bio Pesticides Limited	16985 U24231PB1995PLC16985

1	2	3
493.	M/s. Majestic Finvest Private Limited	16263 U67120PB1995PTC16263
494.	M/s. Mukti Gases Private Limited	17444 U40200PB1995PTC17444
495.	M/s. XLO Beral (Punjab) Limited	5424 U28999CHD1983PTC5424
496.	M/s. Futuristic Foods Limited	16254 U15116PB1995PLC16254
497.	M/s. Kalpana Financial Consultants Private Limited	16629 U67120PB1995PTC16629
498.	M/s. New Millennium Immigration Consultants Private Limited	7951 U74999CHD1988PTC7951
499.	M/s. Mack Hosiery Private Limited	17051 U18101PB1995PTC17051
500.	M/s. Esstee Cements Limited	16896 U26942PB1995PLC16896
501.	M/s. Northern Security Services Private Limited	17005 U74999PB1995PTC17005
502.	M/s. Vashist Alloys Private Limited	6522 U27106HP1985PTC6522
503.	M/s. Airpack Air-conditioning Consultants Private Limited	15649 U85320CH1995PTC15649
504.	M/s. Oceanic Investments Private Limited	16041 U67120CH1995PTC16041
505.	M/s. Rajputana Enterprises Private Limited	20330 U51109CH1997PTC20330
506.	M/s. Anuvar Systems Private Limited	23106 U55101PB1999PTC23106
507.	M/s. Amar Duplex Boards Limited	17334 U21012PB1995PLC17334
508.	M/s. Bhawani Automobiles Limited	20226 U29246PB1997PLC20226
509.	M/s. J. P. S. Builders Private Limited	16408 U45201PB1995PTC16408
510.	M/s. Anchit Exports Limited	16230 U15209PB1995PLC16230
511.	M/s. Commander Hotels Private Limited	19363 U55101PB1997PTC19363
512.	M/s. Bal Investment Private Limited	2432 U65921PB1962PTC2432

1	2	3
513.	M/s. Kansas Health Care Limited	24173 U24235CH2001PLC24173
514.	M/s. Vishal Finvest Private Limited	16152 U65999CH1995PTC16152
515.	M/s. City Heart Resorts Private Limited	23756 U55101PB2000PTC23756
516.	M/s. Geetansh Finance Company Private Limited	2855 U65921PB1969PTC2855
517.	M/s. Stokes Wines and Cider Private Limited	9513 U15520HP1989PTC9513
518.	M/s. Punjab Techchems Private Limited	6415 U91120PB1985PTC6415
519.	M/s. Reliance Hotels Limited	7307 U55101CH1987PLC7307
520.	M/s. Camey Shoes Private Limited	23764 U19201PB2000PTC23764
521.	M/s. Shantz Consultants Private Limited	18153 U74140PB1996PTC18153
522.	M/s. Sangram Metals Limited	9543 U27109PB1989PLC9543
523.	M/s. Single Window Services Private Limited	17777 U51599PB1996PTC17777
524.	M/s. Raja Bhagwan Singh Hotel Private Limited	3566 U55101CH1975PTC3566
525.	M/s. SSGM Properties Private Limited	20841 U70101CHD1997PTC20841
526.	M/s. N. C. Pharmaceuticals Private Limited	6997 U24239HP1986PTC6997
527.	M/s. Syal Cold Storage Private Limited	18647 U63022PB1996PTC18647
528.	M/s. Bellsoft Infotek Private Limited	23148 U72100CH1999PTC23148
529.	M/s. Nano Infotech Private Limited	23560 U72200CH2000PTC23560
530.	M/s. M. G. Financiers Private Limited	19268 U65921PB1997PTC19268
531.	M/s. Bajwa Finance Private Limited	3078 U65921CH1971PTC3078
532.	M/s. Canon Tools Limited	19265 U28932CHD1997PLC19265
533.	M/s. Superior Wines Private Limited	22562 U15220PB1999PTC22562

1	2	3
534.	M/s. Farmers Marketing Company Private	22591 U51109HP1999PTC22591
535.	M/s. Roter Equipments Equipments Private	21151 U51501PB1998PTC21151
536.	M/s. Cosmos Tours Private Limited	17486 U63040CH1995PTC17486
537.	M/s. Panchkula Biomed Private Limited	22468 U85110CH1999PTC22468
538.	M/s. Turning Point Resorts Private Limited	22600 U55101PB1999PTC22600
539.	M/s. Sagar Yarns Private Limited	16700 U17117PB1995PTC16700
540.	M/s. Jetage Multi-media Gallery Private Limited	21015 U30007CH1998PTC21015
541.	M/s. Utech Products Private Limited	21482 U33119CHD1998PTC21482
542.	M/s. Pattar Hire Purchase Private Limited	14974 U65921PB1994PTC14974
543.	M/s. Jalandhar Textiles Private Limited	13295 U17219PB1993PTC13295
544.	M/s. Grid Electronics Control System Private Limited	25589 U32109CH2002PTC25589
545.	M/s. Shreshth Tools Limited	22177 U28999PB1999PLC22177
546.	M/s. Diamond Castle Tradelinks Private Limited	24717 U52599PB2001PTC24717
547.	M/s. Ankur Spices Limited	23022
548.	M/s. Charlie Beverages and Foods Limited	13305 U15549PB1993PLC13305
549.	M/s. Tendercare Hospital Private Limited	20847 U85110CHD1997PTC20847
550.	M/s. Himalaya Carpets Underlay Private Limited	21721 U17223PB1998PTC21721
551.	M/s. Vohra Finance Traders Private Limited	4868 U65921CHD1982PTC4868
552.	M/s. Khurana Foundry (India) Private Limited	5409 U27310CH1983PTC5409
553.	M/s. Alma Films Private Limited	22461 U92120CH1999PTC22461
554.	M/s. Ana Health Care Private Limited	24807 U92411CH2001PTC24807

1	2	3	1	2	3
555.	M/s. Saini Consultants Private Limited	20789 U74140CHD1997PTC20789	575.	M/s. Gagnesh Apparels Private Limited	21321 U17115PB1998PTC21321
556.	M/s. Online Internet Services Private Limited	22864 U64202CH1999PTC22864	576.	M/s. Shivalik Industries Private Limited	6729 U51P0096CHD1986PTC6729
557.	M/s. Ankit Textiles Private Limited	17608 U18101PB1996PTC17608	577.	M/s. Leatho Foam Private Limited	4966 U19201CHD1982PTC4966
558.	M/s. Snacks Times Marketing Limited	23247 U15209CH2000PLC23247	578.	M/s. Stelco Chemicals Private Limited	16626 U24242CH1995PTC16626
559.	M/s. Mallah Finance and Investment Private Limited	19087 U65921CH1996PTC19087	579.	M/s. Taurus Transport Private Limited	21354 U63090CH1998PTC21354
560.	M/s. JTV Hire Purchase Leasing Private Limited	20506 U65921CH1997PTC20506	580.	M/s. Crown Associates Private Limited	6385 U74999HP1985PTC6385
561.	M/s. Punjab Rajasthan Hire Purchase Private Limited	6673 U65921PB1986PTC6673	581.	M/s. Perfect Match Marketing Private Limited	16337 U24291PB1995PTC16337
562.	M/s. Soft Brains Investment Private Limited	15251 U67120CH1994PTC15251	582.	M/s. Viveka Goods Carriers Private Limited	21164 U34102PB1998PTC21164
563.	M/s. Prabli Tools Private Limited	20256 U24114PB1997PTC20256	583.	M/s. Tripta Rotofab Limited	17289 U17115CH1995PLC17289
564.	M/s. Arjun Fabrics Private Limited	19613 U523222PB1997PTC19613	584.	M/s. Gagan Motors Private Limited	19632 U6002100PB1997PTC19632
565.	M/s. Ice Berg Refrigerated Godown Private Limited	20240 U63022PB1997PTC20240	585.	M/s. Hayer Finvest Private Limited	16698 U65921CH1995PTC16698
566.	M/s. B. K. Finvest Limited	16305 U65921PB1995PLC16305	586.	M/s. Vir (India) Limited	22379 U51311CH1999PLC22379
567.	M/s. Abhushan Marketing Limited	24005 U51398CH2000PLC24005	587.	M/s. Kay Security Private Limited	23989 U74920CH2000PTC23989
568.	M/s. Aman Roadways Private Limited	19055 U60100PB1996PTC19055	588.	M/s. Achill Exports Private Limited	18771 U51909CHD1996PTC18771
569.	M/s. Necam Engineering Private Limited	25488 U31200CH2002PTC25488	589.	M/s. Sahara Flour and Allied Products Private Limited	22181 U15311PB1999PTC22181
570.	M/s. Swaran Agencies Private Limited	16144 U51101CH1995PTC16144	590.	M/s. Kultej Chit & Finance Private Limited	10615 U65921CH1990PTC10615
571.	M/s. Garg and Company (Electricals) India Limited	23149 U31503PB1999PTC23149	591.	M/s. Gurdarshan Cold Storage Private Limited	18107 U63022CH1996PTC18107
572.	M/s. Kaushal Hosiery and Textile Mills Private Limited	19798 U18101PB1997PTC19798	592.	M/s. Vikas Aluminium Industries Private Limited	8956 U28991HP1989PTC8956
573.	M/s. North India Industrial Finance Limited	7213 U65921CHD1986PLC7213	593.	M/s. Vachitra Packages Private Limited	22045 U21029CH1998PTC22045
574.	M/s. CMC Cassettes Private Limited	17067 U32109PB1995PTC17067	594.	M/s. Sunrise Flora Private Limited	18601 U15310CHD1996PTC18601

1	2	3	1	2	3
595.	M/s. Makkar Hire Purchase Private Limited	10210 U65921PB1990PTC10210	613.	M/s. Vikasdeep Earth Movers Private Limited	10916 U60231CHD1990PTC10916
596.	M/s. Jaggi Finvest Private Limited	18212 U65910PB1996PTC18212	614.	M/s. Regency Fincap Private Limited	15544 U65921PB1995PTC15544
597.	M/s. Bharti Fabrics Private Limited	10458 U18101PB1990PTC10458	615.	M/s. MPM Financial Services Private Limited	14218 U65999CH1994PTC14218
598.	M/s. A P V Capital Services Private Limited	14470 U67120CH1994PTC14470	616.	M/s. Tiny Tot Nursery School Private Limited	9462 U80101CH1989PTC9462
599.	M/s. Perfect Match Manufacturing Private Limited	17573 U24291PB1996PTC17573	617.	M/s. Elgent Properties Private Limited	9181 U70101CH1989PTC9181
600.	M/s. Suvi Associates Private Limited	12050 U74210CHD1992PTC12050	618.	M/s. Noble Enterprises Private Limited	15119 U31200PB1994PTC15119
601.	M/s. Creative Musical Company Private Limited	14736 U32303PB1994PTC14736	619.	M/s. Akal-Garh Poultry Farms Private Limited	9200 U01222PB1989PTC9200
602.	M/s. Easy Goods Carriers Private Limited	19343 U60210PB1997PTC19343	620.	M/s. Swati Hire Purchase Financiers Private Limited	12162 U65921CH1992PTC12162
603.	M/s. Anchal Financial Consultants Private Limited	14576 U67120CH1994PTC14576	621.	M/s. Friends Spring Leaves Private Limited	16271 U28991PB1995PTC16271
604.	M/s. Unitrade Metalics Private Limited	22378 U28910CH1999PTC22378	622.	M/s. Paradise Adventure Club Private Limited	15202 U92419CH1994PTC15202
605.	M/s. P. D. Jayan & Co. Private Limited	6204 U55909CHD1985PTC6204	623.	M/s. Ralli Sharma Surveyors Private Limited	13616 U74140PB1993PTC13616
606.	M/s. Bristol Tapes Private Limited	18437 U25209PB1996PTC18437	624.	M/s. Mehra Processors Private Limited	13552 U18101PB1993PTC13552
607.	M/s. Blooming Exports Limited	16597 U151909PB1995PLC16597	625.	M/s. Siera Impex Private Limited	13536 U51494PB1993PTC13536
608.	M/s. New Chandigarh Trading Company Private Limited	16145 U51101CH1995PTC16145	626.	M/s. Canary Capital Services Private Limited	15371 U67120PB1994PTC15371
609.	M/s. Yuvi Finance Limited	14953 U65921CH1994PLC14953	627.	M/s. Gobind Roadways Private Limited	13805 U60221PB1993PTC13805
610.	M/s. Shine Star Hire Purchase Private Limited	14613 U65921PB1994PTC14613	628.	M/s. Prime Star Fibres Limited	15753 U18101PB1995PLC15753
611.	M/s. A. K. Investigators and Loss Assessors Private Limited	14440 U67200CH1994PTC14440	629.	M/s. Ishaan Televisions (India) Limited	15511 U32101CH1994PLC15511
612.	M/s. Crystal Financial Services Private Limited	14192 U67120CH1994PTC14192	630.	M/s. Surya Syncot Limited	15545 U17115PB1995PLC15545
			631.	M/s. Ropar Foods Private Limited	9337 U63022PB1989PTC9337
			632.	M/s. Rachita Fashions Private Limited	23999 U18101PB2000PTC23999

1	2	3
633.	M/s. R K Electro Cables Limited	17125 U31300PB1995PLC17125
634.	M/s. HR Minds.Com Private Limited	23572 U74140CH2000PTC23572
635.	M/s. V. R. Technologies Private Limited	23433 U64202CH2000PTC23433
636.	M/s. Hill View Hydraulics Private Limited	14384 U28939CH1994PTC14384
637.	M/s. Octopus Multi-vision Private Limited	23675 U80302PB2000PTC23675
638.	M/s. Kay Jay Alloys Private Limited	9993 U27310PB1990PTC9993
639.	M/s. Kothari Finlease Limited	16046 U65921PB1995PLC16046
640.	M/s. Specialist Legal Consultants Private Limited	23714 U74140PB2000PTC23714
641.	M/s. Chandi Expo. Trading & Investments Private Limited	24101 U67120CH2000PTC24101
642.	M/s. Drona Security and Services Private Limited	20073 U74910CH1997PTC20073
643.	M/s. G. H. P. Hotels and Restaurants Private Limited	15582 U55101CH1995PTC15582
644.	M/s. S. S. Fabrics Private Limited	9201 U17117PB1989PTC9201
645.	M/s. K T Himalyan Resorts Limited	13798 U55101HP1993PLC13798
646.	M/s. Marya Sales Private Limited	21192 U64201CH1998PTC21192
647.	M/s. Ana Vision Limited	10754 U31504PB1990PLC10754
648.	M/s. V. G. Exim Private Limited	19811 U18101CH1997PTC19811
649.	M/s. Rio Credits Limited	13361 U65921CH1993PLC13361
650.	M/s. Moon Tech Fabricators Private Limited	20881 U27106PB1997PTC20881
651.	M/s. Haryana Packages Private Limited	3985 U21029CH1979PTC3985
652.	M/s. Sunbless Investments Private Limited	17487 U67120CH1995PTC17487

1	2	3
653.	M/s. Mediwell Cardiac Care Private Limited	17342 U85110CH1995PTC17342
654.	M/s. Namaskar Advertisements Private Limited	18125 U74300CH1996PTC18125
655.	M/s. Ashiana Cottages Private Limited	15593 U55203CH1995PTC15593
656.	M/s. Azad Advances Private Limited	17347 U65921PB1995PTC17347
657.	M/s. AMT Rolling Mill Machines Private Limited	15501 U27101PB1994PTC15501
658.	M/s. Indian Ocean Malts Private Limited	15595 U15533PB1995PTC15595
659.	M/s. Baharan Punjab Diyan Entertainment Private Limited	25504 U92141PB2002PTC25504
660.	M/s. Midas Bikes Private Limited	13754 U35921PB1993PTC13754
661.	M/s. Vashisht Holdings Private Limited	6832 U67120PB1986PTC6832
662.	M/s. Reliance Strips Private Limited	5918 U27107PB1984PTC5918
663.	M/s. Lakshmi Regency Resorts Private Limited	18243 U55101PB1996PTC18243
664.	M/s. Robust Tyre & Rubber Co. Private Limited	3436 U25119CH1974PTC3436
665.	M/s. Atul Impex Private Limited	16143 U51909CH1995PTC16143
666.	M/s. Kotkapura Deposits Private Limited	18004 U65921PB1996PTC18004
667.	M/s. Pact Credit Private Limited	9714 U65921CH1989PTC9714
668.	M/s. Kidride Industries Private Limited	6489 U51909PB1985PTC6489
669.	M/s. Himachal Telephone Industries Private Limited	6750 U642000HP1986PTC6750
670.	M/s. Astha Enterprises Private Limited	18584 U27310PB1996PTC18584
671.	M/s. Lotus Migration Services Private Limited	25771 U74999PB2003PTC25771
672.	M/s. Unitech Informatics Private Limited	24396 U80302PB2001PTC24396

1	2	3
673.	M/s. Lotus Human Resources Private Limited	25770 U74999PB2003PTC25770
674.	M/s. Paras Financial and Consultancy Services Private Limited	13954 U67120CH1993PTC13954
675.	M/s. Parwanoo Finance and Leasing Private Limited	10571 U65921HP1990PTC10571
676.	M/s. Pragati Financial & Management Consultants Private Limited	6854 U74140CHD1986PTC6854
677.	M/s. R A Agro Chem Aids Private Limited	3915 U51101PB1979PTC3915
678.	M/s. TNT Impex Private Limited	26003 U51397CH2003PTC26003
679.	M/s. PAVM Stockinvest Private Limited	24199 U67120CH2001PTC24199
680.	M/s. Mecleod India Forex Limited	22921 U67110HP1999PLC22921
681.	M/s. Manali Travcard Company Private Limited	20254 U63040HP1997PTC20254
682.	M/s. Kaka Impex Private Limited	22884 U15142PB1999PTC22884
683.	M/s. Cartier Agro Private Limited	24124 U01119HP2000PTC24124
684.	M/s. Siyaram Ruerel Suitings Private Limited	22069 U18101PB1998PTC22069
685.	M/s. Udyog Finance & Chit Fund Private Limited	3047 U65921PB1971PTC3047
686.	M/s. Phoenix Alloys Private Limited	8960 U27105CH1989PTC8960
687.	M/s. Hotel Shiraz Private Limited	4967 U55101PB1982PTC4967
688.	M/s. B J Spinners Private Limited	11055 U17115PB1991PTC11055
689.	M/s. Sehgal Sons (Medicine) Private Limited	8171 U15543PB1988PTC8171
690.	M/s. Raghav Computers and Softwares Private Limited	13078 U72200CH1993PTC13078
691.	M/s. Raghav Software Private Limited	13765 U72200CHD1993PTC13765

1	2	3
692.	M/s. Manali Hotels Limited	12530 U55101HP1992PLC12530
693.	M/s. Punjab Antibiotics Limited	10151 U24232CH1990PLC10151
694.	M/s. AAR EMM Chits and Leasing Private Limited	11895 U65910HP1992PTC11895
695.	M/s. B. Shah Finance Company Private Limited	14700 U65921PB1994PTC14700
696.	M/s. Preet Cold Storage & Ice Factory Private Limited	4593 U63022PB1981PTC4593
697.	M/s. Usman Finance and Real Estate Private Limited	13605 U65921PB1993PTC13605
698.	M/s. Easy Way Publishers & Advertisers Private Limited	24317 U22110PB2001PTC24317
699.	M/s. Lancer Securities Private Limited	23518 U67110CH2000PTC23518
700.	M/s. RCM Pipes Private Limited	23019 U27204CH1999PTC23019
701.	M/s. Acama Software Solutions Limited	23133 U30007PB1999PTC23133
702.	M/s. J. N. H. Enterprises Private Limited	23412 U72200PB2000PTC23412
703.	M/s. Dominant Consultants Private Limited	24959 U74140PB2002PTC24959
704.	M/s. Helpline Traders Network Private Limited	23523 U51391PB2000PTC23523
705.	M/s. Jagsony Transporters & Financiers Private Limited	8946 U65921PB1989PTC8946
706.	M/s. Mandrachal Chemicals Private Limited	3478 U24119PB1974PTC3478
707.	M/s. Bhai Harnam Singh Timbers Private Limited	6931 U20213PB1986PTC6931
708.	M/s. Syner Tech Consultants Private Limited	8676 U74140CH1988PTC8676
709.	M/s. Sangrur Share Traders Limited	12897 U67120PB1993PLC12897
710.	M/s. R P Hire Purchase Private Limited	8866 U65921PB1988PTC8866

1	2	3
711.	M/s. Cosmic Mobitel Private Limited	15995 U64201PB1995PTC15995
712.	M/s. Gurjee Builders Private Limited	14985 U45201PB1994PTC14985
713.	M/s. K.G.B. Tele Eye Private Limited	8545 U29306HP1988PTC8545
714.	M/s. ARE GEE Electro Playmates Private Limited	8546 U29306HP1988PTC8546
715.	M/s. Atul Furniture Private Limited	16142 U36109CH1995PTC16142
716.	M/s. Trend Setters Overseas Private Limited	12081 U74999CHD1992PTC12081
717.	M/s. Multiplex Gifts Private Limited	20607 U51109PB1997PTC20607
718.	M/s. Bhandari Belting Company Private Limited	14539 U25192PB1994PTC14539
719.	M/s. Sudarshan Credit & Advances Private Limited	9583 U65921PB1989PTC9583
720.	M/s. Chatha Hire Purchase Private Limited	11637 U65921PB1991PTC11637
721.	M/s. R. M. Electro Devices Private Limited	8547 U29306HP1988PTC8547
722.	M/s. Vishav Plast Private Limited	23489 U25209PB2000PTC23489
723.	M/s. Century Health Private Limited	5677 U24231CH1983PTC5677
724.	M/s. Jain Solvent Oil Mills Private Limited	3490 U15143PB1974PTC3490
725.	M/s. Har-Jas Electronics Private Limited	6870 U32107PB1986PTC6870
726.	M/s. Crossland Cement Private Limited	18005 U26959PB1996PTC18005
727.	M/s. R. S. Sports Private Limited	22403 U36939PB1999PTC22403
728.	M/s. Hart Computers Private Limited	22976 U72900CHD1999PTC22976
729.	M/s. Narang Deposits Private Limited	14008 U65929PB1993PTC14008
730.	M/s. Eclat Techno Projects Limited	19488 U45201CHD1997PLC19488
731.	M/s. Sky Scanners Cable Network Private Limited	20078 U64202PB1997PTC20078

1	2	3
732.	M/s. Himachal Breweries Limited	17743 U15520HP1996PLC17743
733.	M/s. Jeevasvi Infotech Systems Limited	18223 U30007CH1996PLC18223
734.	M/s. A. S. Hitech Informatics Private Limited	23390 U72900CHD2000PTC23390
735.	M/s. S. B. Finlease Limited	16363 U65910CH1995PLC16363
736.	M/s. Kullu Hydro Generation Company Private Limited	24995 U40101HP2002PTC24995
737.	M/s. Gee Data Solutions Private Limited	25809 U72200CH2003PTC25809
738.	M/s. Canyon Health Care Private Limited	21731 U24232PB1998PTC21731
739.	M/s. Himway Network Services Private Limited	24803 U52599HP2001PTC24803
740.	M/s. Max Capital Limited	23216 U65910PB1999PLC23216
741.	M/s. Ludhiana Fertilizers and Inputs Private Limited	16361 U24129PB1995PTC16361
742.	M/s. Partap Motor Finvest Limited	20222 U65921PB1997PLC20222
743.	M/s. Infotech Services Private Limited	20449 U30007CH1997PTC20449
744.	M/s. Sky Scanners Cable Vision Private Limited	23797 U64204CHD2000PTC23797
745.	M/s. Northern Antibiotics and Vitamins Private Limited	17924 U24231CH1996PTC17924
746.	M/s. Gee Bee Magnetic World Private Limited	23922 U85199CH2000PTC23922
747.	M/s. NKH Forging Machinery Private Limited	19280 U29219PB1997PTC19280
748.	M/s. NKH Machine Tools Private Limited	19281 U28939PB1997PTC19281
749.	M/s. Mahant Overseas Private Limited	16511 U15312PB1995PTC16511
750.	M/s. Caravan Resorts Private Limited	10852 U55101HP1990PTC10852
751.	M/s. Prabhu Kirpa Knits Private Limited	21971 U27115PB1998PTC21971

1	2	3
752.	M/s. Singh Agencies Private Limited	20735 U51909CH1997PTC20735
753.	M/s. Heavens Travels Private Limited	21415 U63040PB1998PTC21415
754.	M/s. Naroha Minerals Private Limited	8408 U15543PB1988PTC8408
755.	M/s. STTAG Finance Private Limited	11833 U65921PB1991PTC11833
756.	M/s. Avon Flashlights Private Limited	18403 U31909PB1996PTC18403
757.	M/s. Neel Kanth Iron Mills Private Limited	22552 U27105PB1999PTC22552
758.	M/s. Eisham Marketing Private Limited	26068 U52599HP2003PTC26068
759.	M/s. J. M. Impex Private Limited	7721 U51109PB1987PTC7721
760.	M/s. J. T. Televisions Private Limited	7169 U32200PB1986PTC7169
761.	M/s. Amritsar Investment & Finance Private Limited	5986 U65921PB1984PTC5986
762.	M/s. Pearl Automobiles India Limited	2719 U34300PB1967PLC2719
763.	M/s. K C Consultants Private Limited	6760 U74140CHD1986PTC6760
764.	M/s. Kohli Poultry Feeds Private Limited	9206 U15332PB1989PTC9206
765.	M/s. Sandeep Oxygen Co. Private Limited	8609 U24112PB1988PTC8609
766.	M/s. Derby Impex Private Limited	12436 U29260PB1992PTC12436
767.	M/s. Hardesh Financial & Industrial Consultancy (Private) Limited	9317 U74140CH1989PTC9317
768.	M/s. Genuine Wheels (India) Private Limited	11296 U35921PB1991PTC11296
769.	M/s. Apka Paper and Chemicals Private Limited	4846 U51909PB1982PTC4846
770.	M/s. Indo Soviet Tyres Limited	9580 U25111PB1989PLC9580
771.	M/s. HMB Finvest Limited	15791 U65921PB1995PLC15791
772.	M/s. Punjab Lloyd Appliances Limited	10186 U29305CH1990PLC10186

1	2	3
773.	M/s. Hardesh Chits and Finance Private Limited	8759 U65992CH1988PTC8759
774.	M/s. Vishav Autos Private Limited	15001 U28932PB1994PTC15001
775.	M/s. Star Hire Purchase Private Limited	4920 U65921PB1982PTC4920
776.	M/s. Partap Cement Private Limited	4976 U26941CHD1982PTC4976
777.	M/s. Rainbow Drugs Limited	12657 U51109CH1992PLC12657
778.	M/s. Shimmers Business House Private Limited	7689 U72200CH1987PTC7689
779.	M/s. US Industries Private Limited	5669 U00000CH1983PTC5669
780.	M/s. Punjab Agro-Weedicides Limited	5668 U24299CHD1983PLC5668
781.	M/s. Chowdhry Ram Kishan Finance & Investment Private Limited	5529 U65921PB1983PTC5529
782.	M/s. Hindustan Pulverising Mills Private Limited	5219 U24299CHD1982PTC5219
783.	M/s. M. L. Builders Private Limited	5046 U45202CHD1982PTC5046
784.	M/s. Chanan Papers Private Limited	4502 U21012CH1981PTC4502
785.	M/s. Shaktimaan Fibres Private Limited	14074 U17115PB1993PTC14074
786.	M/s. Angel Pharmaceuticals Private Limited	4387 U24232PB1981PTC4387
787.	M/s. Koln Consultants Private Limited	9214 U74140CH1989PTC9214
788.	M/s. Raj & Company Contractors Private Limited	4051 U74210PB1979PTC4051
789.	M/s. Vishwadeep Private Limited	4224 U27106PB1980PTC4224
790.	M/s. Cheap Finance Private Limited	3660 U65993PB1976PTC3660
791.	M/s. Chowdhury Hire Purchase Private Limited	3967 U65921PB1979PTC3967
792.	M/s. Mens Apparels Private Limited	23043 U17299PB1999PTC23043
793.	M/s. Banga Financiers Private Limited	6293 U65921PB1985PTC6293

1	2	3
794.	M/s. Farm Engineers Private Limited	8198 U34102PB1988PTC8198
795.	M/s. Hamsai Pharmaceuticals Private Limited	7990 U24293PB1988PTC7990
796.	M/s. Nalagarh Finance Private Limited	7481 U65921HP1987PTC7481
797.	M/s. Shree Krishna Chemicals and Iron Private Limited	23418 U24110PB2000PTC23418
798.	M/s. Lakra Cycles Private Limited	7458 U35921PB1987PTC7458
799.	M/s. Aims Automation Private Limited	17661 U72100PB1996PTC17661
800.	M/s. Kamdhenu Hire Purchase Private Limited	15290 U65921HP1994PTC15290
801.	M/s. Accurate Projects and Capital Services Limited	15492 U67120PB1994PLC15492
802.	M/s. Vikrant Overseas Private Limited	23170 U51109PB1999PTC23170
803.	M/s. King Infotech Software Solutions Limited	23034 U64202PB1999PLC23034
804.	M/s. Sahib Credits Private Limited	11671 U65921CHD1991PTC11671
805.	M/s. Pearl Sales Private Limited	9370 U51909PB1989PTC9370
806.	M/s. Fancy Laces Private Limited	13477 U17297PB1993PTC13477
807.	M/s. Hamsai Finance Private Limited	9316 U65921PB1989PTC9316
808.	M/s. Yograj Hotels and Resorts Limited	15212 U55101HP1994PLC15212
809.	M/s. Jainsons Soaps and Detergents Private Limited	15448 U24241CH1994PTC15448
810.	M/s. Hoshiarpur Agriculture & Allied Industries Private Limited	3087 U29211PB1971PTC3087
811.	M/s. William Textiles Limited	16334 U17115PB1995PLC16334
812.	M/s. Raj Biotech Products Limited	17441 U124232PB1995PLC17441
813.	M/s. SMS Computers Private Limited	20790 U72200CHD1997PTC20790

1	2	3
814.	M/s. Agripest Management Consultants Private Limited	21166 U74140PB1998PTC21166
815.	M/s. Prestige Bowling and Billiards Private Limited	21599 U36934PB1998PTC21599
816.	M/s. Kesri Finvest Private Limited	21228 U65921PB1998PTC21228
817.	M/s. Fantastic Foods Private Limited	21190 U15310PB1998PTC21190
818.	M/s. G. R. Immigration Services Private Limited	21842 U72900PB1998PTC21842
819.	M/s. G.L.R. Impex Private Limited	21944 U51909PB1998PTC21944
820.	M/s. Venus Health Care Products Limited	16711 U85199CH1995PLC16711
821.	M/s. B. B. Hatcheries Private Limited	18192 U01222CH1996PTC18192
822.	M/s. Toptech Constructions Private Limited	19600 U45202CHD1997PTC19600
823.	M/s. Gujranwala Agro Seeds Private Limited	16562 U01119PB1995PTC16562
824.	M/s. Vardhman Garments (India) Limited	18346 U52322PB1996PLC18346
825.	M/s. Jalandhar Palace and Resort Private Limited	22268 U55101PB1999PTC22268
826.	M/s. Malwa Civil Projects Private Limited	18187 U15203PB1996PTC18187
827.	M/s. Knomo Finance Limited	17291 U67120PB1995PLC17291
828.	M/s. Satkar Engineering Private Limited	22629 U28999CH1999PTC22629
829.	M/s. Uttam Aircon Private Limited	21137 U29309PB1998PTC21137
830.	M/s. Sarswati Leasing Limited	18271 U65921CH1996PLC18271
831.	M/s. Sairam Impex Private Limited	20669 U51909CH1997PTC20669
832.	M/s. SLR Properties and Builders Private Limited	17563 U45203PB1996PTC17563
833.	M/s. Krikan Agencies Private Limited	17318 U65921PB1995PTC17318

1	2	3
834.	M/s. Alfa Finance Private Limited	17910 U65910PB1996PTC17910
835.	M/s. Niti Traders Private Limited	9597 U51225PB1989PTC9597
836.	M/s. Ashiana Deposits Private Limited	11004 U65921CHD1991PTC11004
837.	M/s. Sukhbani Exports Private Limited	10620 U51909CH1990PTC10620
838.	M/s. Penzy Exports Private Limited	11222 U51398PB1991PTC11222
839.	M/s. Eminent Distillers and Bottlers Private Limited	14655 U15331PB1994PTC14655
840.	M/s. SRA Builders Private Limited	16608 U45202PB1995PTC16608
841.	M/s. Kamal Holidays Resorts Private Limited	10498 U55201PB1990PTC10498
842.	M/s. Everest Spinning Mills Private Limited	8380 U17116HP1988PTC8380
843.	M/s. Perfect Real Estates Private Limited	9066 U70101CH1989PTC9066
844.	M/s. Shalimar Foods Private Limited	8268 U15499PB1988PTC8268
845.	M/s. Apple Computers Private Limited	8477 U72200PB1988PTC8477
846.	M/s. Sunbeam Resorts Private Limited	14077 U55101HP1994PTC14077
847.	M/s. Punjab Knitters Limited	13468 U18101PB1993PLC13468
848.	M/s. Okasa Petroleums Private Limited	13821 U24111PB1993PTC13821
849.	M/s. A. J. Sales Private Limited	9863 U51909CHD1989PTC9863
850.	M/s. Curio Organics Private Limited	15012 U24231CH1994PTC15012
851.	M/s. Cool Home Finance Private Limited	15302 U65921CH1994PTC15302
852.	M/s. Total Solution Computech Limited	15096 U72200CHD1994PLC15096
853.	M/s. Sahib Bottling and Petroleum Gases Private Limited	13592 U23203PB1993PTC13592
854.	M/s. K. L. Raj Kumar Jain Hosiery Private Limited	11850 U17111PB1991PC11850

1	2	3
855.	M/s. Ultra Vision Diagnostic Private Limited	15555 U85195PB1995PTC15555
856.	M/s. J. S. Advisors and Consultants Private Limited	14694 U67120PB1994PTC14694
857.	M/s. Revap Softech Private Limited	24690 U72200HP2001PTC24690
858.	M/s. Kahan Chemicals Private Limited	12322 U24119CH1992PTC12322
859.	M/s. Baron Breweries Private Limited	14835 U15520PB1994PTC14835
860.	M/s. Atul Roller Flour Mills Private Limited	12900 U15311PB1993PTC12900
861.	M/s. Tenet Consultants Private Limited	19876 U74140PB1997PTC19876
862.	M/s. Quality Sourcing and Services (India) Private Limited	21169 U74140CH1998PTC21169
863.	M/s. Gee Kay Buildcon Private Limited	22170 U45201PB1999PTC22170
864.	M/s. Tejpal and Sons Finance Private Limited	17988 U65921PB1996PTC17988
865.	M/s. VN Fincap Private Limited	16372 U65921PB1995PTC16372
866.	M/s. New Dashmesh Printers Private Limited	23187 U74300PB1999PTC23187
867.	M/s. Surabhi Cassettes Private Limited	17693 U92312CH1996PTC17693
868.	M/s. Vijayta Textiles Private Limited	22076 U17116PB1998PTC22076
869.	M/s. H. V. Dycovors Private Limited	8480 U17120HP1988PTC8480
870.	M/s. AR Finvest Private Limited	16373 U65921PB1995PTC16373
871.	M/s. AV Fincap Private Limited	16371 U65921PB1995PTC16371
872.	M/s. Maa Hateshari Construction Private Limited	24265 U45201HP2001PTC24265
873.	M/s. Awaaz Entertainment Private Limited	24407 U92112CH2001PTC24407
874.	M/s. G. J. Petros Private Limited	23055 U23209PB1999PTC23055

1	2	3
875.	M/s. Friends High Tech Refineries Private Limited	18640 U23209PB1996PTC18640
876.	M/s. Chhabra Strips Limited	18864 U27105CH1996PLC18864
877.	M/s. Brahm Finvest Private Limited	18216 U65921CH1996PTC18216
878.	M/s. Guru Kirpa Hire Purchase Private Limited	18337 U65921PB1996PTC18337
879.	M/s. Kashmir Herbs and Remedies Limited	17343 U24233CH199517343
880.	M/s. AS Capital Services Private Limited	16374 U65921PB1995PTC16374
881.	M/s. Premium Apartments Limited	17884 U45201PB1996PLC17884
882.	M/s. R. S. Holiday Resorts Private Limited	16883 U55101HP1995PTC16883
883.	M/s. Dalhousie Trade Links Private Limited	17001 U1909PB1995PTC17001
884.	M/s. Rudra Fincap Private Limited	18910 U65921PB1996PTC18910
885.	M/s. Sanjot Textiles Private Limited	24025 U17115PB2000PTC24025
886.	M/s. Ashirwad Diagnostic & Cure Centre Private Limited	16429 U85195PB1995PTC16429
887.	M/s. Super Zion Shopping Network Private Limited	25490 U52599PB2002PTC25490
888.	M/s. Shere Punjab Hire Purchase Company Private Limited	16188 U65921PB1995PTC16188
889.	M/s. R. K. Finman Private Limited	18340 U67120PB1996PTC18340
890.	M/s. G. J. Polypack Private Limited	22174 U25209PB1999PTC22174
891.	M/s. Paragon Tools Private Limited	16028 U28931PB1995PTC16028
892.	M/s. Atlas Hire Purchase Private Limited	18908 U65921PB1996PTC18908
893.	M/s. APN Professional Services Private Limited	19564 U74140PB1997PTC19564
894.	M/s. Bajwa Steel Grip Private Limited	19599 U27109PB1997PTC19599

1	2	3
895.	M/s. Amandeep Finance Private Limited	18217 U65921PB1996PTC18217
896.	M/s. Sher-e-Punjab Leasing and Investment Company Private Limited	18305 U65921PB1996PTC18305
897.	M/s. Sidhu Hostels Private Limited	22208 U80302PB1999PTC22208
898.	M/s. Mopika Electronics Private Limited	21625 U32301PB1998PTC21625
899.	M/s. Vishav Kiran Enterprises Private Limited	5300 U20299PB1983PTC5300
900.	M/s. Vishav Kiran Savings & Finance Private Limited	4594 U65921PB1981PTC4594
901.	M/s. Narindera Water Management Private Limited	9123 U70101CH1989PTC9123

M. R. DAS
Asstt. Registrar of Companies
Punjab, HP & Chandigarh

In the matter of Companies Act, 1956 and of M/s. Sahu Enterprises Private Limited

Kolkata-700020, the 14th September 2005

No. TS/PVT/560/81367/617.—Notice is hereby given pursuant to Sub-Section (3) of Section 560 of the Companies Act 1956 that at the expiration of three months from the date thereof, the name of M/s. Sahu Enterprises Private Limited unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

T. P. SHAMI
Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of Companies Act, 1956 and of the undermentioned companies

Hyderabad-500195, the 15th September 2005

No. ROC/AP/SES-2005/560(3)/2005.—Notice is hereby given that the following companies have applied to this office for striking off their names under SES-2005 (Simplified Exit Scheme) dated 28.01.2005 of Government of India, Ministry of Company Affairs. Notice is hereby given that after the expiry of 30 days from the date hereof the following names of the companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off as a defunct company from the Registrar of this office and they will be dissolved.

Sl. No.	Company No.	Company Name	Date of Incorporation
1	2	3	4
1.	01-3274	M/s. Satya Jwala Engineering Private Limited	21.11.1981
2.	01-10469	M/s. Pamulapati Southern Engineering Services & Constructions Private Limited	19.09.1999
3.	01-30976	M/s. Vaishnavi Processed Fruits Private Limited	25.01.1999
4.	01-43380	M/s. Manish Cybertech Private Limited	02.06.2004
5.	01-43595	M/s. Vratine Music Private Limited	07.07.2004
6.	01-38672	M/s. Tejornaya Estates & Developers Private Limited	19.03.2002
7.	01-41830	M/s. Saivy Solutions Private Limited	09.10.2003
8.	01-41644	M/s. Vinrock Exports Private Limited	05.09.2003
9.	01-38495	M/s. ILG Corporate Services Private Limited	12.02.2002
10.	01-31294	M/s. Goenka Palm Agro-Tech Limited	09.03.1999
11.	01-38460	M/s. Konag Bio-Nutra-Tek Private Limited	07.02.2002
12.	01-32789	M/s. Innovative Internet Technologies Private Limited	03.11.1999
13.	01-33879	M/s. I Tech Investments Private Limited	15.03.2000
14.	01-31966	M/s. Samaikya Tradings Private Limited	23.06.1999
15.	01-14583	M/s. Duxin Developers Private Limited	28.07.1992
16.	01-31059	M/s. Nanduri Software Solutions Private Limited	08.02.1999
17.	01-36427	M/s. Millenium Placements and Educational Services Private Limited	19.03.2001
18.	01-32871	M/s. Sri Sridevi Power Private Limited	18.11.1999
19.	01-34606	M/s. E-Doctors Net Private Limited	07.06.2000
20.	01-31765	M/s. Jai Kisan Hi-Fin Limited	24.05.1999

1	2	3	4
21.	01-41837	M/s. SMP Milk Products Private Limited	10.10.2003
22.	01-2805	M/s. Hyderabad Forgings Private Limited	15.10.1980
23.	01-11982	M/s. Shanti Remedies Limited	16.11.1990
24.	01-11059	M/s. Pharmasia Health Care Private Limited	27.02.1990
25.	01-27155	M/s. Chaluvadi Finance & Leasing Private Limited	21.05.1997
26.	01-11696	M/s. Archana Plastics Private Limited	06.09.1990
27.	01-36837	M/s. UNI Storage Systems Private Limited	04.06.2001
28.	01-32110	M/s. Kanta Homes Private Limited	16.07.1999
29.	01-37738	M/s. Sri Siva Sankar Automobiles Private Limited	03.09.2001
30.	01-41616	M/s. Sree Tel Technologies (India) Private Limited	01.09.2003
31.	01-3904	M/s. Indusa System Private Limited	13.04.1983
32.	01-39030	M/s. Suresh Advertisers Private Limited	22.05.2002

Any person interested having objection to the proposed striking off of the above mentioned companies may lodge his/their objections in writing within 30 days from the date of this notice with sufficient documentary proof to the undersigned. Failing which the names of the above companies will be struck off as aforesaid without any further notice.

P. ATCHUTA RAMAIAH
Asstt. Registrar of Companies
Andhra Pradesh

In the matter of Companies Act, 1956 and of the following companies

Chennai, the 16th September 2005

No. 1181 to 55703/560(3)/SES-2005.—Notice is hereby given pursuant to Sub Section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following companies, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Name of the Company	1	2	3
1	2	3			
1.	1181	M/s. Suraj Structural Private Limited	16.	39367	M/s. Ruby Software Private Limited
2.	7486	M/s. Chem Tech Consultants Private Limited	17.	41822	M/s. Sar Constructions Private Limited
3.	8448	M/s. Thirupati Match and Tobacco Industries Private Limited	18.	42975	M/s. Forcel Security and Consultancy Services Private Limited
4.	18512	M/s. ABI Arun Cotton Mills Private Limited	19.	43131	M/s. Visual Images Private Limited
5.	19408	M/s. Auto Parts and Accessories Private Limited	20.	44261	M/s. Ecnolus Soft Solutions Private Limited
6.	24274	M/s. ARF Nevsky Engineering Private Limited	21.	45185	M/s. Choodamani Software & Exports Private Limited
7.	27127	M/s. Imagination Management & Applications Technology (India) Private Limited	22.	46578	M/s. Venpat Impex Private Limited
8.	27686	M/s. Topaz Securities Private Limited	23.	47431	M/s. E-Time IT Services (India) Private Limited
9.	28694	M/s. Lashlaan International Private Limited	24.	47976	M/s. Dhruv Agencies Private Limited
10.	29025	M/s. Sumangali Publications Private Limited	25.	48442	M/s. AIMA Hi-Tech India Private Limited
11.	29542	M/s. Parkstone Holdings Private Limited	26.	48589	M/s. A. N. P. Money Changer Private Limited
12.	32282	M/s. Porkodi Chits Private Limited	27.	50423	M/s. Woodlands Motel Private Limited
13.	33122	M/s. Zenith Forms Private Limited	28.	50880	M/s. Perot Systems Private Limited
14.	35472	M/s. Kalyan Petroproducts Private Limited	29.	51371	M/s. Ronasys Technologies Private Limited
15.	37152	M/s. Pani Resorts and Hotels Private Limited	30.	52634	M/s. Pronaya Systems Private Limited
			31.	53654	M/s. Sintelli Software Services Private Limited
			32.	55703	M/s. Sanmar API Limited

S. MEENAKSHI
Asstt Registrar of Companies
Tamilnadu